

मुरादाबाद महायोजना-2031 ड्राफ्ट के सम्बन्ध में जनसामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझाव का विवरण

क्रं सं०	आपत्ति/सुझाव सं०	सुनवाई की तिथि	आवेदक का नाम, पता एवं कान्टैक्ट नं०	प्राप्त आपत्ति/सुझाव का संक्षिप्त सारांश
1	2	3	4	5
1	01/2493/28.03.22	01.11.2022	श्री मदल लाल छावड़ा, पार्टनर, ए0सी0सी0 विल्डवैल, प्रिस रोड मुरादाबाद।	ग्राम सोनकपुर के गाटा सं०-161 की 3379.40 वर्ग मी० भूमि को आवासीय रखा गया है जबकि पूर्व महायोजना में उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग वाणिज्यिक रहा है। तथा वर्तमान में आस-पास पूर्ण रूप से वाणिज्यिक गतिविधि विद्यमान हैं। अतः महायोजना-2031 में प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग वाणिज्यिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2	02/3019/04.04.22	01.11.2022	अजय कुमार नारंग व अन्य पुत्र श्री सुभाष चन्द्र नारंग	गाटा सं०-244, 245 ग्राम सोनकपुर की 1221.78 वर्ग मी० भूमि महायोजना -2021 में आवासीय है। जबकि आस-पास ज्यादातर सीनों पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है। अतः महायोजना-2031 में आवासीय से व्यवसायिक उपयोग दर्ज किया जाए।
3	03/3006/06.04.22	01.11.2022	श्रीमती विमला अग्रवाल पत्नी श्री अनिल कुमार ए-57/58 दीनदयाल नगर मुरादाबाद।	आवेदक द्वारा अपने स्वामित की 370.228 वर्ग मी० भूमि कांट रोड मुख्य मार्ग पर स्थित होने का उल्लेख करते हुए अत्यधिक शोर गुल, ध्वनि प्रदूषण आदि के कारण आवास बनाकर रहना सम्भव नहीं है, इसलिए उक्त भूमि का भू-उपयोग महायोजना में बाजार स्ट्रीट व्यवसायिक में दर्ज किए जाने का अनुरोध किया गया है।
4	04/3009/06.04.22	01.11.2022	श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम नि०-सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम मनोहरपुर गाटा सं०-522, 527 की भूमि को मास्टर प्लान में राजकीय एवं अर्द्धराजकीय उपयोग में दर्शित की गयी है, जबकि आस-पास की भूमि इण्डस्ट्रीयल है। इसलिए उक्त भूमि को भाविक मास्टर प्लान में इण्डस्ट्रीयल किया जाना आवश्यक है। गम्भीरता से विचार किए जाने का अनुरोध किया गया है।
5	05/3010/06.04.22	01.11.2022	श्री अजय कुमार नारंग आदि सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम मंझोला के गाटा सं०-251 जो दिल्ली रोड पर स्थित है महायोजना-2021 में स्थल का भू-उपयोग चिकित्सालय दिया हुआ था जो महायोजना-2031 में भी चिकित्सालय दर्शित हैं। मेरे द्वारा उक्त भूमि पर शोरुम का निर्माण किया जाना है अतः आस-पास की स्थिति को देखते हुए खाली पड़े प्लाट को बाजार स्ट्रीट में परिवर्तित करना बहुत अच्छा है। बाजार स्ट्रीट/व्यवसायिक दर्ज किए जाने का अनुरोध किया गया है।
6	06/3005/06.04.22	01.11.2022	मुरादाबाद इण्डस्ट्रीयल फेक्ट्रीज एसोशिएशन मुरादाबाद द्वारा अध्यक्ष किशन लाल कत्याल सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम मुकरबपुर मुस्तकम के गाटा सं०-18/2 जो कांट रोड पर स्थित है स्थल मुख्य कांट रोड पर स्थित होने के कारण अधित शोरगुल, ध्वनि प्रदूषण होने के कारण आवास बनाकर रहना सम्भव नहीं है आस-पास व्यवसायिक पब्लिक कॉम्प्लेक्स बने हैं। इसलिए अराजी/प्लाट का भू-उपयोग बाजार स्ट्रीट/व्यवसायिक दर्ज किए जाने का अनुरोध किया गया है।
7	07/3007/06.04.22	01.11.2022	श्रीमती किरन धमीजा पत्नी श्री बृजभूषण धमीजा व नीरज देवी पुत्री श्री आमपाल सिंह नि०- दीनदयाल नगर मुरादाबाद।	ग्राम-छावनी के गाटा सं०-328, 329 के अन्तर्गत भूस्वामी की भूमि स्थित है, सम्पत्ति के सामने रोड की चौड़ाई अत्यधिक है, आस-पास के प्लाट/परिसर/शोरुम आदि में व्यवसायिक गतिविधियाँ होती है। इसलिए उक्त भूमि को व्यवसायिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
8	08/2957/08.04.22	01.11.2022	श्री कु० इन्द्रजीत सिंह चड्डा सचिव गोविन्द सहकारी आवास समिति चड्डा पैलेस, प्रिस रोड, मुरादाबाद।	ग्राम भौगपुर मिलौनी उर्फ शीरिकुई तहसील योजना मुरादाबाद के गाटा सं०-1086, 1087, 1095, 1088, 1093, व 1089 की भूमि उ०प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट सं०-865/8-3-14-19एल०यू०सी०-2013 दिनांक 30 मई 2014 द्वारा आवासीय परिवर्तित किया गया है। जिसे आवासीय न दर्शा कर अन्य भू-उपयोग दर्शाया गया है। अतः महायोजना-2031 में उक्त भूमि को सरकारी गजट के अनुसार आवासीय रखे जाने का अनुरोध है।
9	09/ईमेल/313/05.04.2022	01.11.2022	श्री तनवीर अहमद के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में श्री मनीष चन्द्र श्रीवास्तव, अनुसचिव, उ०प्र० शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 05.04.2022 के सम्बन्ध में।	प्रार्थी द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की रामपुर रोड स्थित एकता विहार कालौनी के आस-पास फेक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, जो फेक्ट्री लगी हुई है, वह प्रदूषण उगल रही हैं। यहाँ फेक्ट्रियाँ होनी चाहिए थी वहाँ रिहायशी मकान बन गए और जहा रिहायशी मकान व कॉलोनियां बननी चाहिए थी वहाँ फेक्ट्रीज बन गई हैं। आगामी "मास्टर प्लान 2031" में एकता बिहार कालौनी के आसपास मास्टर प्लान-2021 की यथास्थिति बरकरार रखी जाय, सभी अवैध/प्रदूषण उगलने वाली फेक्ट्रीज को इंडस्ट्रियल एरिया "लक्ष्मीपुर कट्टाई" में शिफ्ट करने हेतु नैसेसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए जाएं, लक्ष्मीपुर कट्टाई इंडस्ट्रीयल एरिया की भूमि के भू-उपयोग जानने हेतु ऑनलाइन सुविधा जनता के लिए उपलब्ध हो इंडस्ट्रीयल फीडर की लाइन लक्ष्मीपुर कट्टाई क्षेत्र में स्थापित हो, लक्ष्मीपुर कट्टाई इंडस्ट्रीयल एरिया के इन्टरनल 24/18 मीटर बाईड मेन रोड का निर्माण आदि के लिए अनुरोध किया गया है।

10	10/3157/18.4.2022	01.11.2022	श्री खलील अहमद पुत्र अबदुल अजीज नि0 मौ0 बरबलान, चामुण्डा गली न0-1 मुरादाबाद	प्रार्थी की भूमि का क्षेत्रफल 770.00 वर्ग मी0 है जो कि मुरादाबाद महायोजना- 2021 मानचित्र के अनुसार ग्राम रामनगर मजरा एह0 तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा सं0-86 व 87 में स्थित है। उक्त दोनो गाटाओं का भू- उपयोग 2021 महायोजना के अनुसार कृषि था जिसे अब महायोजना-2031 में पार्क में तबदील कर दिया गया है। मेरे द्वारा इस भूमि पर वेयर हाउस का निर्माण कराने के लिए मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में है। अतः अनुरोध है कि मेरी भूमि का भू-उपयोग महायोजना-2031 में औद्योगिक कर दिया जाए।
11	11/24/18.04.2022	01.11.2022	श्री गिरीश भण्डूला मोबाईल नं0-9359438900	1-ऐसे निर्मित क्षेत्र जो मास्टर प्लान-2021-2031 मार्ग से 15 मीटर गहराई तक के प्लाटो के लिए बाजार स्ट्रीट जैसे किताब के पृष्ठ-73 पैरा-7,11 में वर्णित निर्धारित की गयी है, जबकि उसकी गहराई अधिक होनी चाहिए या जिस प्रकार से नये क्षेत्र में बाजार का उल्लेख किया गया है उसी प्रकार से होनी चाहिए, ताकि बाजार स्ट्रीट के नियम लागू हो सकें और भूखण्ड पे वांछित विचलन न हो सके। 2-बाजार स्ट्रीट क्षेत्र क भूखण्डो का विभाजन का स्पष्टिकरण करना अति आवश्यक है उप विभाजन की निति को खोला जाए ताकि भविष्य में होने वाले नियोजन विकास में मदद मिल सके।
12	12/25/18.04.2022	01.11.2022	भण्डूला, कपड़ा बाजार मुरा0। मोबाईल नं0-9359438900	1-ऐसे निर्मित क्षेत्र जो मास्टर प्लान-2021-2031 मार्ग से 15 मीटर गहराई तक के प्लाटो के लिए बाजार स्ट्रीट जैसे किताब के पृष्ठ-73 पैरा-7,11 में वर्णित निर्धारित की गयी है, जबकि उसकी गहराई अधिक होनी चाहिए या जिस प्रकार से नये क्षेत्र में बाजार का उल्लेख किया गया है उसी प्रकार से होनी चाहिए, ताकि बाजार स्ट्रीट के नियम लागू हो सकें और भूखण्ड पे वांछित विचलन न हो सके। 2-बाजार स्ट्रीट क्षेत्र क भूखण्डो का विभाजन का स्पष्टिकरण करना अति आवश्यक है उप विभाजन की निति को खोला जाए ताकि भविष्य में होने वाले नियोजन विकास में मदद मिल सके।
13	13/1184/20.04.2022	01.11.2022	श्रीमती अंजली वर्मा, श्री अजय वर्मा, श्रीमती आशा वर्मा, श्रीमती रूपा देवी। ग्राम शाहपुर तिगरी तहसील व जिला मुरादाबाद।	ग्राम शाहपुर तिगरी के गाटा सं0-375 व 376 का भू-उपयोग महायोजना-2031 में नगर पार्क से बदलकर आवासीय किया जाना प्रस्तावित है, तथा गाटा सं0-376 के आगे भी नगर पार्क से बदलकर आवासीय किया जाना प्रस्तावित है। अतः बीच के गाटा सं0-376 को नगर पार्क की श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। गाटा सं0-376 के स्वामित्व की भूमि पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प का आवंटन किया गया है। अतः ग्राम शाहपुर तिगरी के गाटा सं0-375 से सटे गाटा सं0-376 रकबा 0.154 है0 भाग का भू-उपयोग प्रस्तावित मुरादाबाद महायोजना-2031 में आवासीय/ व्यवसायिक करने एवं वर्तमान भू-उपयोग नगर पार्क के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने का कष्ट करें।
14	14/3165/20.04.2022	01.11.2022	श्री संजय कुमार मित्तल, आर्केडिया ग्रीन रामपुर रोड मुरादाबाद।	गजट नोटिफिकेशन सं0-816/8-3-16-02 एल0यू0सी0-14 दिनांक 25.07.2016 में त्रुटिवश गाटा सं0-15 तथा गाटा सं0-16 ग्राम याकूतपुर का भू-उपयोग संशोधित किए जाने के सम्बन्ध में। अतः महायोजना-2031 में उक्त त्रुटि को ठीक किए जाने का अनुरोध किया है।
15	15/3164/20.04.2022	01.11.2022	श्री संजय कुमार मित्तल, आर्केडिया ग्रीन रामपुर रोड मुरादाबाद।	ग्राम-भैसिया के गाटा सं0-234 व 236 रकबा 4200.00 वर्ग मीटर पर मेडिकल कॉलेज का मानचित्र स्वीकृत है, जिसे महायोजना-2031 में हॉस्पिटल दर्शित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
16	16/153/21.04.2022	01.11.2022	श्री विपिन गुप्ता, उपाध्यक्ष, मुरादाबाद वेस्ट इण्डस्ट्रीस चैम्बर दिल्ली रोड मुरादाबाद। मोबाईल नं0-9412235505	1-लोकोशेड ऑवर ब्रीज से लेकर गॉंगन तक के बीच के बांयी तरफ का एरिया इण्डस्ट्रीयल दिखाया गया है, वह व्यवसायिक किया जाना आवश्यक है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकतर आटोमोबाईल, शोरूम, बैंकट हॉल, हॉस्पिटल आदि संचालित है। दांयी तरफ कुछ ग्रीन एरिया दिखाया गया है, जिसके बाद समस्त व्यवसायिक संस्थान चल रहे हैं, जिनको आवासीय भू-उपयोग दर्शाया गया है। 2-मंझोली चौराहे के बाद से गॉंगन तक दांयी तरफ आवास विकास परिषद की आवासीय योजना संचालित है, जिसको आवासीय बने रहने का कोई भी औचित्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर समस्त एक्टिविटी व्यवसायिक है। स्थल पर बने भवनों को चिन्हित कर सर्वे के आधार पर सड़क के दोनो ओर कम से कम 100.00 मीटर दूरी तक व्यवसायिक कर दिया जाए। 3-लाकड़ी फाजलपुर मिनी बाईपास पर बहुत से भूखण्डो पर औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित हो रही है तथा आस-पास कुछ भूखण्ड खाली पड़े हुए है, उनको विकसित किए जाने के लिए 12.00 मीटर सड़क के स्थान पर 9.00 मीटर सड़क करते हुए ले-आउट औद्योगिक में परिवर्तित करते हुए स्वीकृत किया जाए।
17	17/03/21.04.2022	01.11.2022	श्रीमती बीना गुप्ता पत्नी श्री राजीव कुमार गुप्ता नि0-4ए कांट रोड मुरादाबाद।	महायोजना-2031 में ग्राम काजीपुरा कॉसमोस अस्पताल के सामने कांट रोड पर कुछ भूमि का भू-उपयोग ग्रीन वेल्ड की जगह आवासीय/ औद्योगिक किया गया है, जबकि उसी स्थान पर काफी भूमि को पी-3 में यथावत रखा गया है, जो न्याय संगत नहीं है। अतः उक्त समस्त भूमि को आवासीय/ औद्योगिक में किया जाए।

18	18 / 42 / 21.04.2022	01.11.2022	श्री सुनील कुमार अग्रवाल, नि०-जवाहर नगर मुरादाबाद	ग्राम उमरी के गाटा सं०-318, 319 रकबा 0.8000 है० महायोजना-2031 में आवासीय प्रयोजन हेतु सम्मिलित किया गया है, जबकि उसके सामने तथा बराबर में औद्योगिक प्रयोजन के लिए घोषित किया गया है, हमारी आराजी के पास औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित है। अतः महायोजना-2031 में उक्त गाटा को औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है।
19	19 / 3150 / 20.04.2022	01.11.2022	श्री शक्ति भटनागर नि०- रामगंगा विहार फेस द्वितीय। मो० नं०-9720163535	ग्राम-ढक्का कुन्दनपुर के गाटा सं०-22, 23 व 24 जिस पर लगभग 100 वर्ष पुराना सूत मिल है, के भू-उपयोग को औद्योगिक भू-उपयोग को निरस्त कर आवासीय ले-आउट किये जाने का अनुरोध किया है।
20	20 / 1191 / 23.04.2022	01.11.2022	निदेशक सस इन्टरप्राइजेज-39 मधुवनी कालोनी कांठ रोड मुरादाबाद।	ग्राम अगवानपुर उर्फ मुस्तकम के गाटा सं०-2174 रकबा 0.4860 है० का भाग 1/2 जो कि रियाइसी इलाके में दर्ज है, जिसे महायोजना-2031 में कम्प्यूनिटी सेन्टर में दर्ज किए जाने का अनुरोध किया है।
21	21 / ईमेल / 376 / 21.04.2022	01.11.2022	श्री राजेश शर्मा नि०-शंकर नगर लाईन पार मुरादाबाद। मो०नं०-9410677390	मुरादाबाद नगर के सुनियोजित विकास किए जाने हेतु 25 बिन्दुओं के आवश्यक सुझाव।
22	22 / 58 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री विपिन गुप्ता नि०-मधुर विहार कालोनी पीएमएस स्कूल के पास सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम-मनोहरपुर के गाटा सं०-866 घ, के आस-पास के रकबा को महायोजना-2031 में बाजार स्ट्रीट में लिया जा चुका है, गाटा सं०-866 घ में आबादी भी है जिसका सर्वे कराकर निरीक्षण किया जा सकता है। अतः गाटा सं०-866 घ को भी बाजार स्ट्रीट में किए जाने का अनुरोध किया है।
23	23 / 55 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व० प्रमोद कुमार गुप्ता द्वारा आलोक कुमार गुप्ता एडवोकेट।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं०-2115मि० व 2118मि० के आंशिक भाग को ग्रीन वेल्ड में दर्शाया गया है, जबकि उसके आस-पास के रकबों में इण्डस्ट्रीज, आबादी व खेती हो रही, जिसको ग्रीन वेल्ड में किसी भी स्थिति नहीं रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
24	24 / 55 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व० प्रमोद कुमार गुप्ता द्वारा आलोक कुमार गुप्ता एडवोकेट।	ग्राम-मनोहरपुर के गाटा सं०-866 घ, के आस-पास समस्त रकबो को बाजार स्ट्रीट के अन्तर्गत रखा गया है कि स्पष्ट व्यख्या प्रदान करते हुए महायोजना-2031 में किस-किस नियम व निर्देशों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट को लाया जा रहा है।
25	25 / 21 / 21.04.2022	01.11.2022	श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, ओम सन्स हाउस, रामपुर रोड मुरादाबाद।	नया मुरादाबाद में स्थित प्लाट नं०-9 सेक्टर-4 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, जो कि एन०एच-24 सड़क के किनारे होने के कारण अत्यधिक प्रदुषण, गाड़ियों का शोर, धूल गर्द के कारण व्यवहारिक नहीं है, इस क्षेत्र में बने सुपरटेक, प्रतिभा के ग्रुप हाउसिंग वर्षों से नहीं बिक रहे है। अतः महायोजना-2031 में उक्त प्लाट को मुरादाबाद के विकास हेतु मिक्स भू-उपयोग में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।
26	26 / 3029 / 08.04.2022	01.11.2022	श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, ओम सन्स हाउस, रामपुर रोड मुरादाबाद।	नया मुरादाबाद में स्थित प्लाट नं०-9 सेक्टर-4 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, जो कि एन०एच-24 सड़ के किनारे होने के कारण अत्यधिक प्रदुषण, गाड़ियों का शोर, धूल गर्द के कारण व्यवहारिक नहीं है, इस क्षेत्र में बने सुपरटेक, प्रतिभा के ग्रुप हाउसिंग वर्षों से नहीं बिक रहे है। अतः महायोजना-2031 में उक्त प्लाट को मुरादाबाद के विकास हेतु मिक्स भू-उपयोग में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।
27	27 / 1183 / 20.04.2022	01.11.2022	श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, ओम सन्स हाउस, रामपुर रोड मुरादाबाद।	नया मुरादाबाद में स्थित प्लाट नं०-9 सेक्टर-4 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, जो कि एन०एच-24 सड़ के किनारे होने के कारण अत्यधिक प्रदुषण, गाड़ियों का शोर, धूल गर्द के कारण व्यवहारिक नहीं है, इस क्षेत्र में बने सुपरटेक, प्रतिभा के ग्रुप हाउसिंग वर्षों से नहीं बिक रहे है। अतः महायोजना-2031 में उक्त प्लाट को मुरादाबाद के विकास हेतु मिक्स भू-उपयोग में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।
28	28 / 146 / 20.04.2022	01.11.2022	श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, ओम सन्स हाउस, रामपुर रोड मुरादाबाद।	नया मुरादाबाद में स्थित प्लाट नं०-9 सेक्टर-4 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, जो कि एन०एच-24 सड़क के किनारे होने के कारण अत्यधिक प्रदुषण, गाड़ियों का शोर, धूल गर्द के कारण व्यवहारिक नहीं है, इस क्षेत्र में बने सुपरटेक, प्रतिभा के ग्रुप हाउसिंग वर्षों से नहीं बिक रहे है। अतः महायोजना-2031 में उक्त प्लाट को मुरादाबाद के विकास हेतु मिक्स भू-उपयोग में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।
29	29 / 91 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री रविन्द्र कुमार रस्तौगी आदि नि०-लोटस 300 टावर-3 यूनिट-12ए-01 नोएडा सेक्टर -107 पिन-201304	ग्राम भौगपुर मिठौनी उर्फ शीरिकुई के गाटा सं०-1038 क्षेत्र 1.45 है० गाटा सं०-1039 क्षेत्र 0.0160 है० को पार्क क्षेत्र से आस-पास की भूमि गाटा सं०-1036, 1035, 1042, 1043 के समान ही व्यवसायिक में परिवर्तित किया जाए क्योंकि इस क्षेत्र में हॉस्पिटल, फेक्ट्री, आवासीय भवन, मैरिज हॉल, सरकारी आवासीय योजनायें, बैंक आदि संचालित है। अतः महायोजना-2031 में व्यवसायिक भूमि के रूप में किए जाने का अनुरोध किया गया है।

30	30 / 84 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री सोमनाथ पोपली पुत्र श्री नारायण दास पोपली नि०-वारहा नीलकण्ठ कालोनी सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम-मुगलपुर उर्फ अगवानपुर मुस्तकम के गाटा सं०-2354 क्षेत्र 0.983 है० व गाटा सं०-2358 क्षेत्र 0.567 है० एवं ग्राम-काजीपुरा के गाटा सं०-541 क्षेत्र 1.161 है० है, उपरोक्त भूमि कांट रोड हाईवे पर स्थित है तथा उक्त भूमि के पूरब में अपेक्स स्कूल, पश्चिम में पेट्रोल पम्प दक्षिण में रेलवे लाईन तथा उसके ठीक सामने सड़क के पार आम्रपाली बैंकट हॉल है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि ग्रीन वेल्ड न होकर व्यवसायिक/औद्योगिक है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक/व्यवसायिक/ शिक्षण संस्थान में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
31	31 / 83(I) / 23.04.2022	01.11.2022	श्रीमती अंजली वर्मा, श्री अजय वर्मा श्रीमती आशा वर्मा, श्रीमती रूपा देवी। ग्राम शाहपुर तिगरी तहसील व जिला मुरादाबाद।	ग्राम शाहपुर तिगरी के गाटा सं०-375 का भू-उपयोग महायोजना-2031 में नगर पार्क से बदलकर आवासीय किया जाना प्रस्तावित है, तथा गाटा सं०-376 के आगे भी नगर पार्क से बदलकर आवासीय किया जाना प्रस्तावित है। अतः बीच के गाटा सं०-376 को नगर पार्क की श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। गाटा सं०-376 के स्वामित्व की भूमि पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा पेट्रोल पम्प का आवंटन किया गया है। अतः ग्राम शाहपुर तिगरी के गाटा सं०-375 से सटे गाटा सं०-376 रकबा 0.154 है० भाग का भू-उपयोग प्रस्तावित मुरादाबाद महायोजना-2031 में आवासीय/ व्यवसायिक करने एवं वर्तमान भू-उपयोग नगर पार्क के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने का कष्ट करें।
32	32 / 90 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री राबुल हुसैन पाशा पुत्र श्री सिराजुल हसन नि०-ग्राम करन पुर तह० बिलारी जिला मुरादाबाद।	ग्राम-वीरपुर तह० बिलारी जिला मुरादाबाद के गाटा सं०-44, 49, 50, 52, 53, 57, 58, 59, 60 महायोजना-2021 में ग्रीन वेल्ड मार्क थी और बाकी आवासीय दर्ज थी, वर्तमान महायोजना-2031 में उक्त गाटा संख्याओं को ग्रीन वेल्ड में दर्शाया गया है, जबकि इन गाटा संख्याओं के आस-पास का क्षेत्र औद्योगिक श्रेणी में आता है। अतः उक्त सभी गाटा संख्याओं को औद्योगिक करने का अनुरोध किया गया है।
33	33 / 89 / 23.04.2022	01.11.2022	जूपिटर लिमिटेड प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर मो०नं०-9359438900	ग्राम-हरथला एहतमाली के गाटा सं०-309, 388, 307, 308, व 315 का भू-उपयोग महायोजना-2031 में आवासीय दर्शाया गया है, जबकि उक्त गाटाओं के आस-पास काम्पलेक्स, व्यवसायिक भवन व दुकाने व शोरूम आदि संचालित हैं। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग बाजार स्ट्रीट /व्यसायिक करने का अनुरोध किया गया है।
34	34 / 76(1) / 23.04.2022	01.11.2022	श्री रविन्द्र गुप्ता द्वारा आलोक कुमार एडवोकेट नि०-25 मधुर विहार निकट पी०एम०एस० स्कूल के पीछे।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं०-2115मि० व 2118मि० के आंशिक भाग को ग्रीन वेल्ड में दर्शाया गया है, जबकि उसके आस-पास के रकबों में इण्डस्ट्रीज, आबादी व खेती हो रही, जिसको ग्रीन वेल्ड में किसी भी स्थिति नहीं रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
35	35 / 76 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री रविन्द्र गुप्ता पुत्र श्री प्रमोद कुमार गुप्ता नि०-25 मधुर विहार निकट पी०एम०एस० स्कूल के पीछे।	ग्राम-मनोहरपुर के गाटा सं०-866 घ, के आस-पास के रकबा को महायोजना-2031 में बाजार स्ट्रीट में लिया जा चुका है, गाटा सं०-866 घ में आबादी भी है जिसका सर्वे करारक निरीक्षण किया जा सकता है। अतः गाटा सं०-866 घ को भी बाजार स्ट्रीट में किए जाने का अनुरोध किया है।
36	36 / 1194 / 23.04.2022	01.11.2022	डा० अनुराग मेहरोत्रा चेरमैन सिद्ध अस्पताल मुरादाबाद।	ग्राम-शाहपुर तिगरी के गाटा सं०-369/3 अ, व, रकबा-0.6800 है० 369/1अ, व रकबा-0.3240 है० है। उक्त गाटा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के 120 फीट चौड़े महायोजना पर स्थित है। यह काशीराम नगर योजना में स्थित व्यवसायिक भूखण्डों के सामने है। महायोजना-2021 में उक्त गाटा आर-1 भू-उपयोग में आते हैं। अतः उक्त गाटा को महायोजना-2031 में व्यवसायिक श्रेणी में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया है।
37	37 / 87 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री विपिन गुप्ता नि०-मधुर विहार कालोनी पीएमएस स्कूल के पास सिविल लाइन मुरादाबाद।	ग्राम-मनोहरपुर के गाटा सं०-866 घ, के आस-पास के रकबा को महायोजना-2031 में बाजार स्ट्रीट में लिया जा चुका है, गाटा सं०-866 घ में आबादी भी है जिसका सर्वे करारक निरीक्षण किया जा सकता है। अतः गाटा सं०-866 घ को भी बाजार स्ट्रीट में किए जाने का अनुरोध किया है।
38	38 / 83 / 23.04.2022	01.11.2022	श्रीमती अंजली वर्मा, श्री अजय वर्मा, श्रीमती आशा वर्मा, श्रीमती रूपा देवी। ग्राम शाहपुर तिगरी तहसील व जिला मुरादाबाद।	ग्राम शाहपुर तिगरी के गाटा सं०-375 व 376 का भू-उपयोग महायोजना-2031 में नगर पार्क से बदलकर आवासीय किया जाना प्रस्तावित है, तथा गाटा सं०-376 के आगे भी नगर पार्क से बदलकर आवासीय किया जाना प्रस्तावित है। अतः बीच के गाटा सं०-376 को नगर पार्क की श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। गाटा सं०-376 के स्वामित्व की भूमि पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा पेट्रोल पम्प का आवंटन किया गया है। अतः ग्राम शाहपुर तिगरी के गाटा सं०-375 से सटे गाटा सं०-376 रकबा 0.154 है० भाग का भू-उपयोग प्रस्तावित मुरादाबाद महायोजना-2031 में आवासीय/ व्यवसायिक करने एवं वर्तमान भू-उपयोग नगर पार्क के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने का कष्ट करें।
39	39 / 82 / 23.04.2022	01.11.2022	श्रीमती आयशा जफर प्लाट नं०-412, छावनी सिविल लाइन मुरादाबाद।	ग्राम-छावनी के गाटा सं०-412 क्षेत्र 4100.00 वर्ग मीटर है। उक्त भूमि से लगे कचहरी का परिसर है, जहाँ आने वाले व्यक्तियों को व्यवसायिक गतिविधियों की काफी जगह रहती है तथा वर्तमान में वहाँ पर व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित हैं। उपरोक्त गाटा को महायोजना-2021 में आवासीय श्रेणी में रखा गया है तथा महायोजना-2031 में भी आवासीय में दर्शाया गया है। अतः उक्त भूमि को उपनगर केन्द्र (व्यवसायिक) में परिवर्तन कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

40	40 / 80 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री रुचिर अग्रवाल पुत्र श्री सुनिल कुमार अग्रवाल निवसी जवाहर बाग मुरादाबाद।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं0-3167, 3169 व 3170 जो कि एच.एच-9 हाईवे बाईपास पर स्थित है। महायोजना-2021 में आवासीय घोषित था, लेकिन महायोजना-2031 में ग्रीन वेल्ड में दर्शाया गया है। अतः मेरे उक्त गाटा संख्याओं की भूमि को पूर्ववत आवासीय में ही रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
41	41 / 78 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री महीपाल सिंह पुत्र श्री मिश्री सिंह निवासी लाकड़ी फाजलपुर तह0 व जिला मुरादाबाद।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं0-3167, 3169 व 3170 जो कि एच.एच-9 हाईवे बाईपास पर स्थित है। महायोजना-2021 में आवासीय घोषित था, लेकिन महायोजना-2031 में ग्रीन वेल्ड में दर्शाया गया है। अतः मेरे उक्त गाटा संख्याओं की भूमि को पूर्ववत आवासीय में ही रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
42	42 / 78 / 23.04.2022	01.11.2022	मौ0 अब्दुल्लाह पुत्र मौ0 शाहिद ग्राम पण्डित नंगला, मुरादाबाद।	ग्राम-पंडित नंगला के गाटा सं0-236 / 1मि0 रकबा 1509.61 वर्ग मीटर है, जो कि सम्मल मार्ग से कुछ हटकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के सामने की ओर है, महायोजना-2031 में उक्त गाटा को हरित पट्टी दर्शाया गया है जबकि उक्त प्रस्तावित हरित पट्टी के आस-पास औद्योगिक निर्माण है। अतः महायोजना-2031 में उक्त गाटा का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
43	43 / 88 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री अवधेश अग्रवाल महासचिव मुरादाबाद हैण्ड्रीक्राफ्टस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन मुरादाबाद। मोबाईल नम्बर- 9837032953	1-महायोजना-2031 में नगर के चारो ओर औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया जाना चाहिए। 2-बाईपास से प्रस्तावित 120 फीट चौड़े मार्ग को जो SEZ से जोड़ा गया था उसे यथावत रखा जाए। 3-ग्राम मालीपुर, करीमपुर जब्ती, रतनपुर कलां एवं बहादुरपुर राजपूत जो कि SEZ से जोड़ते हुए 120 मी0 पूर्व प्रतावित मार्ग को यथावत रखा जाए। ग्राम मालीपुर, करीमपुर जब्ती, रतनपुर कलां एवं बहादुरपुर राजपूत इन ग्रामों को औद्योगिक भू-उपयोग किया जाए। 4-लाकड़ी फाजलपुर में दिल्ली रोड पर कई कारों के शोरूम बने हुए है व व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित हैं। उक्त क्षेत्र का महायोजना-2021 में भू-उपयोग औद्योगिक था। अतः उचित होगा कि सड़क पर उक्त स्थानों पर कारों के शोरूम व रिक्त पड़े स्थानों का भू-उपयोग व्यवसायिक किया जाए। 5-महायोजना-2021 में ग्राम मनोहरपुर व गिन्नोर देह माफी में बाईपास के दाहिनी तरफ भू-उपयोग पार्क व शैक्षिक संस्थान दर्शित था, जबकि महायोजना-2031 में उक्त भू-उपयोग को औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित किया गया है। अतः अवशेष क्षेत्र को भी औद्योगिक भू-उपयोग में किया जाए। 6-महायोजना-2031 में प्रस्तावित मार्गों का निर्माण यथा समय किए जाने का अनुरोध किया है, जिससे की औद्योगिक ईकाइयों का विकास सम्भव हो सके। 7-ग्राम लाकड़ी फाजलपुर की आबादी वाले क्षेत्र को सर्वे कराकर आबादी में दर्शित किया जाए। 8-महायोजना-2031 में ऐसे मार्गों को प्रस्तावित न किया जाए जिनका निर्माण न हो सके। 9-लाकड़ी फाजलपुर औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर काफी औद्योगिक ईकाइयाँ संचालित हैं। अतः इसके दृष्टिगत महायोजना-2031 में भू-उपयोग दर्शित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
44	44 / 1006 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री रविन्द्र कुमार नि0-25 सिविल लार्डन मुरादाबाद।	ग्राम-मनोहरपुर के गाटा सं0-866 घ, के आस-पास के रकबा को महायोजना-2031 में बाजार स्ट्रीट में लिया जा चुका है, गाटा सं0-866 घ में आबादी भी है जिसका सर्वे कराकर निरीक्षण किया जा सकता है। अतः गाटा सं0-866 घ को व्यवसायिक किए जाने का अनुरोध किया है।
45	45 / 1007 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री रविन्द्र गुप्ता नि0-25 सिविल लार्डन मुरादाबाद।	ग्राम लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं0-2115 मि0, 2118 मि0 एवं 2118 मि0 क्षे0 0.2950, 0.5380 एवं 1.0680 हे0 भूमि है जिसके आस-पास क्षेत्र को महायोजना-2031 में औद्योगिक उपयोग हेतु चिन्हित किया गया है तथा इसी क्षेत्र के पास में अन्य औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
46	46 / 95(1) / 23.04.2022	01.11.2022	डा0 अनुराग मेहरोत्रा चेयरमैन सिद्ध अस्पताल मुरादाबाद।	ग्राम-शाहपुर तिगरी के गाटा सं0-369/3 अ,व, रकबा-0.6800 हे0 369/1अ,व रकबा-0.3240 हे0 है। उक्त गाटा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के 120 फीट चौड़े महायोजना पर स्थित है। यह काशीराम नगर योजना में स्थित व्यवसायिक भूखण्डों के सामने है। महायोजना-2021 में उक्त गाटा आर-1 भू-उपयोग में आते हैं। अतः उक्त गाटा को महायोजना-2031 में व्यवसायिक श्रेणी में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया है।
47	47 / 99 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री श्याम सुन्दर अरोरा नि0-36 कोठीवाल नगर मुरादाबाद।	ग्राम लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं0-1364 का भाग है जिस पर वर्षों से आबादी व बाउन्ड्री दर्ज है। महायोजना-2031 में गॉंगन नदी से 100.00 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित होगा लेकिन प्रार्थी का भूखण्ड गॉंगन नदी से 219.42 मीटर की दूरी पर है। अतः उक्त भूखण्ड को ग्रीन वेल्ड से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।
48	48 / 100 / 26.04.2022	01.11.2022	श्री बृजभूषण धमीजा नि0-कुंवर सिनेमा कपड़ा बाजार मुरादाबाद।	महायोजना-2031 में निर्मित क्षेत्र से लगे हुए भूखण्डों को बाजार स्ट्रीट व उपविभाजन की निती घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

49	49/101/24.04.2022	01.11.2022	श्री इरशाद हुसैन नि0-लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद।	मुरादाबाद दिल्ली रोड गॉगन नदी पर नये मुरादाबाद योजना की सीमा तक बन्धा दर्शाया गया है उसके बाद चौधरपुर से ऊँचाकानी तक दोनो तरफ अर्बन लैंडयूज एरिया प्रस्तावित किया गया है। अतः उस सीमा तक बन्धा मार्ग का प्राविधान किए जाने का अनुरोध किया गया है।
50	50/102/26.04.2022	01.11.2022	श्री पंकज सक्सेना नि0-गोविन्द नगर बैंक कालौनी मुरादाबाद।	रामपुर बाईपास पर ग्राम-उमरी में दांयी ओर महायोजना-2021 में आवासीय भू-उपयोग दर्शित था, तथा महायोजना-2031 ग्राम-उमरी के पीछे औद्योगिक भू-उपयोग दर्शित किया गया है। अतः मेन रोड बाईपास से मिलाते हुए औद्योगिक भू-उपयोग किए जाने का अनुरोध किया गया है।
51	51/105/26.04.2022	01.11.2022	श्री गौरव अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल नि0-एच0-20-21 लाजपत नगर मुरादाबाद।	ग्राम-मालीपुर के गाटा सं0-2 रकबा 0.3880 हे0 भूमि को महायोजना-2031 सी-2 भू-उपयोग दर्शाया गया है, जबकि उक्त भूमि के आस-पास लघु उद्योग संचालित है। अतः उक्त भूमि को लघु उद्योग में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
52	52/103/26.04.2022	01.11.2022	श्री चन्द्रप्रकाश सिंह पुत्र श्री गजराम सिंह नि0-सैद खादर इस्लाम नगर रोड मुरादाबाद।	ग्राम-सैदपुर खादर की आबादी को महायोजना-2031 में दर्ज किए जाने का अनुरोध किया गया है।
53	53/106/23.04.2022	01.11.2022	श्री हाजी इफितखार अली पुत्र श्री हाजी अब्दुल कयूम नि0-144 लाजपत नगर मुरादाबाद।	ग्राम-वीरपुर के खसरा नं0-189 क्षे0 0.255 हे0 जो एन0एच0-24 पर स्थित है, जिसमें विजन एक्सपोर्ट्स की औद्योगिक ईकाई संचालित है, जिसके बराबर में अमर उजाला प्रेस व महापौर नगर निगम की बिल्डिंग स्थित है। अतः उक्त क्षेत्र को महायोजना-2031 में ग्रीन वेल्ड से औद्योगिक/कुटीर उद्योग में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
54	54/107/23.04.2022	01.11.2022	श्रीमती आशा गुलाटी पत्नी बल्देवराज गुलाटी नि0-कोठी वाल नगर नालापार मुरादाबाद।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा संव0-1337अ को महायोजना-2021 में नगर पार्क दर्शित था। अतः महायोजना-2031 में उक्त गाटा को व्यवसायिक भू-उपयोग में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
55	55/108/23.04.2022	01.11.2022	श्रीमती चांद निझावन पत्नी श्री चन्द्र कुमार निझावन नि0-मौ0 जवाहर बाग निकट प्रतीक्षा होटल जी0एम0डी0 रोड मुरादाबाद।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा संव0-1337अ को महायोजना-2021 में नगर पार्क दर्शित था। अतः महायोजना-2031 में उक्त गाटा को व्यवसायिक भू-उपयोग में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
56	56/109/23.4.2022	01.11.2022	श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मिश्री सिंह निवासी लाकड़ी फाजलपुर तह0 व जिला मुरादाबाद।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं0-3167, 3169 व 3170 जो कि एच.एच-9 हाईवे बाईपास पर स्थित है। महायोजना-2021 में आवासीय घोषित था, लेकिन महायोजना-2031 में ग्रीन वेल्ड में दर्शाया गया है। अतः मेरे उक्त गाटा संख्याओं की भूमि को व्यवसायिक एवं आवासीय में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
57	57/110/23.04.2022	01.11.2022	श्रीमती स्नेह कपूर आदि नि0-गॉगन नदी के पीछे लाकड़ी फाजलपुर मोबाईल नं0-9412354316	ग्राम लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं0-1366, 1367, 1375 व 1376 की भूमि को महायोजना-2031 ग्रीन वेल्ड में दर्शाया गया है, जबकि उक्त भूमि के समीप औद्योगिक गतिविधियाँ व व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित है। अतः उक्त भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
58	58/111/23.04.2022	01.11.2022	श्री इम्तियाज हुसैन एडवोकेट नि0-ग्राम भोला सिंह की मिलक उर्फ सोनकपुर देहात।	महायोजना-2031 में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल हरित पट्टी का तथा महायोजना मार्ग गाटा संख्याबार भू-उपयोग प्रदर्शित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
59	59/113/23.04.2022	01.11.2022	श्री सोमनाथ पोपली पुत्र श्री नारायण दास पोपली नि0-वारहा नीलकण्ठ कालौनी सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम-मुगलपुर उर्फ अगवानपुर मुस्तकम के गाटा सं0-2354 क्षे0 0.983 हे0 व गाटा सं0-2358 क्षे0 0.567 हे0 एवं ग्राम-काजीपुरा के गाटा सं0-541 क्षे0 1.161 हे0 है, उपरोक्त भूमि कांट रोड हाईवे पर स्थित है तथा उक्त भूमि के पूरब में अपेक्स स्कूल, पश्चिम में पट्रोल पम्प दक्षिण में रेलवे लाईन तथा उसके ठीक सामने सड़क के पार आम्रपाली बैंकट हॉल है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि ग्रीन वेल्ड न होकर व्यवसायिक/औद्योगिक है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक/व्यवसायिक/ शिक्षण संस्थान में किए जाने का अनुरोध किया गया है। (आ0सं0-30 के अनुसार)
60	60/114/25.04.2022	01.11.2022	संयुक्त आयुक्त उद्योग मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।	श्री तन्जील अहमद के प्रार्थना पत्र के जो कि एकटा विहार कालौनी रामपुर रोड के पास मछली बाजार को किसी अन्य जगह स्थानान्तरित करने तथा 472 बीघा जमीन आर्टिजेन्स पार्क के लिए हस्तान्तरित करने एवं पन्डित नंगला बाईपास को आर-2 से बाहर करने के प्रस्ताव को महायोजना-2031 में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।

61	61 / 115 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री साधुराम जैन नि०-ए१-८० मानसरोवर कालोनी मुरादाबाद।	ग्राम लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं०-1364 जिस पर वर्षों से आबादी व वाउन्ड्री दर्ज है महायोजना-2031 के अन्तर्गत गागन नदी से 100.00 मीटर तक दोनो ओर निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। जबकि उक्त भूखण्ड गाँगन नदी से 175.0 मीटर की दूरी पर है। अतः उक्त भूखण्ड को ग्रीन वेल्ड से मुक्त करते हुए औद्योगिक किए जाने का अनुरोध किया है।
62	62 / 116 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री कौशलदीप राजपूत निवासी -पन्डित नंगला मो० नम्बर - 9359438900	ग्राम-पंडित नंगला के गाटा सं०-228, 333, 337 को औद्योगिक/व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
63	63 / 117 / 23.04.2022	01.11.2022	श्रीमती अंजली भारद्वाज (डायरेक्टर) एस०बी० विल्डकोन व अन्य नि०-डी-45 पंचशील एन्कलेव नई दिल्ली।	महायोजना-2031 में शहर के सभी मार्गों पर तीन-तीन किलोमीटर पर विकास के लिए भू-उपयोग क्षेत्र बढ़ाया गया है। अतः ग्राम याकृतपुर, गोटा व साहूनंगला के गाटा सं०-क्रमश 5, 6, 7, 8 व 9, 10, 11, 12, 13, 15, 30, 31, 32, 29, 28 जिनका भू-उपयोग अर्द्धसरकारी उसे आवासीय तथा ग्राम-गोटा के गाटा सं०-340, 341, 342, 348, 351, 352, 339, 345, 359, 368, 466, 469, 470 एवं ग्राम-साहू नंगला के गाटा सं०-125 एवं उपरोक्त गाटा संख्याओं का भू- उपयोग आवासीय में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
64	64 / 119 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ नागरिक मो० शंकर नगर लाईन पार मुरादाबाद। मो० नम्बर -9410677330	मुरादाबाद नगर के सुनियोजित विकास किए जाने हेतु 25 बिन्दुओं के आवश्यक सुझाव।
65	65 / ईमेल / 390 / 23.04.2022	01.11.2022	संयुक्त आयुक्त उद्योग मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।	श्री तन्जील अहमद के प्रार्थना पत्र के जो कि एकटा विहार कालोनी रामपुर रोड के पास मछली बाजार को किसी अन्य जगह स्थानान्तरित करने तथा 472 बीघा जमीन आर्टिजेन्स पार्क के लिए हस्तान्तरित करने एवं पन्डित नंगला बाईपास को आर-2 से बाहर करने के प्रस्ताव को महायोजना-2031 में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।
66	66 / IGRS / 4001352200 8351 / 524 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री इलयाल अहमद पुत्र श्री शेख मुहम्मद राशिद नि०-जैको हाउस मुपती टोला मुरादाबाद।	ग्राम-लालपुर हमीर के गाटा सं०-4मि० रकबा 2.4770 है० भूमि मे बाग दर्शाया गया है, जबकि बाग पहले ही काटा जा चुका है, और भूमि कृषिक है। अतः उपरोक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग महायोजना-2031 में औद्योगिक किए जाने का अनुरोध किया गया है।
67	67 / IGRS / 4001352200 8328 / 525 / 23.04.2022	01.11.2022	श्री नासिर पुत्र अब्दुल अजीज नि०-ग्राम धीमरी मुरादाबाद।	ग्राम-कल्याणपुर एहतमाली के गाटा सं०-06, 09 महायोजना-2031 में ग्रीन वेल्ड घोषित किया गया है। प्रश्नगत भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग के मध्य बिन्दु से 100.00 मी० से अधिक दूरी पर स्थित है। अतः महायोजना-2031 में उपरोक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग ग्रीन वेल्ड से आवासीय/औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
68	68 / IGRS / 4001352200 8331 / 526 / 23.04.2022	01.11.2022	श्रीमती सवीना परवीन पत्नी शरीफ अहमद नि०-छछेरा जिला-सम्भल।	ग्राम-रफातपुर तह० व जिला मुरादाबाद के गाटा सं०-282, 290, 288, 289, 285 को महायोजना-2031 में ग्रीन वेल्ड दर्शित किया गया है, जबकि गाटा सं०-289, 290 राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं को आवासीय/औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
69	69 / 01 / 26.04.2022	01.11.2022	श्रीमती उषा रानी पत्नी शिवचरन सिंह नि०-लोकोशेड मुरादाबाद।	ग्राम-भोगपुर मिठौनी के गाटा सं०-1012 क्षे० 0.1380 है० जिस पर 27 वर्षों से दुकान व हॉल बनाकर व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित है। अतः उक्त गाटा संख्या को आवासीय में घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
70	70 / 02 / 26.04.2022	01.11.2022	मैसर्स हाईटॉप ट्रेडिंग प्रा०लि० द्वारा ईश्वेन्द्र सिंह।	ग्राम-ढक्का कुन्दनपुर के गाटा सं०-22, 23 व 24 जिस पर लगभग 100 वर्ष पुराना सूत मिल है, के भू-उपयोग को औद्योगिक भू-उपयोग को निरस्त कर आवासीय ले-आउट किये जाने का अनुरोध किया है।
71	71 / 03 / 26.04.2022	01.11.2022	श्री बलवीर सिंह नि०-रामस्वरूप कालोनी चन्द्रनगर मुरादाबाद।	ग्राम-शाहपुर तिगरी के गाटा सं०-359 अ, 359 ब, 384 का भू-उपयोग महायोजना-2031 में व्यवसायिक किए जाने का अनुरोध किया गया है।
72	72 / 04 / 26.04.2022	01.11.2022	श्रीमती बाला पत्नी मनोज कुमार, नि०-पण्डित नंगला की मिलक गाँगन मुरादाबाद।	ग्राम-पण्डित नंगला के गाटा सं०-745, 746, 747, 748, 236 को महायोजना -2021 में ग्रीन वेल्ड घोषित किया गया था तथा महायोजना-2031 में भी ग्रीन वेल्ड प्रस्तावित किया गया है, जबकि ट्रान्सपोर्ट नगर से लेकर मुरादाबाद तहसील की सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास तक आवासीय व व्यवसायिक गतिविधियाँ विद्यमान हैं। अतः महायोजना-2031 में ट्रान्सपोर्ट नगर से लेकर सम्भल चन्द्रौसी मार्ग पर मुरादाबाद तहसील सीमा तक की भूमि का भू-उपयोग आवासीय एवं औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
73	73 / 05 / 26.04.2022	01.11.2022	श्री इन्दरजीत सिंह चड्डा नि०-चड्डा पैलेस प्रिन्स रोड, मुरादाबाद।	ग्राम-भटावली एहतमाली के गाटा सं०-292, 293, 294, 262, 295, 299, 285, 261, 232, 230, 271, 272, 233, 301 298, 276, 277, 279, 281, 282, 283, 273, 274, 275, 297 व 304 की भूमि को महायोजना-2031 में कृषि न दर्शा कर अन्य दर्शाया गया है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं की भूमि को कृषि भू- उपयोग में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

74	74/06/26.04.2022	01.11.2022	श्री इन्दरजीत सिंह चडड़ा नि०-चडड़ा पैलेस प्रिन्स रोड, मुरादाबाद।	ग्राम-मोरा मुस्तकम के गाटा सं०-477, 480, 493, 503, 504, 484, 491, 496, 476, 485, 486, 487, 494, 481, 480, व 490 की भूमि को महायोजना-2031 में कृषि न दर्शा कर अन्य दर्शाया गया है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं की भूमि को आवासीय भू-उपयोग में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
75	75/07/26.04.2022	01.11.2022	श्री मौहम्मद आमिर नि०-ईस्ट कास्ट इण्डस्ट्रीज अनवर हाउस पण्डित नंगला मुरादाबाद।	ग्राम-पण्डित नंगला के गाटा सं०-442/1, 442/3, 442/1, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 461/2, 461/1, 462, 466, 465/1, 466नि०, 458 का क्षेत्र 18141.00 वर्ग मीटर का भू-उपयोग महायोजना-2021 आवासीय है, जबकि उक्त स्थल पर लगभग 15 वर्षों से ईस्ट कोस्ट इण्डस्ट्रीज संचालित है। अतः महायोजना-2031 में उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
76	76/08/26.04.2022	01.11.2022	श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट नि०-35 आवास विकास कालौनी पीली कोठी मुरादाबाद।	ग्राम-मनोहरपुर व गिन्नोर देह माफी बाईपास के दाहिनी तरफ महायोजना- 2021 में क्रमश पार्क व शैक्षिक संस्थागत भू-उपयोग दिया गया था जबकि महायोजना-2031 में उक्त भू-उपयोग को औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित किया गया है, एवं मनोहरपुर में पार्क भू-उपयोग के रूप में छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया गया है। अतः महायोजना-2031 में उक्त स्थल का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
77	77/09/26.04.2022	01.11.2022	श्री राशिद एक्सपोर्ट निवासी -पण्डित नंगला बाईपास सम्मल रोड मुरादाबाद।	ग्राम-पण्डित नंगला के गाटा सं०-3, 4, 5 क्षेत्रफल 16570.00 वर्ग मीटर पर राशिद एक्सपोर्ट की फर्म लगभग 15 वर्षों से संचालित है। महायोजना-2021 में उक्त स्थल आवासीय में दर्शित है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग महायोजना-2031 में औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
78	78/10/26.04.2022	01.11.2022	श्री अफीफ उर रहमान नि०-पण्डित नंगला बाई पास सम्मल रोड मुरादाबाद।	ग्राम-पण्डित नंगला के गाटा सं०-212/2, 213, 214, 215, 211, 210, 209 क्षेत्रफल 1.429 है० भूमि पर मेवा ब्रास फर्म लगभग 25 वर्षों से संचालित है तथा महायोजना-2021 में उक्त स्थल का भू-उपयोग आवासीय दर्शित है। अतः महायोजना-2031 में उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
79	79/11/26.04.2022	01.11.2022	श्री शमशुल रहमान पुत्र जमीलउररहमान नि०-मिनी बाईपास जिगर कम्पाउण्ड पण्डित नंगला मुरादाबाद।	ग्राम-रामनगर मंझरा एहतमाली के गाटा सं०-15, 16, 17, 20, 24, 25 को महायोजना- 2031 में ग्रीन वेल्ड में दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
80	80/12/26.04.2022	01.11.2022	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल नि०- सी-52 रामगंगा विहार फेस-2 मुरादाबाद।	मेरिट के आधार पर महायोजना-2031 में बाजार स्ट्रीट क्षेत्रों को प्रस्तावित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
81	81/13/26.04.2022	01.11.2022	श्री विपिन गुप्ता, उपाध्यक्ष, मुरादाबाद वेस्ट इण्डस्ट्रीस चैम्बर दिल्ली रोड मुरादाबाद। मोबाईल नं०-9412235505	1-लोकेशेड ऑवर ब्रीज से लेकर गॉगन तक के बीच के बायीं तरफ का एरिया इण्डस्ट्रीयल दिखाया गया है, वह व्यवसायिक किया जाना आवश्यक है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकतर आटोमोबाईल, शोरूम, बैकट हॉल, हॉस्पिटल आदि संचालित है। दायीं तरफ कुछ ग्रीन एरिया दिखाया गया है, जिसके बाद समस्त व्यवसायिक संस्थान चल रहे हैं, जिनको आवासीय भू-उपयोग दर्शाया गया है। 2-मंझोली चौराहे के बाद से गॉगन तक दायीं तरफ आवास विकास परिषद की आवासीय योजना संचालित है, जिसको आवासीय बने रहने का कोई भी औचित्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर समस्त एक्टिविटी व्यवसायिक है। स्थल पर बने भवनों को चिन्हित कर सर्वे के आधार पर सड़क के दोनों ओर कम से कम 100.00 मीटर दूरी तक व्यवसायिक कर दिया जाए। 3-लाकड़ी फाजलपुर मिनी बाईपास पर बहुत से भूखण्डों पर औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं तथा आस-पास कुछ भूखण्ड खाली पड़े हुए हैं, उनको विकसित किए जाने के लिए 12.00 मीटर सड़क के स्थान पर 9.00 मीटर सड़क करते हुए ले-आउट औद्योगिक में परिवर्तित करते हुए स्वीकृत किया जाए।
82	82/14/26.04.2022	01.11.2022	श्री गुलजार अहमद नि०-सी33 जिगर कालौनी मुरादाबाद।	ग्राम-मेनाठेर में सड़क के दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर में आवासीय दर्शाया गया है, जबकि सड़क के उत्तर में ट्रांसपोर्ट नगर तक औद्योगिक/व्यवसायिक ईकाईयाँ बनी हुई हैं। अतः सड़क के उत्तर में मेनाठेर में 200.00 मीटर गहराई तक औद्योगिक/व्यवसायिक क्षेत्र घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
83	83/15/26.04.2022	01.11.2022	श्री दीपक अग्रवाल, जिला अध्यक्ष उ०प्र० उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल मुरादाबाद। नि०-दीप इम्पोरियम ग्लास शोरूम कटरा नाज मुरादाबाद।	ग्राम-शेरुआ धर्मपुर के गाटा सं०-627 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में औद्योगिक एम-2 दर्शित है परन्तु महायोजना-2031 में एफ-3 दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग औद्योगिक एम-2 में ही यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

84	84 / 16 / 26.04.2022	01.11.2022	श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट नि0-35 आवास विकास कालौनी पीली कोठी मुरादाबाद।	ग्राम-मनोहरपुर व गिन्नोर देह माफी बाईपास के दाहिनी तरफ महायोजना- 2021 में क्रमश पार्क व शैक्षिक संस्थागत भू-उपयोग दिया गया था जबकि महायोजना-2031 में उक्त भू-उपयोग को औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित किया गया है, एवं मनोहरपुर में पार्क भू-उपयोग के रूप में छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया गया है। अतः महायोजना-2031 में उक्त स्थल का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
85	85 / 17 / 26.04.2022	01.11.2022	श्रीमती दीपाली अग्रवाल मो0 नं0-9359700532	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा सं0-627 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में औद्योगिक एम-2 दर्शित है परन्तु महायोजना-2031 में एफ-3 दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग औद्योगिक एम-2 में ही यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
86	86 / 18 / 26.04.2022	01.11.2022	श्री विपिन गुप्ता, उपाध्यक्ष, मुरादाबाद वेस्ट इण्डस्ट्रीस चैम्बर दिल्ली रोड मुरादाबाद। मोबाईल नं0-9412235505	1-लोकोशेड ऑवर ब्रीज से लेकर गॉगन तक के बीच के बांयी तरफ का एरिया इण्डस्ट्रीयल दिखाया गया है, वह व्यवसायिक किया जाना आवश्यक है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकतर आटोमोबाईल, शोरूम, बैकट हॉल, हॉस्पिटल आदि संचालित है। दांयी तरफ कुछ ग्रीन एरिया दिखाया गया है, जिसके बाद समस्त व्यवसायिक संस्थान चल रहे हैं, जिनको आवासीय भू-उपयोग दर्शाया गया है। 2-मंजौली चौराहे के बाद से गॉगन तक दांयी तरफ आवास विकास परिषद की आवासीय योजना संचालित है, जिसको आवासीय बने रहने का कोई भी औचित्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर समस्त एक्टिविटी व्यवसायिक है। स्थल पर बने भवनों को चिन्हित कर सर्वे के आधार पर सड़क के दोनो ओर कम से कम 100.00 मीटर दूरी तक व्यवसायिक कर दिया जाए। 3-लाकड़ी फाजलपुर मिनी बाईपास पर बहुत से भूखण्डों पर औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित हो रही है तथा आस-पास कुछ भूखण्ड खाली पड़े हुए है, उनको विकसित किए जाने के लिए 12.00 मीटर सड़क के स्थान पर 9.00 मीटर सड़क करते हुए ले-आउट औद्योगिक में परिवर्तित करते हुए स्वीकृत किया जाए।
87	87 / 19 / 26.04.2022	01.11.2022	श्री इम्तियाज हुसैन एडवोकेट नि0-ग्राम भोला सिंह की मिलक उर्फ सोनकपुर देहात।	महायोजना-2031 में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल हरित पट्टी का तथा महायोजना मार्ग गाटा संख्याबार भू-उपयोग प्रदर्शित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
88	88 / 20 / 26.04.2022	01.11.2022	श्री नितिन गुप्ता प्रसीडेन्ट भट्टा एसोसिएशन मुरादाबाद।	ग्राम-मनोहरपुर से रतनपुर जाने वाले मार्ग के दाहिनी तरफ बहुत ईट भट्टे स्थित है, एन0जी0टी0 के आदेशानुसार अब कोई भी भट्टा बिना जिगजैग टैक्नोलोजी के संचालित नहीं हो सकता है। अतः ग्राम मनोहरपुर से रतनपुर को जाने वाले मार्ग के दाहिनी तरफ के क्षेत्र को महायोजना-2031 में औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
89	89 / 21 / 26.04.2022	01.11.2022	श्री मौहम्मद अबुबकर आदि मो0 नं0-9760257774	ग्राम-रसुलपुर नंगला खेम व ताजपुर माफी रेलवे स्टेशन गेट को जाने वाली पी0डब्लू0डी सड़क जो रामपुर रोड व नेनीताल रोड को मुरादाबाद नगर से मात्र पाँच किलोमीटर की दूरी पर जोड़ती है को व उसके समीप वर्ती दो-दो किलोमीटर क्षेत्र को आवासीय किए जाने का अनुरोध किया गया है।
90	90 / 22 / 26.04.2022	01.11.2022	श्री गुलजार अहमद नि0-पीर जादा मो0नं0-9219159155 मुरादाबाद।	ग्राम-रसुलपुर नंगला खेम व ताजपुर माफी रेलवे स्टेशन गेट को जाने वाली पी0डब्लू0डी सड़क जो रामपुर रोड व नेनीताल रोड को मुरादाबाद नगर से मात्र पाँच किलोमीटर की दूरी पर जोड़ती है को व उसके समीप वर्ती दो-दो किलोमीटर क्षेत्र को आवासीय किए जाने का अनुरोध किया गया है।
91	91 / 130 / 27.04.2022	01.11.2022	मा0 रितेश कुमार गुप्ता, विधायक-28 नगर मुरादाबाद।	1-शहर के मध्य व तीन सड़को मध्य स्थित भू-भाग जो रेडक्रॉस चौराहा छावनी में स्थित है का कोई भू-उपयोग नहीं दर्शाया गया है, यह क्षेत्र व्यवसायिक हेतु उपयुक्त है। अतः व्यवसायिक किए जाने का सुझाव दिया गया है। 2-पीली कोठी चौराहे पर पूर्ण रूप से व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित हो रही है परन्तु महायोजना-2031 में पीली कोठी चौराहे पर कांट साईड पर व सिविल लाईन साईड पर बाजार स्ट्रीट का पाविधान किया गया है, जबकि उसके स्थान व्यवसायिक किए जाने का सुझाव दिया गया है। 3-महायोजना-2031 में पी0ए0सी0 से लेकर हरथला तक कांट रोड पर पूर्ण रूप से दोनो तरफ व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित है। अतः महायोजना-2031 में पी0ए0सी0 से लेकर हरथला तक बाजार स्ट्रीट अथवा व्यवसायिक उपयोग किए जाने का सुझाव दिया गया है।
92	92 / 140 / 28.04.2022	01.11.2022	डा0 राजीव गुप्ता कांट रोड मुरादाबाद मो0नं0-9837250778	ग्राम-सोनकपुर के गाटा सं0-353 की भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
93	93 / 157 / 27.04.2022	01.11.2022	श्री रविन्द्र कुमार नि0-25 सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम-मनोहरपुर के गाटा सं0-866 घ क्षेत्रफल 2.0230 हे0 भूमि महायोजना- 2031 में इस गाटा के समीपवर्ती क्षेत्रों को व्यवसायिक में चिन्हित किया गया है। अतः गाटा सं0-866 घ का भू-उपयोग महायोजना-2031 में व्यवसायिक किए जाने का अनुरोध किया गया है।

94	94 / 152 / 27.04.2022	01.11.2022	श्री सुखवीर सिंह ग्राम-हुसैनपुर हमीर कुन्दरकी।	ग्राम-हुसैनपुर हमीर के गाटा सं0-39 की भूमि का भू-उपयोग कृषि से व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
95	95 / 147 / 27.04.2022	01.11.2022	लोहिया ब्रॉस प्रा0लि0 लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद।	ग्राम उमरी, गजगोला नानक बाड़ी में महायोजना-2021 में दर्शित व्यवसायिक क्षेत्र को महायोजना-2031 यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
96	96 / 167 / 27.04.2022	01.11.2022	श्री सतेन्द्र सिंह मलिक नि0-म0 नं0-523 चिड़िया टोला लाईपार मुरादाबाद।	महायोजना-2031 में रामगंगा विहार फेस-2 एम0आई0टी0 कॉलेज के दाहिनी ओर 24.00 मीटर चौड़े मार्ग पर व्यवसायिक काम्पलेक्स संचालित है। अतः प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़े मार्ग के एलाइन्मेंट को व्यवहारिक रखते हुए मार्ग के दुसरी तरफ भी व्यवसायिक अथवा बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
97	97 / 1 / 2 / 27.04.2022	01.11.2022	आदर्श अग्रवाल नि0-बी-76 गांधी नगर मुरादाबाद। मो0नं0 -9927046186	महायोजना-2031 में बाईपास पर ग्राम-मनोहरपुर में व्यवसायिक भू-उपयोग को परिवर्तित कर अन्य सुविधाएँ एवं सेवायें कर दिया गया है। अतः उक्त क्षेत्र को व्यवसायिक किए जाने का अनुरोध किया गया है।
98	98 / 146 / 27.04.2022	01.11.2022	श्री श्यामसुन्दर पाण्डे मुरादाबाद मो0 नं0-9927090025	ग्राम-उमरी में महायोजना-2021 के अनुसार आवासीय भू-उपयोग को सुरक्षित रखा गया है परन्तु कही भी एन0एच0 बाईपस पर व्यवसायिक भू-उपयोग नहीं रखा गया है। अतः महायोजना-2021 के अनुसार ग्राम-उमरी के अग्र भाग को 200-300 मीटर तक व्यवसायिक गतिविधियों के सुरक्षित रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
99	99 / 149 / 27.04.2022	01.11.2022	श्री छोटे लाल, सोहन लाल, मनमोहन लाल, मदन पाल पुत्रगण स्व0 मोती लाल नि0-राजकीय उन्नयन बस्ती मुरादाबाद।	ग्राम-सोनकपुर के गाटा सं0-358 का भू-उपयोग व्यवसायिक (सी-2) महायोजना-2031 में ग्रीन जोन/पार्क में दर्शित किया गया है। अतः इसे महायोजना-2031 में व्यवसायिक किए जाने का अनुरोध किया गया है।
100	100 / 131 / 27.04.2022	01.11.2022	श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मिश्री सिंह निवासी लाकड़ी फाजलपुर तह0 व जिला मुरादाबाद।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं0-3167, 3169 व 3170 जो कि एच.एच-9 हाईवे बाईपास पर स्थित है। महायोजना-2021 में आवासीय घोषित था, लेकिन महायोजना-2031 में ग्रीन वेल्ड में दर्शाया गया है। अतः मेरे उक्त गाटा संख्याओं की भूमि को व्यवसायिक एवं आवासीय में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
101	101 / 159 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री असद अमीर खान, अब्दुल रजाक, जावेद खान मो0 नं0- 9206565658 मुरादाबाद।	ग्राम-भैसिया के गाटा सं0-199 जो कि 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित जिसका वर्तमान भू-उपयोग आवासीय है तथा इसके सामने ब्रास व्लर्ड की फैक्ट्री भी बन रही है अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग महायोजना-2031 में आवासीय से व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
102	102 / IGRS / 400135220 08346 / 527 / 23.04.2022	02.11.2022	श्रीमती बाला पत्नी मनोज कुमार, नि0-पण्डित नंगला की मिलक गाँगन मुरादाबाद।	ग्राम-पण्डित नंगला के गाटा सं0-745, 746, 747, 748, 236 को महायोजना-2021 में ग्रीन वेल्ड घोषित किया गया था तथा महायोजना-2031 में भी ग्रीन वेल्ड प्रस्तावित किया गया है, जबकि ट्रान्सपोर्ट नगर से लेकर मुरादाबाद तहसील की सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास तक आवासीय व व्यवसायिक गतिविधियाँ विद्यमान हैं। अतः महायोजना-2031 में ट्रान्सपोर्ट नगर से लेकर सम्मल चन्दौसी मार्ग पर मुरादाबाद तहसील सीमा तक की भूमि का भू-उपयोग आवासीय एवं औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
103	103 / 28.04.2022	02.11.2022	श्री अतुल भूटानी नि0-एच0 आई0जी0-28 रामगंगा विहार पुलिस चौकी।	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा सं0-619 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में एम-1/एम-2 घोषित है तथा महायोजना-2031 में एफ-3 कम्युनिटी सर्विस दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग महायोजना-2031 में औद्योगिक ही रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
104	104 / 129 / 27.04.2022	02.11.2022	लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा श्री विभोर गुप्ता राजन एन्कलेव सिविल लाईन मुरादाबाद।	महायोजना-2031 में ग्राम उमरी में जहाँ भी अर्बन एरिया दर्शाया गया है, वहाँ गांगन नदी के दोनों ओर बन्धा मार्ग तथा गन्दा पानी निकासी के लिए औद्योगिक क्षेत्र में नाले निर्माण का प्राविधान किए जाने का सुझाव दिया गया है। ताकि नदी में अनट्रीटेड वाटर न जाए।
105	105 / 132 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री अभिनव अग्रवाल पुत्र श्री राजीव कुमार अग्रवाल नि0- नीलकण्ठ कालोनी मुरादाबाद।	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा सं0-453 क्षेत्रफल 1.0150 हे0 महायोजना-2031 में औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अतः उक्त गाटा को औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
106	106 / 133 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री रावुल हुसैन पासा पुत्र श्री सिराजुल हुसैन नि0-ग्राम करनपुर तहसील बिलारी मुरादाबाद।	ग्राम-वीरपुर के गाटा सं0-44, 49, 50, 52, 53, 57, 58, 59, 60 जो कि एन0ए0 -9 हाईवे से लगे हुए हैं, पूर्व महायोजना-2021 में 30 फीट ग्रीन वेल्ड दर्ज थी और बाकी आवासीय भू-उपयोग दर्ज था, जबकि महायोजना-2031 में ग्रीन वेल्ड दर्शाया गया है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।

107	107 / 134 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश्वर सरन अग्रवाल नि०-बांस मण्डी मुरादाबाद। मो०नं०-9412246700	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं०-3194 को ग्रीन वेल्ड में सम्मिलित किया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या को महायोजना-2031 में औद्योगिक क्षेत्र में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
108	108 / 135 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री नासिर पुत्र अब्दुल अजीज नि०-ग्राम धीमरी मुरादाबाद।	ग्राम-कल्याणपुर एहतमाली के गाटा सं०-06, 09 महायोजना-2031 में ग्रीन वेल्ड घोषित किया गया है। प्रश्नगत भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग के मध्य बिन्दु से 100.00 मी० से अधिक दूरी पर स्थित है। अतः महायोजना-2031 में उपरोक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग ग्रीन वेल्ड से आवासीय/औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
109	109 / 138 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट नि०-35 आवास विकास कालौनी पीली कोठी मुरादाबाद।	ग्राम-मनोहरपुर व गिन्नोर देह माफी बाईपास के दाहिनी तरफ महायोजना- 2021 में क्रमश पार्क व शैक्षिक संस्थागत भू-उपयोग दिया गया था जबकि महायोजना-2031 में उक्त भू-उपयोग को औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित किया गया है, एवं मनोहरपुर में पार्क भू-उपयोग के रूप में छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया गया है। अतः महायोजना-2031 में उक्त स्थल का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
110	110 / 142 / 27.04.2022	02.11.2022	श्रीमती सवीना परवीन पत्नी शरीफ अहमद नि०-छछेरा जिला-सम्मल।	ग्राम-रफातपुर तह० व जिला मुरादाबाद के गाटा सं०-282, 290, 288, 289, 285 को महायोजना-2031 में ग्रीन वेल्ड दर्शित किया गया है, जबकि गाटा सं०-289, 290 राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं को आवासीय/औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
111	111 / 144 / 27.04.2022	02.11.2022	संयुक्त आयुक्त उद्योग मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।	श्री तन्जील अहमद के प्रार्थना पत्र के जो कि एकता विहार कालौनी रामपुर रोड के पास मछली बाजार को किसी अन्य जगह स्थानान्तरित करने तथा 472 बीघा जमीन आर्टिजेन्स पार्क के लिए हस्तान्तरित करने एवं पन्डित नंगला बाईपास को आर-2 से बाहर करने के प्रस्ताव को महायोजना-2031 में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।
112	112 / 145 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री नजाकत हुसैन ग्राम-उमरी मुरादाबाद मो०नं०-7906863043	ग्राम-उमरी के एन०एच० बाईपास के साथ में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के पीछे औद्योगिक क्षेत्र दर्शाया गया है, जबकि कनेक्टिविटी नहीं रखी गयी है। एन०एच० बाईपास के साथ आवासीय विकास का कोई स्कोप नहीं है। अतः 200.00 मीटर से 300.00 मीटर पट्टी को बाईपास से औद्योगिक पट्टी अंकित की जाए। मुख्य मार्गों पर औद्योगिक/व्यवसायिक क्रियायें किए जाने का सुझाव दिया गया है।
113	113 / 150 / 27.04.2022	02.11.2022	आचार्य धीरशान्त दास अर्द्धमौनी, धर्मगुरु मठ मन्दिर विभा प्रमुख माबाईल नम्बर-9319362555	महायोजना-2031 में यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज, रंगमंचीय परिसर एवं नाटकशाला, मुरादाबाद ब्रास आर्ट गैलरी भवन संग्रहालय, वृहद पुस्तकालय, प्रचार प्रसार केन्द्र एवं दिल्ली रोड तथा कांठ रोड पर बस अड्डे का प्राविधान किए जाने का सुझाव दिया गया है।
114	114 / 154 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह नि०-शेरुआ धर्मपुर मो०नं०-9837585946	ग्राम-अगवानपुर उर्फ मुगलपुर मुस्तकम के गाटा सं०-1789 का भू-उपयोग औद्योगिक या आवासीय में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
115	115 / 155 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री नौवत सिंह ग्राम प्रधान लक्ष्मीपुर कट्टई, जगतपुर रामराय, मूंडापाण्डे मुरादाबाद।	ग्राम-लक्ष्मीपुर कट्टई के गाटा सं०-288, 273, 274 के समीप काफी क्षेत्र में औद्योगिक ईकाईयाँ आती है परन्तु इसके सामने 18.00 मीटर रोड भी प्रस्तावित है। अतः इस क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण कराकर महायोजना-2031 में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।
116	116 / 156 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री यगदत्त पाण्डे पुत्र श्री हरी शंकर पाण्डे निवासी मोहब्बतपुर भगवंतपुर मो०नं०-8218084051	ग्राम-अगवानपुर उर्फ मुगलपुर मुस्तकम के गाटा सं०-1789 का भू-उपयोग औद्योगिक या आवासीय में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
117	117 / 158 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री हिमांशु अग्रवाल पुत्र श्री बल्लेव कुमार अग्रवाल निवासी- कांठ रोड हथला मुरादाबाद। मो०नं०-93459438900	ग्राम-मुगलपुर उर्फ अगवानपुर मुस्तकम के गाटा सं०-2355, 2359, कांठ मार्ग पर स्थित है, जिसके आस-पास आवासीय भू-उपयोग आदि हैं। अतः महायोजना- 2031 में उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग आवासीय में किये जाने का अनुरोध किया गया है।
118	118 / 160 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री सोमनाथ पोपली पुत्र श्री नारायण दास पोपली नि०-बारहा नीलकण्ठ कालौनी सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम-मुगलपुर उर्फ अगवानपुर मुस्तकम के गाटा सं०-2354 क्षे० 0.983 है० व गाटा सं०-2358 क्षे० 0.567 है० एवं ग्राम-काजीपुरा के गाटा सं०-541 क्षे० 1.161 है० है, उपरोक्त भूमि कांठ रोड हाईवे पर स्थित है तथा उक्त भूमि के पूरब में अपेक्स स्कुल, पश्चिम में पट्टोल पम्प दक्षिण में रेलवे लाईन तथा उसके ठीक सामने सड़क के पार आम्रपाली बैंकट हॉल है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि ग्रीन वेल्ड न होकर व्यवसायिक/औद्योगिक है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक/व्यवसायिक/ शिक्षण संस्थान में किए जाने का अनुरोध किया गया है। (आ०सं०-30,59 के अनुसार)
119	119 / 161 / 27.04.2022	02.11.2022	आई०एच० एक्सपोर्ट बी-565 लाजपत नगर नियर पुलिस चौकि मुरादाबाद।	ग्राम-लक्ष्मीपुर कट्टई के गाटा सं०-273, 274 को महायोजना-2031 औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।

120	120 / 162 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री रविन्द्र गुप्ता नि०-25 सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं०-2115मि० व 2118मि० के आंशिक भाग को ग्रीन वेल्ड में दर्शाया गया है, जबकि उसके आस-पास के रकबों में इण्डस्ट्रीज, आबादी हो रही, जिसको ग्रीन वेल्ड में किसी भी स्थिति नहीं रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
121	121 / 164 / 27.04.2022	02.11.2022	श्री कौशलदीप राजपूत निवासी -पन्डित नंगला मो० नम्बर - 9359438900	ग्राम-पंडित नंगला के गाटा सं०-228, 333, 337 को औद्योगिक/व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
122	122 / 165 / 27.04.2022	02.11.2022	श्रीमती बीना गुप्ता पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश निवासी-सराय खालसा मुरादाबाद। मोबाईल नंबर-9639429180	ग्राम-अगवानपुर उर्फ मुगलपुर मुस्तकम के गाटा सं०-1789 का भू-उपयोग औद्योगिक या आवासीय में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
123	123 / 166 / 27.04.2022	02.11.2022	आचार्य धीरशान्त दास अर्द्धमौनी, धर्मगुरु मठ मन्दिर विभा प्रमुख माबाईल नम्बर-9319362555	महायोजना-2031 में यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज, रंगमंचीय परिसर एवं नाटकशाला, मुरादाबाद ब्रास आर्ट गैलरी भवन संग्रहालय, वृहद पुस्तकालय, प्रचार प्रसार केन्द्र एवं दिल्ली रोड तथा कांठ रोड पर बस अड्डे का प्राविधान किए जाने का सुझाव दिया गया है।
124	124 / 141 / 28.04.2022	02.11.2022	श्री रुचिर अग्रवाल पुत्र श्री सुनिल कुमार अग्रवाल निवसी जवाहर बाग मुरादाबाद।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं०-3167, 3169 व 3170 जो कि एच.एच-9 हाईवे बाईपास पर स्थित है। महायोजना-2021 में आवासीय घोषित था, लेकिन महायोजना-2031 में ग्रीन वेल्ड में दर्शाया गया है। अतः मेरे उक्त गाटा संख्याओं की भूमि को पूर्ववत आवासीय में ही रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
125	125 / 28.04.2022	02.11.2022	श्री अशोक छावड़ा नि०-एच० आई०जी०-28 रामगंगा विहार फेस-2 मुरादाबाद।	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा सं०-619 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में एम-1/एम-2 घोषित है तथा महायोजना-2031 में एफ-3 कम्युनिटी सर्विस दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग महायोजना-2031 में औद्योगिक की रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
126	126 / 28.04.2022	02.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि०-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	1-प्रवेश मार्ग के साथ स्लम विकास से बचने के लिए इस भूमि के भू-उपयोग को आवासीय में बदल दिया जाए। 2-रामगंगा नदी के किनारे एक सुन्दर फ्रन्टेज प्रस्तावित किया जाना चाहिए। 3-प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय या वाणिज्यिक किया जाना चाहिए। 4-रामगंगा नदी के किनारे बन्धा प्रस्तावित किए जाने का सुझाव दिया गया है। 5-ग्राम-बागडपुर प्राधिकरण सीमा का अन्तिम गांव तथा अधिकांश कारखाने लोधीपुर के निकटवर्ती गांव में आ गये हैं। इससे न केवल विकास व बाजार का दबाव नियन्त्रित होगा बल्कि विकास शुल्क के माध्यम से राजस्व की भी प्राप्ति होगी। अतः उक्त औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 24.00 मीटर सड़क का प्राविधान किए जाने का सुझाव दिया गया है।
127	127 / 28.04.2022	02.11.2022	आर्कीटेक्ट बाई०पी० गुप्ता नि०-30 साकेत कालौनी न्यू सिविल लाईन मुरादाबाद।	1-मुरादाबाद शहर दिल्ली से मात्र 160.00 किलामीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की आवश्यकता है, जैसे-1000 से 1500 शीट वाला आकर्षक आडिटोरियम, राजकीय महा विद्यालय, सभी विशिष्टताओं वाला मेडिकल कॉलेज, भविष्य हेतु इंजीनियरिंग कॉलेज व प्रोफेशनल कॉलेज के लिए स्थान का प्राविधान किए जाने सुझाव दिया गया है। 2-दिल्ली रोड से रामपुर रोड पर बाईपास के दोनो ओर पहले बनाये गये बाईपास की भांती ही प्रस्तावित बाईपास के दानो ओर भू-उपयोग प्रस्तावित किए जाए। 3-कांठ रोड पर अत्यधिक व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित है, तथा उस क्षेत्र में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः तहसील मुरादाबाद के सामने अनुपयोगी भूमि पर 200-250 कार पार्किंग का तीन मंजिला भवन बनाये जाने का सुझाव दिया गया है। 4-वर्तमान में जिला कारागार शहर के बिचोबीच में स्थित है, जिसे शहर के बाहर स्थानान्तरित किए जाने का प्राविधान महायोजना-2031 में किए जाने का सुझाव दिया गया है। 5-रामपुर रोड पर जहाँ दोनो बाईपास पूर्व में निर्मित एवं वर्तमान में प्रस्तावित मिलते है, उनके पश्चिम, दक्षिण दिशा में अभी भी अधिक लघु एवं वृहद् क्षेत्र को बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया है। 6-टाउन हॉल पर दोनो अस्पताल की खाली भूमि पर उपयोगी भू-उपयोग एवं कार-स्कूटर पार्किंग की व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिया गया है।

128	128 / 220 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री अंशुल अग्रवाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, मुरादाबाद। नि0-पैरागोन मेटल इंडस्ट्रीज, मिनी बाईपास रोड लाकड़ी फाजलपुर।	1-लघु भारती उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य रूप से रामपुर रोड पर प्रभात मार्केट, के आस-पास लगभग तीस वर्षों से औद्योगिक ईकाईयाँ संचालित हैं, जिसमें कुछ ईकाईयों का भू-उपयोग महायोजना-2021 में औद्योगिक दर्शित है, इसके अतिरिक्त अन्य का भी भू-उपयोग आवासीय से औद्योगिक में किए जाने का सुझाव दिया गया। 2-काँठ रोड पर प्रेम नगर इंडस्ट्रीयल एरिया का सम्पूर्ण क्षेत्र को महायोजना-2031 में औद्योगिक किए जाने का सुझाव दिया गया। 3-गॉगन नदी से बाईपास रोड पर ग्राम-उमरी के गाटा सं0-55 व 56 जो कि मुख्य मार्ग से कुछ ही दूरी पर हैं, को विकसित किए जाने के लिए पहुँच मार्ग का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव महायोजना-2031 में किया जाए। 4-रामपुर रोड पर डियर पार्क से आगे ग्राम भैसियां के क्षेत्र को औद्योगिक में किए जाने का सुझाव दिया गया।
129	129 / 190 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री देशराज पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण दास नि0-गोयल नगर मानपुर मुरादाबाद।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं0-1365 में वर्षों से आबदी व वाउन्डरी दर्ज है, तथा इस गाटे के बायीं ओर औद्योगिक ईकाईयाँ संचालित हैं। अतः उक्त गाटा को ग्रीन वेल्ट से औद्योगिक में ही यथावत रखने का अनुरोध किया गया है।
130	130 / 190 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री क्षितिज सिंघल पुत्र श्री शरद कुमार नि0-बी-49 मानसरोवर दिल्ली रोड मुरादाबाद।	ग्राम-सोनकपुर के गाटा सं0-354 का भू-उपयोग महायोजना-2031 में आवासीय दर्शाया गया है, जबकि उक्त भूमि के आस-पास का क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित हैं। अतः उक्त गाटा संख्या को व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
131	131 / 187 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री इम्तियाज हुसैन एडवोकेट नि0-ग्राम भोला सिंह की मिलक उर्फ सोनकपुर देहात।	महायोजना-2031 में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल हरित पट्टी का तथा महायोजना मार्ग गाटा संख्याबार सजरा मानचित्र पर भू-उपयोग प्रदर्शित किया जाए, तथा विज्ञापन के समय व प्रकाशन पर आपत्ति व्यक्त की गयी है।
132	132 / 186 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री गौरव अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल नि0-एच0-20-21 लाजपत नगर मुरादाबाद।	ग्राम-मालीपुर के गाटा सं0-2 रकबा 0.3880 हे0 भूमि को महायोजना-2031 सी-2 भू-उपयोग दर्शाया गया है, जबकि उक्त भूमि के आस-पास लघु उद्योग संचालित है। अतः उक्त भूमि को लघु उद्योग में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
133	133 / 188 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री अभिनव अग्रवाल पुत्र श्री राजीव कुमार अग्रवाल नि0-नीलकण्ठ कालौनी मुरादाबाद।	ग्राम-शेरुआ धर्मपुर के गाटा सं0-453 क्षेत्रफल 1.0150 हे0 महायोजना-2031 में औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अतः उक्त गाटा को औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया गया है। (आ0सं0-105 के अनुसार)
134	134 / 180 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री अंशुल अग्रवाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, मुरादाबाद। नि0-पैरागोन मेटल इंडस्ट्रीज, मिनी बाईपास रोड लाकड़ी फाजलपुर।	मुरादाबाद महायोजना-2031 के सन्दर्भ में लघु उद्योग भारती मुरादाबाद ईकाई के प्रतिनिधि मण्डल व मुरादाबाद के आर्कीटेक्ट के साथ बैठक आहुत किए जाने का सुझाव दिया गया। ताकि उद्योग की समस्याओं के निराकरण सम्बन्धी सुझाव दिया जा सके।
135	135 / 181 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री सोमनाथ पोपली पुत्र श्री नारायण दास पोपली नि0-वारहा नीलकण्ठ कालौनी सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम-मुगलपुर उर्फ अगवानपुर मुस्तकम के गाटा सं0-2354 क्षेत्रफल 0.983 हे0 व गाटा सं0-2358 क्षेत्रफल 0.567 हे0 एवं ग्राम-काजीपुरा के गाटा सं0-541 क्षेत्रफल 1.161 हे0 है, उपरोक्त भूमि कांट रोड हाईवे पर स्थित है तथा उक्त भूमि के पूरब में अपेक्स स्कूल, पश्चिम में पेट्रोल पम्प दक्षिण में रेलवे लाईन तथा उसके ठीक सामने सड़क के पार आम्रपाली बैंक हॉल है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि ग्रीन वेल्ट न होकर व्यवसायिक/औद्योगिक है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक/व्यवसायिक/ शिक्षण संस्थान में किए जाने का अनुरोध किया गया है। (आ0सं0-30, 59, 118 के अनुसार)
136	136 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री रोहित ढल, चेयरमैन, यंग इण्टर प्रिनसिज सोसाईटी मोबाईल नम्बर-9837026053	1-हनुमान मुर्ति से पण्डित नंगला बाईपास के बायीं तरफ के क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाये। 2-रामपुर रोड पर प्रभात मार्केट के पास मंजु नगर को महायोजना-2031 में औद्योगिक में घोषित किया जाए। 3-रामपुर रोड पर डियर पार्क के पास ग्राम रामनगर मंझरा, बसन्तपुर रामराय के क्षेत्र को औद्योगिक घोषित किया जाए। 4-लाकड़ी फाजलपुर क्षेत्र में जो फेक्ट्रीयाँ 06 से 09 मीटर सड़क पर बनी हैं, उन पुरानी फेक्ट्रीयाँ को रेगुलाईज किया जाए। 5-काँठ रोड पर प्रेम नगर क्षेत्र को औद्योगिक घोषित किया जाए।
137	137 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री रविन्द्र कुमार रस्तौगी आदि नि0-लोटस 300 टावर-3 यूनिट-12ए-01 नोएडा सेक्टर -107 पिन-201304	ग्राम भौगपुर मिठौनी उर्फ शीरिकुई के गाटा सं0-1038 क्षेत्रफल 1.45 हे0 गाटा सं0-1039 क्षेत्रफल 0.0160 हे0 को पार्क क्षेत्र से आस-पास की भूमि गाटा सं0-1036, 1035, 1042, 1043 के समान ही व्यवसायिक में परिवर्तित किया जाए क्योंकि इस क्षेत्र में हॉस्पिटल, फेक्ट्री, आवासीय भवन, मैरिज हॉल, सरकारी आवासीय योजनायें, बैंक आदि संचालित हैं। अतः महायोजना-2031 में व्यवसायिक भूमि के रूप में किए जाने का अनुरोध किया गया है।

138	138/203/02.05.2022	02.11.2022	श्री सौरभ चौधरी नि०-सी०एल गुप्ता एण्ड सन्स रामपुर रोड मुरादाबाद। मो०नं०-9761149081	ग्राम-कल्याणपुर एहतमाली में बाईपास से सटी हुई भूमि का भू-उपयोग महायोजना-2031 में सामुदायिक सुविधाओं में दर्शित किया गया है, जबकि बाईपास के दाहिनी तरफ औद्योगिक क्षेत्र संचालित है। अतः प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग सामुदायिक सुविधाओं के स्थान पर औद्योगिक किए जाने का अनुरोध किया गया है।
139	139/199/02.05.2022	02.11.2022	श्री गोपाल मिश्रा पुत्र स्व० श्री देवकी नन्दन मिश्रा नि०-कट घर गाड़ी खाना मुरादाबाद। मोबाईल नं०-9058740159	ग्राम-लालपुर हमीर के गाटा सं०-437 को महायोजना-2031 में हाईवे फेसिलिटी जोन में दर्शाया गया है, जबकि इसके आस-पास औद्योगिक क्षेत्र है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
140	140/201/02.05.2022	02.11.2022	श्री शमशुल रहमान पुत्र जमीलउररहमान नि०-मिनी बाईपास जिगर कम्पाउण्ड पण्डित नंगला मुरादाबाद।	ग्राम-मुस्तफाबाद एहतमाली के गाटा सं०-195, 185, 178, 188, 192, 187, 190, 194, 188, 192, 194, 173, 166, 169, 170, 171, 172, 173 को ग्रीन बैल्ट में रखा गया है, जबकि उक्त गाटा संख्याओं के आस-पास का क्षेत्र आवासीय आबादी में है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग महायोजना-2031 में आवासीय में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
141	141/205/02.05.2022	02.11.2022	श्री राजीव तोमर मुरादाबाद। मोबाईल नं०-9837712856	दिल्ली रोड पर टी०एम०यू० के सामने की भूमि को व्यवसायिक/आवासीय में दर्शाया गया है, जबकि महायोजना-2021 में उक्त स्थल पर TTBT दर्शित था। अतः उक्त स्थल पर TTBT की भूमि को आवासीय/व्यवसायिक किए जाने का अनुरोध किया गया है।
142	142/206/02.05.2022	02.11.2022	डा० राजकमल नि०-ग्राम भटावली मो०नं०-9359438900	कांठ रोड पर कोठीवाल डेन्टल कॉलेज के बराबर से रामगंगा पुल पार कर काशीपुर को जाने वाला रास्ते को महायोजना-2031 में दर्शित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
143	143/213/02.05.2022	02.11.2022	श्री मोहर सिंह नि०-ग्राम गुरमत सदन रामस्वरूप कालौनी चन्दन नगर मुरादाबाद।	ग्राम-मनोहरपुर के गाटा सं०-792 क्षेत्र 2430.00 वर्ग मीटर के समीपवर्ती क्षेत्र में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक गतिविधियाँ अनुमन्य की गयी है। अतः उपरोक्त गाटा संख्या को महायोजना-2031 में व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
144	144/215/02.05.2022	02.11.2022	श्री कुनाल मागो पुत्र श्री कुलदीप कुमार मागो नि०-बानो बाग नियर सिविल लाईन अस्पताल मुरादाबाद।	ग्राम-उमरी के गाटा सं०-392, 391 532, 393, क्षेत्र 2.118 है० जिसके समीपवर्ती मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक गतिविधियाँ अनुमन्य की गयी है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक किए जाने का अनुरोध किया गया है।
145	145/224/02.05.2022	02.11.2022	श्री शाने अली शानू, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी महानगर मुरादाबाद।	1-महायोजना-2031 में शामिल किए जाने वाले गाटा संख्याओं का भू-उपयोग बार विवरण प्रस्तावित किया जाए। 2-महायोजना-2031 में पी-3 जोनल पार्क दर्शाया गया है, जिसे स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है। 3-महायोजना-2031 को पूर्व की भांती ही ड्रापट किया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। महायोजना फिजिबिल व जन उपयोगी होनी चाहिए। 4-जामा मस्जिद से रामगंगा पार ताजपुर माफी व रसूलपुर नंगना खेम को जाने वाली सड़क के दोनो ओर काफी आबादी विकसित हो चुकी है। अतः इस क्षेत्र को गैर आवासीय रखा जाना औचित्यहीन है। 5-महायोजना प्रारूप 2031 में जो भूमि कृषि के रूप में है, उन्हें गाटा नम्बरान से स्पष्ट किया जाए। 6-जामा मस्जिद पुल पार रसूलपुर नंगला खेम, ताजपुर माफी व गोटा को जाने वाली सड़क के पाँच किलोमीटर दूरी तक उसके समीपवर्ती क्षेत्र को आवासीय में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
146	146/222/02.05.2022	02.11.2022	श्री मुसरत इकबाल आदि नि०-नयी बस्ती मुरादाबाद।	1-महायोजना-2031 में शामिल किए जाने वाले गाटा संख्याओं का भू-उपयोग बार विवरण प्रस्तावित किया जाए। 2-महायोजना-2031 में पी-3 जोनल पार्क दर्शाया गया है, जिसे स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है। 3-महायोजना-2031 को पूर्व की भांती ही ड्रापट किया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। महायोजना फिजिबिल व जन उपयोगी होनी चाहिए। 4-जामा मस्जिद से रामगंगा पार ताजपुर माफी व रसूलपुर नंगना खेम को जाने वाली सड़क के दोनो ओर काफी आबादी विकसित हो चुकी है। अतः इस क्षेत्र को गैर आवासीय रखा जाना औचित्यहीन है। 5-महायोजना प्रारूप 2031 में जो भूमि कृषि के रूप में है, उन्हें गाटा नम्बरान से स्पष्ट किया जाए। 6-जामा मस्जिद पुल पार रसूलपुर नंगला खेम, ताजपुर माफी व गोटा को जाने वाली सड़क के पाँच किलोमीटर दूरी तक उसके समीपवर्ती क्षेत्र को आवासीय में किए जाने का अनुरोध किया गया है।

147	147 / ईमेल / 430 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि0-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	1-प्रवेश मार्ग के साथ स्लम विकास से बचने के लिए इस भूमि के भू-उपयोग को आवासीय में बदल दिया जाए। 2-रामगंगा नदी के किनारे एक सुन्दर फ्रन्टज प्रस्तावित किया जाना चाहिए। 3-प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय या वाणिज्यिक किया जाना चाहिए। 4-रामगंगा नदी के किनारे बन्धा प्रस्तावित किए जाने का सुझाव दिया गया है। 5-ग्राम-बागडपुर प्राधिकरण सीमा का अन्तिम गांव तथा अधिकांश कारखाने लोधीपुर के निकटवर्ती गांव में आ गये हैं। इससे न केवल विकास व बाजार का दबाव नियन्त्रित होगा बल्कि विकास शुल्क के माध्यम से राजस्व की भी प्राप्ति होगी। अतः उक्त औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 24.00 मीटर सड़ का प्राविधान किए जाने का सुझाव दिया गया है।
148	148 / 198 / 02.05.2022	02.11.2022	श्रीमती मीना गोयल पत्नी प्रभात गोयल एडवोकेट मो0नं0 -9837133673	हनुमान मुर्ति से प्रेम बन्दर लैण्ड तक सड़क के दोनों ओर व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित है। अतः महायोजना-2031 में ग्राम-मुस्तफाबाद एहतमाली के गाटा संख्याओं 220, 221, 215, 161 का भू-उपयोग व्यवसायिक किये जाने का किए जाने का अनुरोध किया गया है।
149	149 / 239 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री वीर सिंह एडवोकेट (पूर्व सांसद राज्यसभा) नि0-2 / 36 बुद्धि विहार आवास विकास कालोनी मंझोला मुरादाबाद।	ग्राम पाकबड़ा के गाटा सं0-1145 निकट टी0एम0यू0 को महायोजना-2021 में तीस मीटर फ्रंट से गहराई तक ग्रीन वैल्ट दर्शित है, जबकि टी0एम0यू0 यूनिवर्सिटी के चारों ओर निर्माण हो चुका है। अतः उक्त तीस मीटर गहराई को कम करके महायोजना-2031 में 10 मीटर करते हुए भू-उपयोग व्यवसायिक किए जाने का अनुरोध किया गया है।
150	150 / 431 / 02.05.2022	02.11.2022	मा0 रिशेक कुमार गुप्ता, विधायक-28 नगर मुरादाबाद।	1-शहर के मध्य व तीन सड़को मध्य स्थित भू-भाग जो रेडक्रॉस चौराहा छावनी में स्थित है का कोई भू-उपयोग नहीं दर्शाया गया है, यह क्षेत्र व्यवसायिक हेतु उपयुक्त है। अतः व्यवसायिक किए जाने का सुझाव दिया गया है। 2-पीली कोठी चौराहे पर पूर्ण रूप से व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित हो रही है परन्तु महायोजना-2031 में पीली कोठी चौराहे पर कांट साईड पर व सिविल लाईन साईड पर बाजार स्ट्रीट का प्राविधान किया गया है, जबकि उसके स्थान व्यवसायिक किए जाने का सुझाव दिया गया है। 3-महायोजना-2031 में पी0ए0सी0 से लेकर हस्थला तक कांट रोड पर पूर्ण रूप से दोनों तरफ व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित है। अतः महायोजना-2031 में पी0ए0सी0 से लेकर हस्थला तक बाजार स्ट्रीट अथवा व्यवसायिक उपयोग किए जाने का सुझाव दिया गया है।
151	151 / 248 / 02.05.2022	02.11.2022	मा0 डा0 एस0टी0 हसन सांसद लोक सभा-6, मुरादाबाद। नि0-जिया मंजिल फैज गंज मुरादाबाद मो0नं0-9837064960	महायोजना-2031 में काशीपुर रोड पर ग्राम-बीजना, हटहट व ग्राम गोदी से पास होने वाले रिंग रोड एन0एच-734 तक जाने वाले मार्ग के आस-पास की भूमि को व्यवसायिक श्रेणी में नहीं लिया गया है। अतः पर्यटन के दृष्टिगत उक्त स्थल को व्यवसायिक, शैक्षणिक संस्थान व अस्पताल के लिए आरक्षित किए जाने का सुझाव दिया गया है।
152	152 / 242 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री अमरनाथ कपूर पुत्र स्व0 श्री वासुदेव लाल कपूर निवासी- चौराहा कपूर कम्पनी मुरादाबाद। मो0नं-8126008000	ग्राम-देहरी मुस्तकम के गाटा सं0-20, 21, 23 क्षेत्र-4570.00 वर्ग मीटर जो कि महायोजना-2021 में रामपुर रोड के मध्य से 75 00 फीट तक मार्गाधिकार क्षेत्र शेष भाग पार्क, खुले क्षेत्र एवं क्रीडा स्थल, नदी तटीय विकास क्षेत्र दर्शित है, जबकि उक्त स्थल के बराबर में शमशान व कब्रितान विद्यमान है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग महायोजना-2031 में आवासीय में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
153	153 / 243 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री अभी दिनेश शर्मा पुत्र स्व0 श्री दिनेश चन्द्र शर्मा निवासी- चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।	ग्राम-कल्याणपुर मुस्तकम के गाटा सं0-14, 19, 22, 30 की भूमि को महायोजना-2031 में हरित क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त बाईपास के साथ भी ग्रीन वैल्ट के पश्चात् सामुदायिक सुविधाओं का क्षेत्र दर्शित किया गया है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग महायोजना- 2031 में सामुदायिक सुविधाओं में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
154	154 / 259 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री अक्षय कुमार सिंह नि0-5 ई0 शिवविहार कालौनी भोगपुर मिठौनी। मो0नं0-9456663802	ग्राम-कल्याणपुर मुस्तकम के गाटा सं0-15, 16, 17, 18 व 75 की भूमि को महायोजना-2031 में हरित क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त बाईपास के साथ भी ग्रीन वैल्ट के पश्चात् सामुदायिक सुविधाओं का क्षेत्र दर्शित किया गया है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग महायोजना- 2031 में सामुदायिक सुविधाओं में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
155	155 / 254 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि0-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	1-ग्राम-फाजलपुर काशीपुर बाईपास पर पुल के निर्माण से कांट रोड पर आवासीय दबाव को कम करने का सुझाव दिया गया। 2-यह क्षेत्र घनी आबादी वाला आवासीय क्षेत्र है। 3-जामा मस्जिद पुल पार के क्षेत्र का विकास अनियोजित तरीके से हो रहा है जिसे महायोजना-2031 में सुव्यवस्थित किए जाने का दिया गया।

156	156 / 256 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि०-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम-मोरा मुस्तकम, काशीपुर बाईपास रोड पर जो 80 फीट चौड़ी सड़क है, जिसे प्रस्तावित न किए जाने का सुझाव दिया गया है। इस क्षेत्र में झुग्गी झोपियों का निर्माण न हो इस हेतु योजना वध तरीके से भू-उपयोग आवासीय किए जाने का सुझाव दिया गया है। क्योंकि पुराना काली मन्दिर और जामा मस्जिद के पास के क्षेत्र में बहुतायत झुग्गी झोपडियां निर्मित है।
157	157 / 260 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि०-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम-मनोहरपुर में जो क्षेत्र महायोजना-2031 में आवासीय से वाणिज्यिक क्षेत्र दर्शित किया गया है उसे महायोजना-2021 में अनुसार ही भू-उपयोग यथावत् रखने का सुझाव दिया गया है।
158	158 / 261 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि०-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम-रतनपुर कलां डिग्रपुर रोड पर SEZ के नजदीक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए जाने का सुझाव दिया गया है। क्योंकि इस क्षेत्र में सहायक ईकाईयों और छोटे पैमाने पर हस्तशिल्प आवश्यकता होगी।
159	159 / 262 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि०-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	दिल्ली रोड पर ग्राम बागड़पुर क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह गाँव प्राधिकरण की सीमा का अन्तिम गाँव है। ग्राम लोधीपुर के निकटवर्ती गाँव में अधिकांश कारखाने संचालित है। अतः उक्त क्षेत्र में 24.00 मीटर चौड़ी महायोजना रोड प्रस्तावित करते हुए औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए जाने का सुझाव दिया गया है।
160	160 / 257 / 02.05.2022	02.11.2022	रेडीकॉन स्कूल अपोजिट DPSG इन्टरनेशनल गाजियाबाद। मोबाईल नम्बर -9650255898	ग्राम-कल्याणपुर व रफातपुर की लगभग 20 एकड़ भूमि को महायोजना- 2031 में हरित क्षेत्र में दर्शित किया गया है। अतः उक्त स्थल को सामुदायिक सुविधाओं में घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
161	161 / 260 / 02.05.2022	02.11.2022	रेडीकॉन हाउसिंग प्रा०लि० नि०-फ्लेट नं०-110 यमूना-1 सेक्टर डी-6 बसन्तकुँज न्यू देहली। मो०नं०-8130380090	ग्राम-रफातपुर के गाटा सं०-258, 271 को महायोजना-2031 में हरित क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग सामुदायिक सुविधाओं में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
162	162 / 258 / 02.05.2022	02.11.2022	रेडीकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग प्रा०लि० नि०-जी० एफ०-25ए इन्द्रा प्रकाश बिल्डिंग, 21 बारह खम्बा रोड न्यू देहली। मो०नं०-8130380090	ग्राम-कल्याणपुर के गाटा सं०-10, 11, 13, 23 व गाम-रफातपुर के गाटा सं०- 290क, 266, 267 को महायोजना-2031 में हरित क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया है। अतः उपरोक्त ग्रामों के गाटा संख्याओं का भू-उपयोग महायोजना-2031 में सामुदायिक सुविधाओं में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
163	163 / 253 / 02.05.2022	02.11.2022	ज्योतिमय डवलवपर प्रा०लि० नि०-फ्लेट नं०-110 यमूना-1 सेक्टर डी-6 बसन्तकुँज न्यू देहली। मो०नं०-8130380090	ग्राम-रफातपुर के गाटा सं०-290, 266, 267 व 132 की भूमि को हरित क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग महायोजना-2031 में सामुदायिक सुविधाओं में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
164	164 / 255 / 02.05.2022	02.11.2022	ए०पी०एस० इन्फ्राटेक प्रा०लि० नि०-प्लाट नं०-13 व 14 बरजेस पार्क दिलशाद गार्डन दिल्ली। मो०नं०-8130380090	ग्राम-कल्याणपुर एवं ग्राम-रफातपुर के गाटा सं०-140ख, 162क की भूमि को हरित क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग महायोजना-2031 में सामुदायिक सुविधाओं में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
165	165 / 184 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व० प्रमोद कुमार गुप्ता द्वारा आलोक कुमार गुप्ता एडवोकेट।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं०-2115मि० व 2118मि० के आंशिक भाग को ग्रीन वेल्ड में दर्शाया गया है, जबकि उसके आस-पास के रकबों में इण्डस्ट्रीज, आबादी व खेती हो रही, जिसको ग्रीन वेल्ड में किसी भी स्थिति नहीं रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
166	166 / 230 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री गुलजार अहमद नि०-पीर जादा मो०नं०-9219159155 मुरादाबाद।	ग्राम-रसुलपुर नंगला खेम व ताजपुर माफी रेलवे स्टेशन गोट को जाने वाली पी०डब्लू०डी सड़क जो रामपुर रोड व नेनीताल रोड को मुरादाबाद नगर से मात्र पाँच किलोमीटर की दूरी पर जोड़ती है को व उसके समीप वर्ती दो-दो किलोमीटर क्षेत्र को आवासीय किए जाने का अनुरोध किया गया है।
167	167 / 431 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री अनीस अहमद आदि पुत्र शाविर हुसैन नि०-दौलतबाग गली नं०-4 मुरादाबाद।	ग्राम-रसुलपुर नंगला खेम व ताजपुर माफी रेलवे स्टेशन गोट को जाने वाली पी०डब्लू०डी सड़क जो रामपुर रोड व नेनीताल रोड को मुरादाबाद नगर से मात्र पाँच किलोमीटर की दूरी पर जोड़ती है को व उसके समीप वर्ती दो-दो किलोमीटर क्षेत्र को ग्रीन पार्क न करते हुए आवासीय किए जाने का अनुरोध किया गया है।
168	168 / ई-मेल / 418 27.04.2022 / 02.05.22	02.11.2022	संयुक्त आयुक्त उद्योग मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।	श्री तन्जील अहमद के प्रार्थना पत्र के जो कि एकटा विहार कालोनी रामपुर रोड के पास मछली बाजार को किसी अन्य जगह स्थानान्तरित करने तथा 472 बीघा जमीन आर्टिजेन्स पार्क के लिए हस्तान्तरित करने एवं पन्डित नंगला बाईपास को आर-2 से बाहर करने के प्रस्ताव को महायोजना-2031 में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।

169	169 / ई-मेल / 400 / 26.04.2022 / 02.05.22	02.11.2022	श्री अंशुल अग्रवाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, मुरादाबाद। नि०-पैरागोन मेटल इंडस्ट्रीज, मिनी बाईपास रोड लाकड़ी फाजलपुर।	मुरादाबाद महायोजना-2031 के सन्दर्भ में लघु उद्योग भारती मुरादाबाद ईकाई के प्रतिनिधि मण्डल व मुरादाबाद के आर्कीटैक्ट के साथ बैठक आहुत किए जाने का सुझाव दिया गया।
170	170 / IGRS / 4001352 2009006 / 02.05.2022	02.11.2022	श्री तनवीर वारी पुत्र अब्दुल कदीर नि०-लाजपत नगर मुरादाबाद। मो०नं-9837088425	ग्राम-मोहम्मदपुर बस्तोर के गाटा सं०-733, 734, 737, की भूमि पर कोई आबादी नहीं है बल्कि कृषि भूमि है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग महायोजना-2031 में औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
171	171 / ईमेल / 408 / 26.04.2022 / 02.05.22	02.11.2022	मा० डा० एस०टी० हसन सांसद लोक सभा-6, मुरादाबाद। नि०-जिया मंजिल फेज गंज मुरादाबाद मो०नं-9837064960	महायोजना-2031 में काशीपुर रोड पर ग्राम-बीजना, हटहट व ग्राम गोदी से पास होने वाले रिंग रोड एन०एच-734 तक जाने वाले मार्ग के आस-पास की भूमि को व्यवसायिक श्रेणी में नहीं लिया गया है। अतः पर्यटन के दृष्टिगत उक्त स्थल को व्यवसायिक, शैक्षणिक संस्थान व अस्पताल के लिए आरक्षित किए जाने का सुझाव दिया गया है।
172	172 / 04.05.2022	02.11.2022	श्री कुलजीत आनन्द, आनन्द इण्टरप्राइजेज नि०-मऊ हस्थला इण्डस्ट्रीयल एरिया फोन नं०- 0591-2452382	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा संख्या-621 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में औद्योगिक (एम-2) वृहद्ध उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत दर्शित है। अतः महायोजना-2031 में उक्त गाटा के भू-उपयोग को यथावत औद्योगिक में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
173	173 / 04.05.2022	02.11.2022	श्री दीपक अग्रवाल, जिला अध्यक्ष उ०प्र० उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल मुरादाबाद। नि०-दीप इम्पोरियम ग्लास शोरूम कटरा नाज मुरादाबाद।	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा संख्या-627 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में औद्योगिक (एम-2) वृहद्ध उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत दर्शित है। अतः महायोजना-2031 में उक्त गाटा के भू-उपयोग को यथावत औद्योगिक में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
174	174 / 306 / 02.05. 2022	02.11.2022	मैसर्स अर्जुन वासु आटोमोबाइल प्रा०लि० डायरेक्टर विनय मोहन टण्डन निवासी रायल इक्लेव दिल्ली रोड मुरादाबाद मो०नं- 9837946333	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं०-1138 जो कि दिल्ली रोड पर स्थित है, प्रश्नगत भूमि का कार का शोरूम/वर्क शॉप 15 वर्ष से संलाचित है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग महायोजना-2031 में व्यवसायिक में घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
175	175 / 307 / 02.05. 2022	02.11.2022	अरोरा एरोमेटिक्स प्रा० लि० डायरेक्टर श्रीमती साधना अरोरा मो०नं-9359438900	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं०-1179 मि०, 1180 मि०, 1182/2 वर्तमान में उक्त गाटाओं के आस-पास व्यवसायिक काम्पलेक्स व शोरूम भवन आदि संचालित है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग बाजार स्ट्रीट/ व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
176	176 / 304 / 02.05. 2022	02.11.2022	श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री प्रमोद कुमार गुप्ता द्वारा आलोक कुमार गुप्ता एडवोकेट।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं०-2115मि० व 2118मि० के आंशिक भाग को ग्रीन वेल्ड में दर्शाया गया है, जबकि उसके आस-पास के रकबों में इण्डस्ट्रीज, आबादी व खेती हो रही, जिसको ग्रीन वेल्ड में किसी भी स्थिति नहीं रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
177	177 / 299 / 02.05. 2022	02.11.2022	श्री रवि कुमार सिधल प्रबन्धक गांधी नगर पब्लिक स्कूल नानपुर ब्लोक कुन्दरकी मुरादाबाद।	ग्राम-नानपुर के गाटा सं०-396 मि०, 403 मि०, 408 मि० की भूमि पर गांधी नगर पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल संचालित है। उक्त भूमि को महायोजना-2031 में औद्योगिक क्षेत्र में दर्शित किया गया है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग शैक्षिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
178	178 / 200 / 05.05. 2022	02.11.2022	श्री मानिक मिगलानी पुत्र श्री अशोक मिगलानी।	ग्राम-सिहोरा गोविन्द अन्दर चुंगी रामपुर रोड निकट प्रमात मार्केट स्थित गाटा संख्या-378 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में आवासीय है, जबकि उसके आस-पास ज्यादातर स्थानों पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग महायोजना-2031 में व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
179	179 / 292 / 05.05. 2022	02.11.2022	श्री कैलाश भन्डूला पुत्र स्व० श्री नयूशाह नि०-ए-734 गली नं०-1 आजादनगर मुरादाबाद।	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं०-1182/2 व 1183 दिल्ली रोड पर स्थित है जो कि आकांक्षा मारुति शोरूम से पूरब की दिशा में है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग बाजार स्ट्रीट सी-5 में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
180	180 / 358 / 05.05. 2022	02.11.2022	श्री मौ० अब्दुल्लाह पुत्र स्व० श्री मौ० शाहिद नि०-सम्मल रोड मुरादाबाद मो०नं-9837033409	ग्राम-पण्डित नंगला के गाटा सं०-160/1, 160/3, 1601 एवं 216/2 जो कि पण्डित नंगला सम्मल रोड पर स्थित है। वर्तमान में उक्त स्थल पर सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हैं। महायोजना-2031 में उक्त भूमि व उसके आस-पास के क्षेत्र को आवासीय में दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।

181	181/291/05.05.2022	02.11.2022	श्री उज्जवल राणा पुत्र रामकुमार राणा मकान नं0-07 आशियाना फेज-2 मुरादाबाद।	महायोजना-2031 में हस्थला एहतमाली टी0डी0आई0 सिटी कॉलौनी से रामगंगा नदी की ओर जाने वाले 18.00 मीटर चौड़े मार्ग पर बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किया जा रहा है। नियमानुसार 24.00 मीटर चौड़े मार्ग पर बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किया जाना चाहिए। अतः उक्त स्थल पर बाजार स्ट्रीट की प्रस्तावना नहीं किए जाने का अनुरोध किया गया है।
182	182/ई-मेल/443/04.05.2022/05.05.22	02.11.2022	श्री अंशुल अग्रवाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, मुरादाबाद। नि0-पैरागोन मेटल इंडस्ट्रीज, मिनी बाईपास रोड लाकड़ी फाजलपुर।	1-लघु भारती उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य रूप से रामपुर रोड पर प्रभात मार्केट, के आस-पास लगभग तीस वर्षों से औद्योगिक ईकाईयों संचालित हैं, जिसमें कुछ ईकाईयों का भू-उपयोग महायोजना-2021 में औद्योगिक दर्शित है, इसके अतिरिक्त अन्य का भी भू-उपयोग आवासीय से औद्योगिक में किए जाने का सुझाव दिया गया। 2-काँठ रोड पर प्रेम नगर इंडस्ट्रीयल एरिया क सम्पूर्ण क्षेत्र को महायोजना-2031 में औद्योगिक किए जाने का सुझाव दिया गया। 3-गॉगन नदी से बाईपास रोड पर ग्राम-उमरी के गाटा सं0-55 व 56 जो कि मुख्य मार्ग से कुछ ही दूरी पर है, को विकसित किए जाने के लिए पहुँच मार्ग का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव महायोजना-2031 में किया जाए। 4-रामपुर रोड पर डियर पार्क से आगे ग्राम भैसियां के क्षेत्र को औद्योगिक में किए जाने का सुझाव दिया गया।
183	183/IGRS/1513522 0042246/05.05.2022 (मा0 मुख्यमंत्री सन्देश)	02.11.2022	श्री अंशुल अग्रवाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, मुरादाबाद। नि0-पैरागोन मेटल इंडस्ट्रीज, मिनी बाईपास रोड लाकड़ी फाजलपुर।	औद्योगिक क्षेत्र लाकड़ी फाजलपुर से आगे मिनी बाईपास के किनारे ग्राम मैनाटेर, ट्रांसपोर्ट नगर तक अधिकांश निर्यात औद्योगिक ईकाईयों लगभग 20 वर्षों से संचालित हैं, उक्त क्षेत्र में स्थापित निर्यात ईकाईयों में श्रमिक/निर्यातकों द्वारा पीतल निर्मित वस्तुओं पर ढलाई छिलाई घिसाई पॉलिशिंग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि का कार्य किया जाता है। उक्त स्थल को विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय आर-1 क्षेत्र में दर्शाया गया है। अतः लाकड़ी फाजलपुर मिनी बाईपास के किनारे ग्राम मैनाटेर-ट्रांसपोर्ट नगर तक के क्षेत्र को महायोजना-2031 प्रदूषण नियंत्रित औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
184	184/302/02.05.2022	02.11.2022	डा0 मन्जेश राठी पुत्र दिलबाग सिंह राठी मा0नं0-9359438900	ग्राम-छावनी के गाटा सं0-470 को महायोजना-2031 में आवासीय में दर्शाया गया है, जबकि उक्त गाटा संख्या का आवेदन मानचित्र में अस्पताल के लिए किया जा चुका है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग आवासीय से अस्पताल में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
185	185/333/06.05.2022	02.11.2022	श्री सतेन्द्र सिंह मलिक नि0-म0 नं0-523 चिड़िया टोला लाईनपार मुरादाबाद।	महायोजना-2031 में रामगंगा विहार फेज-2 एम0आई0टी0 कॉलेज के दाहिनी ओर 24.00 मीटर चौड़े मार्ग पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स संचालित है। अतः प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़े मार्ग के एलाइन्मेंट को व्यवहारिक रखते हुए मार्ग के दुसरी तरफ भी व्यवसायिक अथवा बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
186	186/05.05.2022	02.11.2022	श्री अतुल भूटानी नि0-एच0 आई0जी0-28 रामगंगा विहार पुलिस चौकी।	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा सं0-619 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में एम-1/एम-2 घोषित है तथा महायोजना-2031 में एफ-3 कम्युनिटी सर्विस दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग महायोजना-2031 में औद्योगिक की रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
187	187/05.05.2022	02.11.2022	श्री अतुल भूटानी नि0-एच0 आई0जी0-28 रामगंगा विहार पुलिस चौकी।	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा सं0-619 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में एम-1/एम-2 घोषित है तथा महायोजना-2031 में एफ-3 कम्युनिटी सर्विस दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग महायोजना-2031 में औद्योगिक की रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
188	188/05.05.2022	02.11.2022	श्री अवधेश अग्रवाल महासचिव मुरादाबाद हैण्डिक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन मुरादाबाद। मोबाईल नम्बर- 9837032953	आपत्ति संख्या-43 के अनुसार।
189	189/05.05.2022	02.11.2022	श्री हरिराज सिंह मा0 नम्बर- 9837048795	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा सं0-619 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में एम-1/एम-2 घोषित है तथा महायोजना-2031 में एफ-3 कम्युनिटी सर्विस दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग महायोजना-2031 में औद्योगिक ही रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

190	190 / 05.05.2022	02.11.2022	श्री अशोक छावड़ा नि0-एच0 आई0जी0-28 रामगंगा विहार फेस-2 मुरादाबाद।	आपत्ति संख्या-125 के अनुसार।
191	191 / 285 / 05.05.2022	02.11.2022	श्री जोगिन्दर गांधी लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद मोबाईल नम्बर-8395084000	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर व निकटवर्ती ग्रामों में जहां पर गैर आवासीय क्षेत्र में विगत वर्षों में औद्योगिक ईकाईयाँ स्थापित हो चुकी है उनका वर्तमान भू-उपयोग को परिवर्तित करते हुए महायोजना-2031 में औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
192	192 / 288 / 05.05.2022	02.11.2022	श्री उज्ज्वल राणा पुत्र रामकुमार राणा मकान नं0-07 आशियाना फेज-2 मुरादाबाद।	आपत्ति संख्या-181 के अनुसार।
193	193 / 289 / 05.05.2022	02.11.2022	श्री मोहन लाल सैनी पुत्र श्री डल्लू सिंह नि0-लक्ष्मीपुर कट्टई मो0नं0-9012813103	ग्राम-लक्ष्मीपुर कट्टई के गाटा सं0-288, 273, 274 के समीप काफी क्षेत्र में औद्योगिक ईकाईयाँ आती है परन्तु इसके सामने 18.00 मीटर रोड भी प्रस्तावित है। अतः इस क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण कराकर महायोजना-2031 में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।
194	194 / 295 / 05.05.2022	02.11.2022	श्रीमती स्नेह कपूर आदि नि0-गाँगन नदी के पीछे लाकड़ी फाजलपुर मोबाईल नं0-9897255089	आपत्ति संख्या-57 के अनुसार।
195	195 / 05.05.2022	02.11.2022	श्री आशिक हुसैन मोबाईल नम्बर-9917231666	आवेदक द्वारा ग्राम जामा मस्जिद से रामगंगा पार करके ग्राम ताजमारी माफी व रसुलपुर नंगला खेम दिशा में होकर जाने वाली पी0डब्लू0डी0 सड़क के दोनों ओर आवासीय क्षेत्र घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। मुरादाबाद दिल्ली रोड, कांठ रोड, सम्मल बर्दौयू रोड के क्षेत्रों में ग्रीन वैल्ट हटाने का अनुरोध किया गया है। नंगला खेम क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में रखने का औचित्य आधारहीन बताया गया है। ग्राम रसुलपुर नंगला खेम में ड्रिस्टक पार्क, जोनल पार्क आदि भू-उपयोग को समाप्त करते हुए आर-2 करने तथा जामा मस्जिद पुल से ग्रास रसूलपुर नंगला खेम व ग्राम ताजपुर माफी व रेलवे स्टेशन गेट को जाने पी0डब्लू0डी0 सड़क के दोनों ओर पाँच-पाँच किलो मीटर तक आवासीय क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है।
196	196 / 05.05.2022	02.11.2022	स्माल मीडियम मार्ट ऑनर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन नि0-नयी बस्ती अपोजिट इकबाल नगर मुरादाबाद। मो0 नम्बर-9412235553	ग्राम-मैनाटेर के गाटा सं0-1007 / 6, 1066, 981, 998, 999, 984, 1003, 988, 997, 842, 841, 831, 847, 839, 832, 833, 838, 835, 836, 846, 992, 995, 996, 1001, 993 व 994 आदि गाटों में 2005 से पूर्व में फ्लैटियाँ बनी हुई हैं। उक्त स्थल को महायोजना-2031 में आवासीय में दर्शित किया गया है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
197	197 / 05.05.2022	02.11.2022	श्री देवेन्द्र भारद्वाज व जितेन्द्र भारद्वाज एवं समस्त स्थानीय जनता दिल्ली रोड मुरादाबाद। मोबाईल नम्बर-8859000927	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं0-1135, 1136, 1137, जो कि महायोजना-2031 में व्यवसायिक क्षेत्र में नहीं दर्शाया गया है, जबकि अराजी के आस-पास लोकोशेड से लेकर मंझोला थाने तक मैन रोड के दोनों तरफ व्यवसायिक संस्थान संचालित हैं। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
198	198 / 05.05.2022	02.11.2022	श्री महफुज आलम एडवोकेट आदि चेम्बर नम्बर-223 ए मुरादाबाद। मोनं0-9412474015	दिल्ली रोड पर ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर में एक तरफ कारों के शोरूम संचालित है, जिन्हे महायोजना-2031 में औद्योगिक में दर्शाया गया है, जबकि ग्राम लाकड़ी फाजलपुर के इस हिस्से में व्यवसायिक युज भी दर्शाया गया है। अतः उक्त क्षेत्र को महायोजना-2031 में व्यवसायिक में घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
199	199 / 05.05.2022	02.11.2022	श्री चौखे लाल राणा एडवोकेट मोबाईल नम्बर-9927810508	दिल्ली रोड पर ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर में एक तरफ कारों के शोरूम संचालित है, जिन्हे महायोजना-2031 में औद्योगिक में दर्शाया गया है, जबकि ग्राम लाकड़ी फाजलपुर के इस हिस्से में व्यवसायिक युज भी दर्शाया गया है। अतः उक्त क्षेत्र को महायोजना-2031 में व्यवसायिक में घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
200	200 / 05.05.2022	02.11.2022	श्री यश मेहरोत्रा व लक्ष्य मेहरोत्रा पुत्रगण रवि मेहरोत्रा नि0-राजेन्द्र नगर मुरादाबाद।	ग्राम-रामनगर मंझरा एहतमाली के गाटा सं0-86, 87, 114 'क' का भू-उपयोग महायोजना-2021 में कृषि दर्शित है, जबकि महायोजना-2031 में उक्त स्थल को ग्रीन क्षेत्र में दर्शाया गया है। उक्त गाटा के सामने वाला पुरा क्षेत्र औद्योगिक दिखाया गया है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं को भी औद्योगिक भू-उपयोग में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
201	201 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री योगेन्द्र गांधी व जोगेन्द्र गांधी दीवान सन्स गांगन तिराहा मुरादाबाद।	ग्राम लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं0-1362, 1378, 1379, 1361, 1381, में दीवान सन्स के नाम से इण्डस्ट्रीज 1996 से लगी हुई है। महायोजना-2031 में उक्त गाटा संख्याओं को ग्रीन एरिया में दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।

202	202 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री अंशुल अग्रवाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, मुरादाबाद। नि०-पैरागोन मेटल इंडस्ट्रीज, मिनी बाईपास रोड लाकड़ी फाजलपुर।	आपत्ति संख्या-183 के अनुसार।
203	203 / 328 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री अनीस अहमद पुत्र शाविर हुसैन नि०-दौलतबाग गली नं०-4 मुरादाबाद।	आपत्ति संख्या-167 के अनुसार।
204	204 / 338 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री भूकन सरन शर्मा पुत्र श्री हरप्रसाद नि०-ग्राम लाकड़ी फाजलपुर मो०नं०-9756020144	ग्राम लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं०-3192 व 3195 महायोजना-2031 में ग्रीन वैल्ट में दर्शाया गया है, जबकि उक्त आराजी के आस-पास औद्योगिक ईकाईयां संचालित है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक/आवासीय में दर्शित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
205	205 / 339 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश्वर सरन अग्रवाल नि०-बांस मण्डी मुरादाबाद। मो०नं०-9412246700	आपत्ति संख्या-107 के अनुसार।
206	206 / 341 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री अर्पित मिश्रा पुत्र श्री गोपाल मिश्रा नि०-सिविल लाईन्स मुरादाबाद। मोन०-9634237478	ग्राम-बागड़पुर में दिल्ली रोड से मुरादाबाद की ओर बायीं तरफ की भूमि व्यवसायिक होनी चाहिए क्योंकि यह 24.00 मीटर सड़क पर है। और यहां पर सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है। जबकि इसके सामने की भूमि को व्यवसायिक दर्शाया गया है। अतः बागड़पुर के दोनों तरफ के स्थल को व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
207	207 / 349 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री अर्पित मिश्रा पुत्र श्री गोपाल मिश्रा नि०-सिविल लाईन्स मुरादाबाद। मोन०-9634237478	पी०एम०एस० स्कूल से साईं रेजीडेन्सी तक अधिकांश क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है, जबकि इस स्थल को महायोजना-2031 में व्यवसायिक क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। अतः उक्त स्थल को व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
208	208 / 381 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री अमरनाथ कपूर पुत्र स्व० श्री वासुदेव लाल कपूर निवासी- चौराहा कपूर कम्पनी मुरादाबाद। मो०नं-8126008000	आपत्ति संख्या-152 के अनुसार।
209	209 / 393 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री रनवीर कुमार नि०-33 पंचशील कालोनी सिविल लाईन मुरादाबाद। मोबाईल नम्बर- 9412236924	ग्राम अगवानपुर उर्फ मुस्तकम के गाटा सं०-2353 जो कि हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित है तथा इसके आस-पास आबादी एवं व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है। उक्त स्थल को महायोजना-2031 में पार्क प्रदर्शित किया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग व्यवसायिक अथवा आवासीय में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
210	210 / 402 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री अंशुल अग्रवाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, मुरादाबाद। नि०-पैरागोन मेटल इंडस्ट्रीज, मिनी बाईपास रोड लाकड़ी फाजलपुर।	आपत्ति संख्या-128 के अनुसार।
211	211 / 402(1) / 05.05.2022	03.11.2022	श्री अंशुल अग्रवाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, मुरादाबाद। नि०-पैरागोन मेटल इंडस्ट्रीज, मिनी बाईपास रोड लाकड़ी फाजलपुर।	आपत्ति संख्या-128 के अनुसार।
212	212 / 399 / 05.05.2022	03.11.2022	आई०एच० एक्सपोर्ट बी-565 लाजपत नगर नियर पुलिस चौकी मुरादाबाद।	आपत्ति संख्या-119 के अनुसार।
213	213 / 376 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री अर्जुन आनन्द पुत्र श्री सुनिल आनन्द नि०-आशियाना कालोनी रामगंगा विहार मो. नं.- 9818449331	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा संख्या-621 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में औद्योगिक (एम-2) वृहद् उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत दर्शित है। अतः महायोजना-2031 में उक्त गाटा के भू-उपयोग को यथावत औद्योगिक में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

214	214 / 401 / 05.05.2022	03.11.2022	मा0 डा0 एस0टी0 हसन सांसद लोक सभा-6, मुरादाबाद। नि0-जिया मंजिल फेज गंज मुरादाबाद मो0नं0-9837064960	मुरादाबाद शहर में पीछले काफी समय से हाईकोर्ट के आदेशानुसार स्लॉटर हाउस को एन0जी0टी0 द्वारा बन्द कर दिये गये थे। अतः महायोजना-2031 में आधुनिक स्लॉटर हाउस की भूमि प्रस्तावित किए जाने का सुझाव दिया गया है।
215	215 / 368 / 05.05.2022	03.11.2022	संयुक्त आयुक्त उद्योग मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।	ग्राम-लक्ष्मीपुर कटटई के गाटा सं0-121, 234, 238, 328, 273, 274, 288 आदि है। उक्त स्थल पर 18.00 मीटर चौड़ा रोड होना प्रस्तावित है। उक्त स्थल के आस-पास की भूमि इण्डस्ट्रीयल है। अतः महायोजना-2031 में उक्त गाटा संख्याओं को औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
216	216 / 420 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री अपफान अकबर कयूम पुत्र श्री अकबर कयूम नि0-डिप्टी गंज मखनिया वाली मस्जिद मुरादाबाद।	ग्राम-किसरोल के गाटा सं0-03 रकबा 6000 वर्ग मीटर जो कि 18.00 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है, जिसके तीनो तरफ नर्सिंग हॉम, अस्पताल, स्कूल व व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
217	217 / 379 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री तन्जील अहमद नि0-एकता विहार उत्तरी मो0नं0- 9412245124	काशीपुर तिराहे पर ग्राम-बरवारा मंझरा में मण्डी समिति द्वारा 40 से अधिक लाइसेन्स मछली खरीद के लिए दिये गये है। उक्त स्थल एम0डी0ए0 कालोनी व मस्जिद के रास्ते पर है। अतः महायोजना-2031 में उक्त स्थल को अन्यत्र प्रस्तावित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
218	218 / 376 / 05.05.2022	03.11.2022	श्री अर्जुन आनन्द पुत्र श्री सुनिल आनन्द नि0-आशियाना कालोनी रामगंगा विहार मो नं.- 9818449331	ग्राम-शेरुआ धर्मपुर के गाटा संख्या-621 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में औद्योगिक (एम-2) वृहद् उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत दर्शित है। अतः महायोजना-2031 में उक्त गाटा के भू-उपयोग को यथावत औद्योगिक में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
219	219 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री आदित्य शर्मा कुलसचिव, तीर्थान्कर महावीर यूनिवर्सिटी	ग्राम-तीर्थान्कर महावीर यूनिवर्सिटी वर्ष 2008 से संचालित है। पाकबड़ा के गाटा सं-1200 से 1222 को महायोजना-2031 में व्यवसायिक में दर्शाया गया है। जिसे रद्द करते हुए, उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग महायोजना- 2021 के अनुरूप ग्रीन वैल्ट (पार्क क्रीडा स्थल) रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
220	220 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री आदित्य शर्मा कुलसचिव, तीर्थान्कर महावीर यूनिवर्सिटी	आपत्ति संख्या-219 के अनुसार।
221	221 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री आदित्य शर्मा कुलसचिव, तीर्थान्कर महावीर यूनिवर्सिटी	ग्राम-बागड़पुर के गाटा सं0-311 व 312 एवं पाकबड़ा के गाटा सं0-1197, 1198 व 1199 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में संस्थागत दर्शित है, जबकि उक्त स्थल को महायोजना-2031 में व्यवसायिक में घोषित किया गया है। अतः पूर्व की भाँति उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग सामुदायिक सुविधायें में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
222	222 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री आदित्य शर्मा कुलसचिव, तीर्थान्कर महावीर यूनिवर्सिटी	आपत्ति संख्या-221 के अनुसार।
223	223 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री आदित्य शर्मा कुलसचिव, तीर्थान्कर महावीर यूनिवर्सिटी	ग्राम-बागड़पुर के गाटा सं0-278 मि0, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 व 295 का भू-उपयोग महायोजना-2021 की भाँति कृषि/संस्थागत में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
224	224 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री आदित्य शर्मा कुलसचिव, तीर्थान्कर महावीर यूनिवर्सिटी	आपत्ति संख्या-223 के अनुसार।
225	225 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री यश मेहरोत्रा व लक्ष्य मेहरोत्रा पुत्रगण रवि मेहरोत्रा नि0-राजेन्द्र नगर मुरादाबाद।	आपत्ति संख्या-200 के अनुसार।
226	226 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री मोहित कुमार पुत्र श्री अजय कुमार नि0-ग्राम फरीदपुर हमीर सम्मल रोड मुरादाबाद। मो0 नं0-9654769001	ग्राम-फरीदपुर हमीर के गाटा सं0-52 का भू-उपयोग धारा-143 के अन्तर्गत कृषि से व्यवसायिक कर दिया गया तथा इस भूमि पर वैयर हाउस, विद्युत सप्लाई का कार्य संचालित किया जा रहा है। अतः महायोजना-2031 में उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
227	227 / 421 / 07.05.2022	03.11.2022	आरडीसी इन्फाटेक प्रा0लि0 द्वारा श्रीमती मीना आर छाबरा मो0नं0-9412245999	ग्राम-सोनकपुर दक्षिण के गाटा सं0-354 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में व्यवसायिक में दर्शित है। अतः उक्त गाटा संख्या को महायोजना-2031 में व्यवसायिक में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

228	228 / 416 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री सुरजपाल पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल भूतपूर्व सैनिक ग्राम- फरीदपुर हमीर सम्मल रोड मुरादाबाद मो0नं0-7599292633	ग्राम-फरीदपुर हमीर के गाटा सं0-53 का भू-उपयोग धारा-80 के अन्तर्गत कृषि से व्यवसायिक कर दिया गया तथा इस भूमि पर वैयर हाउस, विद्युत सप्लाई का कार्य संचालित किया जा रहा है। अतः महायोजना-2031 में उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग आद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
229	229 / 417 / 07.05.2022	03.11.2022	श्रीमती डॉ0 नीतू वर्मा पुत्री स्व0 जमुनादास नि0-मोहल्ला फतेहउल्ला गंज ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद। मोबाईल नं0-7895961956	ग्राम-सैदपुर खादर के गाटा सं0-225/2 मि0, 231/1 मि0 व 232/1 मि0 जिसका फ्रण्टेज लगभग 100.00 मीटर है। उक्त गाटे कांट रोड से रामगंगा पुल होकर धारक नंगला बाईपास 24.00 मीटर चौड़े रोड पर स्थित है। महायोजना-2031 में ग्राम सैदपुर खादर की धारक नंगला तक की भूमि को कृषि में दर्शित किया गया है। अतः उक्त गाटा संख्याओं की भूमि 70.00 मीटर गहराई तक व्यवसायिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।
230	230 / 418 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री हिमांशु पाठक पुत्र श्री उमेशचन्द्र पाठक प्रेमनगर कांट रोड मुरादाबाद। माबाईल नम्बर -9808019350	ग्राम-काजीपुरा के गाटा सं0-656, 655, 653, 652, 651 की कुछ भूमि का भू-उपयोग ग्रीन वैल्ट की जगह आवासीय व औद्योगिक किया गया है, जबकि उसी स्थान पर काफी भूमि पी-3 में यथावत रखी गयी है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग आवासीय/औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
231	231 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री मोबिन हुसैन पुत्र श्री शब्बीर हुसैन नि0-हरथला कांट रोड मुरादाबाद मो0नं0-9897363460	ग्राम-काजीपुरा के गाटा सं0-656, 655, 653, 652, 651 की कुछ भूमि का भू-उपयोग ग्रीन वैल्ट की जगह आवासीय व औद्योगिक किया गया है, जबकि उसी स्थान पर काफी भूमि पी-3 में यथावत रखी गयी है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग आवासीय/औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
232	232 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल व नीरज अग्रवाल माबाईल नम्बर- 9897015552	ग्राम-मऊ के गाटा सं0-262, 263 मि0, 265 व 272 जो कि मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे पर स्थित है। महायोजना-2031 में उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
233	233 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री देवेन्द्र सिंह अधिवक्ता नि0-19 गांधी पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद। मोबाईल नं0-9412235424	महायोजना-2031 में अगवानपुर रेलवे ओवर ब्रीज के बाद वृहद्ध औद्योगिक एम-2 भू-उपयोग दर्शाया गया है, जबकि उक्त क्षेत्र में कई प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित है। अतः अगवानपुर रेलवे ओवर ब्रीज के बाद मार्ग के दोनो साईड 100.00 मीटर गहराई तक व्यवसायिक भू-उपयोग दर्शित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
234	234 / 448 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री अतिन कुमार शर्मा पुत्र श्री अरविन्द कुमार शर्मा नि0- सेन्टल मेडिकेयर आशियाना फेस-2 विवेकानन्द हॉस्पिटल के पीछे, मुरादाबाद।	ग्राम-सोनकपुर के गाटा सं0-353/2 की भूमि के आस-पास व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
235	235 / 449 / 07.05.2022	03.11.2022	श्रीमती रानी चोपड़ा पत्नी श्री अशोक कुमार चोपड़ा निवासी- सी-127, रामगंगा विहार फेस -2 मुरादाबाद।	ग्राम-सोनकपुर के गाटा सं0-353/2 की भूमि के आस-पास व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
236	236 / 450 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री मानिक रावल पुत्र श्री विजय रावल नि0-ए-26/27 टी0डी0आई0 सिटी, कांट रोड मुरादाबाद। मो0नं-9837037606	आपत्ति संख्या-234 के अनुसार।
237	237 / 07.05.2022	03.11.2022	दॉ क्रिएटिव प्युपिल हॉल नं0- 6ए फस्ट पलोर एकता कॉम्प्लेक्स कम्पनी बाग मुरादाबाद। मो0नं-9837066173	चौधरी चरण सिंह चौक से लेकर गांगन नदी तक का समस्त क्षेत्र महायोजना- 2031 में औद्योगिक में दर्शाया गया है। एवं कुछ भाग विद्युत उपकेन्द्र का भी दर्शाया गया है, जबकि इस रोड पर काफी संख्या में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है। अतः चौधरी चरण सिंह चौक से गांगन पुल तक लाकड़ी फाजलपुर की तरफ 150 फुट रोड पर 100 मीटर की गहराई तक व्यवसायिक किए जाने का अनुरोध किया गया है।
238	238 / 07.05.2022	03.11.2022	मा0 रितेश कुमार गुप्ता, विधायक-28 नगर मुरादाबाद।	दिल्ली रोड पर ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर रोड के दोनो साईड महायोजना- 2031 में भू-उपयोग औद्योगिक दर्शाया गया है, जबकि लोको शेड पुल से लेकर थाना मंझोला गांगन चौराहे तक रोड के दोनो तरफ व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हैं। अतः उक्त क्षेत्र महायोजना-2031 व्यवसायिक में किए जाने का सुझाव दिया गया है।
239	239 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री राजीव गुप्ता मो0 नं0- 9412247364	ग्राम-ढक्का व अगवानपुर मुस्तकम में कई जगह पर महायोजना-2031 में औद्योगिक भू-उपयोग दर्शाया गया है, जबकि वहां पर आवासीय निर्माण हो चुके हैं। अतः उक्त स्थल को आवासीय में किए जाने का अनुरोध किया गया है।

240	240 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री संजीव गुप्ता जिला अध्यक्ष गौ रक्षा संयोजक नि०-ज्योति लिंग महादेव मन्दिर हरिद्वार रोड अगवानपुर मोबाईल नं०-9412247364	ग्राम-ढक्का व अगवानपुर मुस्तकम में कई जगह पर महायोजना-2031 में औद्योगिक भू-उपयोग दर्शाया गया है, जबकि वहां पर आवासीय निर्माण हो चुके हैं। अतः उक्त स्थल को आवासीय में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
241	241 / 07.05.2022	03.11.2022	श्री दीपक मलिक आदि नि०- सिविल लाईन मुरादाबाद।	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा सं०-586/1, 586/2, 587/2, 587/3 जो कि आबादी से लगी हुए है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग महायोजना- 2031 में आर-1 में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
242	242 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री देवेन्द्र भारद्वाज व जितेन्द्र भारद्वाज एवं समस्त स्थानीय जनता दिल्ली रोड मुरादाबाद। मोबाईल नम्बर-8859000927	आपत्ति संख्या-197 के अनुसार।
243	243 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री अंशुल अग्रवाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, मुरादाबाद। नि०-पैरागोन मेटल इंडस्ट्रीज, मिनी बाईपास रोड लाकड़ी फाजलपुर।	आपत्ति संख्या-128 के अनुसार।
244	244 / 08.05.2022	03.11.2022	स्माल मीडियम मार्ट ऑनर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन नि०-नयी बस्ती अपोजिट इकबाल नगर मुरादाबाद। मो० नम्बर-9412235553	ग्राम-मैनाटेर के गाटा सं०-1007/6, 1066, 981, 998, 999, 984, 1003, 988, 997, 842, 841, 831, 847, 839, 832, 833, 838, 835, 836, 846, 992, 995, 996, 1001, 993 व 994 आदि गाटों में 2005 से पूर्व में फैंक्ट्रियां बनी हुई है। उक्त स्थल को महायोजना-2031 में आवासीय में दर्शित किया गया है। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
245	245 / 456 / 08.05. 2022	03.11.2022	डॉ० मनोज कुमार अरोड़ा पुत्र श्री कृष्ण गोपाल अरोड़ा नि०-मधुवनी कालोनी कांठ रोड मुरादाबाद मोबाईल नम्बर-9837090724	ग्राम-सोनकपुर के गाटा सं०-623 व 624 में चारो ओर आबादी है। उक्त गाटा संख्याओं की भूमि को महायोजना-2021 में आवासीय में दर्शित किया गया है। अतः उक्त गाटा संख्याओं की भूमि को व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
246	246 / 457 / 08.05. 2022	03.11.2022	श्री झण्डू सिंह पुत्र श्री नन्हें सिंह नि०-ग्राम अबाबकरपुर तह० व जिला मुरादाबाद।	ग्राम-सैदपुर खादर की भूमि डेन्टल कॉलेज से धारक नंगला रोड जो काशीपुर नेशनल हाईवे पर जुड़ता है, महायोजना-2021 में रोड के दोनो साईडो पर कृषि भू-उपयोग दर्शित किया गया है, जबकि रोड के दोनो तरफ व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है। अतः सड़क के दोनो ओर 70.00 मीटर गहराई तक व्यवसायिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।
247	247 / 458 / 08.05. 2022	03.11.2022	श्री विपिन कुमार पुत्र महीपाल सिंह नि०-बसन्त विहार कालोनी शाहपुर तिगरी मुरादाबाद मोन०-9412323919	ग्राम-सैदपुर खादर की भूमि डेन्टल कॉलेज से धारक नंगला रोड जो काशीपुर नेशनल हाईवे पर जुड़ता है, महायोजना-2021 में रोड के दोनो साईडो पर कृषि भू-उपयोग दर्शित किया गया है, जबकि रोड के दोनो तरफ व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है। अतः सड़क के दोनो ओर 70.00 मीटर गहराई तक व्यवसायिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।
248	248 / 459 / 08.05. 2022	03.11.2022	श्री मोहन लाल सैनी पुत्र श्री डल्लू सिंह नि०-लक्ष्मीपुर कट्टई मो०नं०-9012813103	ग्राम-लक्ष्मीपुर कट्टई के गाटा सं०-288, 273, 274 के समीप काफी क्षेत्र में औद्योगिक ईकाईयाँ आती है परन्तु इसके सामने 18.00 मीटर रोड भी प्रस्तावित है। अतः इस क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण कराकर महायोजना-2031 में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।
249	249 / 460 / 08.05. 2022	03.11.2022	श्री एस०पी० यादव पुत्र श्री हरिशंकर नि०-ग्राम सैदपुर खददर तह० व जिला मुरादाबाद।	ग्राम-सैदपुर खादर की भूमि डेन्टल कॉलेज से धारक नंगला रोड जो काशीपुर नेशनल हाईवे पर जुड़ता है, महायोजना-2021 में रोड के दोनो साईडो पर कृषि भू-उपयोग दर्शित किया गया है, जबकि रोड के दोनो तरफ व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है। अतः सड़क के दोनो ओर 70.00 मीटर गहराई तक व्यवसायिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।
250	250 / 460 / 08.05. 2022	03.11.2022	श्री विजयपाल पुत्र श्री नन्हें सिंह नि०-ग्राम अबाबकरपुर तह० व जिला मुरादाबाद।	ग्राम-सैदपुर खादर की भूमि डेन्टल कॉलेज से धारक नंगला रोड जो काशीपुर नेशनल हाईवे पर जुड़ता है, महायोजना-2021 में रोड के दोनो साईडो पर कृषि भू-उपयोग दर्शित किया गया है, जबकि रोड के दोनो तरफ व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है। अतः सड़क के दोनो ओर 70.00 मीटर गहराई तक व्यवसायिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।

251	251 / 465 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री अंशुल अग्रवाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, मुरादाबाद। नि०-पैरागोन मेटल इंडस्ट्रीज, मिनी बाईपास रोड लाकड़ी फाजलपुर।	आपत्ति संख्या-128 के अनुसार।
252	252 / 470 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री इम्तियाज हुसैन एडवोकेट जनसूचना व पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता चेन०-63 बी कचहरी मुरादाबाद। मो०नं-7060060085	हरथला रेलवे स्टेशन के पास जो भूमि महायोजना-2031 में पार्क के लिए आरक्षित की गयी है वह महायोजना-2021 में पार्क, खुले क्षेत्र और क्रीडा स्थल के लिए आरक्षित थी इस क्षेत्र में हिन्द निहोन प्रोटीस और उसकी सहयोगी फर्मों की लगभग 280 बीघा जमीन है। उक्त स्थल पर वर्तमान में अधिकांश आवास बन चुके हैं व व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हैं, जिन्हें हटाया जाना चुनौती पूर्ण है। अतः उक्त स्थल को पुनः पार्क के लिए आरक्षित न किए जाने का अनुरोध किया गया है।
253	253 / 470 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री मांगे राम पुत्र श्री रामचरन नि०-काजीपुरा मुरादाबाद।	पीली कोठी चौराहे से जिला अस्पताल की ओर जाने वाले रोड पर स्कूल बना हुआ है, जबकि मानचित्र में आवास बनाने का रंग दर्शित किया गया है। इस रोड पर पहले से ही कई दुकानें बनी हुई हैं, जिनकी वजह से काफी जाम रहता है। अतः सड़क के दोनों ओर व्यवसायिक गतिविधियां न किए जाने का अनुरोध किया गया है।
254	254 / 469 / 08.05.2022	03.11.2022	इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन मुरादाबाद। मोबाईल नं०-6399001112	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर में दिल्ली रोड से जाने वाले बाईपास के एक तरफ टीटी तथा एक तरफ ग्रीन वैल्ट दर्शाया गया है, जबकि उक्त दोनों स्थानों पर लगभग 25-30 साल से फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। अतः उक्त स्थल को महायोजना -2031 में औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
255	255 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री देवेन्द्र भारद्वाज व जितेन्द्र भारद्वाज एवं समस्त स्थानीय जनता दिल्ली रोड मुरादाबाद। मोबाईल नम्बर-8859000927	आपत्ति संख्या-197 के अनुसार।
256	256 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री तेज प्रताप सिंह एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम बागड़पुर तहसील व जिला मुरादाबाद। मो०नं०-7456099364	ग्राम-बागड़पुर के गाटा सं०-311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 व 338 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में टीटी/बीटी निर्धारित किया गया था, जिसे परिवर्तित कर महायोजना-2031 में आवासीय में दर्शित किया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। अतः उक्त स्थल को महायोजना-2031 में यथावत टीटी/बीटी रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
257	257 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री संजीव गुप्ता जिला अध्यक्ष गौ रक्षा संयोजक नि०-ज्योति लिंग महादेव मन्दिर हरिद्वार रोड अगवानपुर मोबाईल नं०-9412247364	ग्राम-अगवानपुर की पुरानी आबादी के आस-पास की भूमि को महायोजना- 2031 कृषि दर्शाया गया है, जिसको आवासीय में दर्शाया जाना न्याय संगत है। अतः आबादी के पास की कृषि भूमि को आवासीय व रामगंगा नदी के दोनों ओर एम०डी०ए० की सीमा तक बन्धा दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है।
258	258 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री वलवन्त सिंह प्रधान नि०-ग्राम-शेरूआ धर्मपुर मो०नं०-9917254820	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर हकीमपुर की तरफ जाने वाली रोड पर महायोजना- 2031 में आवासीय दर्शाया गया है, जबकि आवासीय में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट प्रदर्शित करना आवश्यक है। अतः उक्त क्षेत्र को व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
259	259 / ई-मेल-460 / 07.05.2022 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि०-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	आपत्ति संख्या-147 के अनुसार।
260	260 / ई-मेल-461 / 07.05.2022 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि०-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	आपत्ति संख्या-158 के अनुसार।
261	261 / ई-मेल-462 / 07.05.2022 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि०-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	आपत्ति संख्या-126 के अनुसार।
262	262 / ई-मेल-463 / 07.05.2022 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि०-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	आपत्ति संख्या-157 के अनुसार।

263	263 / ई-मेल-464 / 0 7.05.2022 / 08.05. 2022	03.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि0-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	आपत्ति संख्या-155 के अनुसार।
264	264 / ई-मेल-465 / 0 7.05.2022 / 08.05. 2022	03.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि0-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	आपत्ति संख्या-159 के अनुसार।
265	265 / ई-मेल-466 / 0 7.05.2022 / 08.05. 2022	03.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि0-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	आपत्ति संख्या-155 के अनुसार।
266	266 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री मौ0 नदीम पुत्र नसीम अहमद मो0नं0-8384863780	ग्राम-लालपुर हमीर के गाटा सं0-533 की कुछ दूरी पर ईट का भट्टा संचालित है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
267	267 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री पवन बंसल नि0-जेड-24 मानसरोवर कालोनी दिल्ली रोड मुरादाबाद। मोबाईल नम्बर -9412248450	मुरादाबाद महायोजना-2031 में औद्योगिक भूमि पर उच्च शिक्षा व वैसिक शिक्षा संचालन की अनुमति दिये जाने का प्राविधान दिया जाए।
268	268 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री हिमांशु मेहरा मो0नं0- 9837048122	ग्राम-सोनकपुर के गाटा सं0-535, 504, 505, 553, 569, 570, 554, 556, 561, 555, 537, 551, 532, 527, 559, 563, 540, 534, 599, 551-ए, 521, 547, 518, 560, 571, 526, 546, 528, 556, 536, 538, 542, 543, 545, 502, 554, 548, 549, 550, 571, 551, 533, 566, 538 व 541 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय इलहाबाद में दायर रिट याचिका सं0-41561 / 2013 के सन्दर्भ में अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
269	269 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री हिमांशु मेहरा मो0नं0- 9837048122	आपत्ति संख्या-268 के अनुसार।
270	270 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री पराग अग्रवाल एण्ड एसोसिएट नि0-175 आवास विकास सिविल लाईन मुरादाबाद।	1-कांठ रोड से काशीपुर रोड को जोड़ने वाली रोड पर महायोजना-2031 में जो भू-उपयोग लगाया गया है वह योजनावद्ध तरीके से नहीं लगाया गया है। 2-रामगंगा नदी का वहाव जो महायोजना-2031 में दिखाया गया है, इसका विचलन के अनुसार भू-उपयोग दर्शित होना चाहिए।
271	271 / 08.05.2022	03.11.2022	मेट फेक्लटी ऑफ एग्रीकल्चर कान्सटीट्यूट इन्सटीट्यूट ऑफ एम0आई0टी0 ग्रुप ऑफ इन्सटीट्यूसन नि0-रामगंगा विहार फेस-2 मुरादाबाद।	महायोजना-2031 हेतु सुझाव निम्नवत है:- 1-इण्टरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, 2-आडिटोरियम, 3-नेशनल हाईवे पर मेडिकल कॉलेज एवं नेशनल यूनिवर्सिटी की सीपना, 4-जेल को शहर से बाहर शिफ्ट कर उसके स्थान पर बाजार स्ट्रीट व पार्किंग बनायी जाए, 5-शहर के लिए एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स पार्किंग सहित प्रस्तावित किया जाए। 6-रामगंगा नदी के दोनों ओर बाढ़ नियन्त्रण का प्राविधान किया जाए। 7-रामगंगा नदी के प्रवाह से प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर आवासीय एरिया घोषित किया जाए। 8-जोनल रोड के साथ रामगंगा नदी रिग रोड बनायी जाए। उक्त का प्राविधान महायोजना-2031 में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
272	272 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री मनवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र सिंह नि0-हिमागिरी कालोनी मो0नं0-9837023735	कांठ रोड पर पी0ए0सी0 तिराहे से हरथला व कॉसमोस हास्पिटल तक रोड के दोनों साईड में सरकारी व एम0डी0ए0 की भूमि को छोड़ते हुए सड़क के दोनों ओर बाजार स्ट्रीट विकसित हो रहा है। अतः कांठ रोड के दोनों तरफ के शेष भाग को भी बाजार स्ट्रीट में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
273	273 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री पवन बंसल नि0-जेड-24 मानसरोवर कालोनी दिल्ली रोड मुरादाबाद। मोबाईल नम्बर -9412248450	आपत्ति संख्या-267 के अनुसार।
274	274 / 08.05.2022	03.11.2022	वुडवर्क बिल्डकोन प्रा0लि0 मो0नं0-8755033333	ग्राम-मैनाटेर व चक फेजुल्लापुर में निर्मित गौशाला को महायोजना-2031 में 24 मीटर चौड़ा दिखाया गया है, गौशाला की 24 मीटर चौड़ी रोड से लगभग 300 मीटर की दूरी पर 18 मीटर चौड़ी रोड प्रस्तावित की गयी है। जबकि उक्त स्थल पर आवासीय निर्माण हो चुके हैं। अतः गौशाला की रोड से 110 मीटर की दूरी पर महायोजना-2031 में रोड प्रस्तावित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

275	275 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री संतोष सागर पत्नी श्री दयाराम सागर नि०-एच०आई०जी० डी/२ दीनदयाल नगर फेज-१ कांठ रोड मुरादाबाद।	ग्राम-मुकर्रबपुर मुस्तकम के गाटा सं०-१८/२ जो कि नेशनल हाईवे पर स्थित है तथा उसके आस-पास व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है। अतः महायोजना-२०३१ में उक्त गाटा का भू-उपयोग व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
276	276 / 08.05.2022	03.11.2022	मैसर्स सालार बिल्डवैल प्रा०लि० नि०-अशर्फी हाउस, मुफती टोला जिला मुरादाबाद। मो०नं०-९८३७४७५३९०	ग्राम-मनोहरपुर के गाटा सं०-१८२, १९७, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २३५, २३४, २३६, २३७, २३१, २३०, २३८, २९०, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६६, २७६, २८८, २८७, २८३, २८२ व २८० की आधी भूमि को महायोजना-२०२१ में जलाशय व पार्क भू-उपयोग तथा अवशेष भूमि पर चिकित्सालय दर्शाया गया था। जिसे महायोजना-२०३१ में यथावत रखा गया है। अतः उक्त गाटा संख्याओं की भूमि का भू-उपयोग आवासीय/व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
277	277 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री खालिद मसूद पुत्र स्व० श्री मोहम्मद राशिद राशिद होम डेकॉर पंडित नंगला बाईपास जनपद मुरादाबाद। मोबाईल नम्बर-९८३७०५१३०	ग्राम-पण्डित नंगला के गाटा सं०-३ मि०, ४ मि०, ५ मि० की भूमि को महायोजना-२०२१ में आवासीय दर्शाया गया था, जिसे महायोजना-२०३१ में भी यथावत रखा गया है, जबकि उक्त भूमि पर एक्सपोर्ट हाउस का मानचित्र स्वीकृत है। अतः उक्त भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
278	278 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री आश मोहम्मद एडवोकेट चैम्बर नं०-३० कोर्ट कम्पाउन्ड, मुरादाबाद। मो०नं०-९८३७६८२१२६	ग्राम लाकड़ीफाजलपुर में दिल्ली रोड लाकड़ी बाईपास के सुरुआत में दोनो साईड में फेक्ट्रिया पेट्रोल पम्प वर्षों से संचालित होने तथा इन क्षेत्र में ग्रीन वैल्ट व टी०टी० भू-उपयोग को समाप्त कर औद्योगिक एवं व्यवसायिक करने का अनुरोध किया गया है। ग्राम उमरी में बाईपास के दाहिनी तरफ आवासीय भू-उपयोग को समाप्त करते हुए औद्योगिक भू-उपयोग किये जाने का अनुरोध किया गया है। ग्राम कल्याणपुर एहतमाली में बाईपास से सटी भूमि पर प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं के भू-उपयोग को औद्योगिक भू-उपयोग में किये जाने का अनुरोध किया गया है। लाकड़ीफाजलपुर से एस०ई०जेड० तक जोड़ने के लिए औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
279	279 / 08.05.2022	03.11.2022	डा० मन्जेश राठी पुत्र दिलबाग सिंह राठी मा०नं०-९३५९४३८९००	आपत्ति संख्या-१८४ के अनुसार।
280	280 / 08.05.2022	03.11.2022	डा० रश्मि लता पुत्री भोलानाथ झा नि०-ए-८ देव विहार कालौनी मुरादाबाद।	राजेन्द्र नगर सिविल लाईन मैन रोड पर ४०१.६० वर्ग मीटर का भूखण्ड है, जिसमें पारिख नर्सरी तथा एच०डी०एफ०सी० की ब्रान्च है, इसी रोड पर व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित है। उक्त भूखण्ड को आवासीय में दर्शित किया गया है। अतः महायोजना-२०३१ में उक्त भूखण्ड को व्यवसायिक में किए जाने का अनुरोध किया गया है।
281	281 / 394 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री विकास त्रिवेदी पुत्र श्री राम बिहारी लाल मो० चौक अमरोहा	ग्राम-भोगपुर मिठौनी के गाटा सं०-१०७१ में से ९९.०० वर्ग मीटर भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गयी है, जिस पर भवन निर्माण कराना चाहता है। अतः उक्त गाटा सं० का भू-उपयोग महायोजना-२०३१ में आवासीय में किए जाने किये जाने का अनुरोध किया गया है।
282	282 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री हरिराज सिंह मो० नम्बर- ९८३७०४८७९५	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा सं०-६१९ का भू-उपयोग महायोजना-२०२१ में एम-१/एम-२ घोषित है तथा महायोजना-२०३१ में एफ-३ कम्युनिटी सर्विस दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग महायोजना-२०३१ में औद्योगिक ही रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
283	283 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री अर्जुन आनन्द पुत्र श्री सुनिल आनन्द नि०-आशियाना कालौनी रामगंगा विहार मो.नं.-९८१८४४९३३१	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा संख्या-६२१ का भू-उपयोग महायोजना-२०२१ में औद्योगिक (एम-२) वृहद् उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत दर्शित है। अतः महायोजना-२०३१ में उक्त गाटा के भू-उपयोग को यथावत औद्योगिक में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
284	284 / 08.05.2022	03.11.2022	श्री अशोक छावड़ा नि०-एच० आई०जी०-२८ रामगंगा विहार फेस-२ मुरादाबाद।	ग्राम-शेरूआ धर्मपुर के गाटा सं०-६१९ का भू-उपयोग महायोजना-२०२१ में एम-१/एम-२ घोषित है तथा महायोजना-२०३१ में एफ-३ कम्युनिटी सर्विस दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग महायोजना-२०३१ में औद्योगिक की रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
285	285 / 174 / 25.04.2022	03.11.2022	श्री अशीष कुमार मो०नं०- ८४४५७७६६००	हरथला मुस्तकम की पुरानी आबादी को व्यवसायिक किया जाए।
286	286 / 11.10.2022	03.11.2022	श्री पवन बंसल निवासी-जेड-२४, मानसरोवर कालौनी, मुरादाबाद, उ०प्र० मो०नं०-९४१२२४८५०	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा सं०-१४३८बी, १४४१, १४४०/२, १४४२/२, १४४६, १४४७, १४४८, १४४९, १४५४, १४५५, १४५६, १४६२, १४६४, १५१४, १५१५/२ कुल ५३ बीघा की भूमि पर उच्च माध्यमिक, इन्टर विद्यालय खोलने हेतु शैक्षिक भू-उपयोग किये जाने का अनुरोध किया गया।
287	287 / 11.10.2022	03.11.2022	मौ० मुस्तकीम पुत्र मौ० नसीम निवासी- एकता विहार साउथ सी-२१, तहसील व जिला मुरादाबाद।	ग्राम-मैसिया तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा सं०-३०७ रकबा १.००७० है० का भू-उपयोग बगीचा दर्शाया गया है, जिसे व्यवसायिक/आवासीय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

288	288	03.11.2022	श्रीमती बीना गुप्ता पत्नी श्री राजीव कुमार गुप्ता निवासी-4-ए-कांट रोड, मुरादाबाद मो0नं0-9837020840	ग्राम-काजीपुरा, काँसमास तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा सं0-654, 655, 656, 653, 651, 652 के अन्तर्गत भूमि का भू-उपयोग ग्रीन वैल्ट की जगह आवासीय 653, 651, 652 व 656 का औद्योगिक हो गया है, लेकिन 654, 655 का भू-उपयोग नहीं बदला गया है। व उसी स्थान पर पी-3 यथावत रखा गया है। आवेदक द्वारा गाटा सं0-654 व 655 को आवासीय व औद्योगिक भू-उपयोग किये जाने का अनुरोध किया गया।
289	289 / 14.10.2022	03.11.2022	श्रीमति बाला पत्नी मनोज कुमार आदि निवासीगण पण्डित नंगला की मिलक गागन तहसील व जिला मुरादाबाद।	1- ग्राम-पण्डित नंगला की मिलक की पुरानी आबादी जो नगर निगम के अन्तर्गत आती है को प्रस्तावित महायोजना-2021-2031 में नहीं दर्शाया गया है। 2-ग्राम पण्डित नंगला के गाटा सं0-745, 746, 747, 748, 236 को ग्रीन वैल्ट घोषित किया गया था। वर्तमान योजना में भी ग्रीन वैल्ट प्रस्तावित किया था। 3-गांगन नदी पर पुल का निर्माण 1973 में हुआ था, तभी से पण्डित नंगला मिलक के व्यक्तियों द्वारा अपनी पेत्ररिक सम्पत्ति पर दुकानों का निर्माण करते हुए निवास कर रहे हैं। 4-1994 में नगर की सीमा विस्तार के उपरान्त पण्डित नंगला नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आता है। सड़क के दोनों किनारों पर गरीब व्यक्तियों की घनी आबादी है। 5-1992 में बाईपास का निर्माण हुआ और बाईपास के किनारे ग्रीन वैल्ट घोषित की गई। 6-ग्राम पण्डित नंगला के गाटा सं0-232 व धीमरी के अन्य गाटा संख्याओं में ट्रांसपोर्ट नगर योजना विकसित की गयी। 7-गाटा सं0-232, 234, 233 में जकरिया इंडस्ट्री का निर्माण सन 1978 में किया गया। 8-ग्राम पण्डित नंगला के गाटा सं0-235 में मोटरसाइकिल पवित्रा शोरूम है। तथा गाटा सं0-236 में आबादी व लाल पेट्रोल पम्प तथा रोड के बाईपास तक आवासीय/व्यवसायिक गतिविधियाँ हैं। 9-जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा घोषित सर्किल रेट के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर से तहसील सीमा तक रोड के दोनों ओर वाणिज्यिक दर निर्धारित है। उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा पण्डित नंगला मिलक के 500 घरो की पुरानी आबादी को आबादी में तथा ट्रांसपोर्ट नगर से सम्मिल चंदौसी मार्ग पर तहसील सीमा तक आवासीय/औद्योगिक उपयोग दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है।
290	290 / 14.10.2022	03.11.2022	श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र तारा चन्द्र निवासी- ग्राम खलीलपुर अमरू तह0 कांट, जिला मुरादाबाद। मो0नं0-9412245338	ग्राम सिरसमा गौड़ तह0 व जिला मुरादाबाद के खसरा सं0-114 पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा एल0ओ0आई0 जारी किया गया है, कई विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर लिया गया है, त्रुटिवश महायोजना-2031 में कृषि भू-उपयोग दर्शाया गया है, जिसे व्यवसायिक में दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है।
291	291 / 14.10.2022	03.11.2022	श्रीमती सुमन पत्नी निपेन्द्र कुमार निवासी- खलीलपुर अमरू तह0 कांट जिला मुरादाबाद। मो0नं0-9719400738	ग्राम सिरसमा गौड़ तह0 व जिला मुरादाबाद के खसरा सं0-1368, 1369 (पुराना खसरा सं0-1703/1 एवं 1704/1) में प्रशान्त फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पम्प 2004 से संचालित है, जिसे त्रुटिवश महायोजना- 2031 में पेट्रोल पम्प नहीं दर्शाया गया है, अतः महायोजना-2031 व्यवसायिक में दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है।
292	292 / 14.10.2022	03.11.2022	श्रीमती सरिता पाल पत्नी जबर सिंह नि0-शेरपुर बहलीन तह0 ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद मो0नं0-9927036888	ग्राम इस्लाम नगर रमपुरा, तह0 व जिला मुरादाबाद के खसरा सं0-369 में हर्ष किसान सेवा केन्द्र पेट्रोल पम्प 2014 से संचालित है, जिसे त्रुटिवश महायोजना- 2031 में पेट्रोल पम्प नहीं दर्शाया गया है, अतः महायोजना-2031 व्यवसायिक में दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है।
293	293 / 15.10.2022	03.11.2022	श्री वी0के0 गुप्ता, निदेशक लोहिया ब्रास प्रा0लि0, निदेशक लोहिया डेवलपर्स (इण्डिया) प्रा0लि0, निदेशक, डिजाइनको प्रा0लि0, मो0नं0-9837587777	ग्राम लाकड़ी फाजलपुर, देहली रोड, मुरादाबाद के गाटा सं0-1337, 1189, 1190, 1191, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1293, 1294, 1295, 1297, 1298, 1317, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331 व 1332 मुख्य मार्ग पर स्थित है, उक्त गाटा संख्याओं के आसपास व्यवसायिक गतिविधियां पूर्व से ही संचालित है। अतः आवेदक द्वारा उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग महायोजना-2031 में व्यवसायिक में किये जाने का अनुरोध किया गया।
294	294 / 15.10.2022	03.11.2022	श्री फेसल माजिद पुत्र श्री अब्दुल माजिद निवासी-भूड़े का चौराहा मुरादाबाद। मो0नं0-9837049521	ग्राम मोहम्मदपुर बस्तौर तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के गाटा सं0-728 की भूमि का कुछ अंश भाग बाग दर्शाया जा रहा है, जबकि मौजूदा मौके पर व स्वामित्व अभिलेख खसरा में कहीं पर भी कोई भी हिस्सा बाग नहीं है। अतः गाटा संख्या-728 के अंश भाग में दर्शित बाग को सही किये जाने का अनुरोध किया गया है।
295	295	03.11.2022	श्री आदित्य शर्मा कुलसचिव, तीर्थान्कर महावीर यूनिवर्सिटी	ग्राम-पाकबड़ा के गाटा सं0-1200 से 1222 को मुरादाबाद महायोजना-2031 में व्यवसायिक/आवासीय प्रस्तावित किया गया है। आवासीय तथा व्यवसायिक गतिविधियों के अन्तर्गत होटल पब, साईबर केफे, वीयर, शराब, मीट आदि की दूकानें खुलने की सम्भावना रहती है। जहां असामाजिक तत्व एकत्र होकर के यूनिवर्सिटी का माहोल खराब कर सकते हैं। अतः भूमि का भू-उपयोग पूर्व की भांति क्रीड़ा स्थल/पार्क करने का अनुरोध किया गया।

296	296	03.11.2022	श्री आदित्य शर्मा कुलसचिव, तीर्थान्कर महावीर यूनिवर्सिटी	ग्राम-बागड़पुर तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा सं0-278मि0, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 व 295 का भू-उपयोग महायोजना-2031 (प्राकृप) में आवासीय/व्यवसायिक दर्शाया गया है, टी0एम0यू0 अस्पताल में लगभग 600 मरीज भर्ती रहते हैं तथा 1600 मरीजों की ओपी0डी0 है। व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स के कारण वाहनों द्वारा जाम लगने की समस्या बढ़ जायेगी तथा हॉर्न एवं सायरन बजने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है। अतः परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में संदर्भित गाटा नम्बरों की भूमि को महायोजना- 2021 के अनुसार यथावत् कृषि अथवा संस्थागत रखे जाने का अनुसार किया गया।
297	297	03.11.2022	श्री आदित्य शर्मा कुलसचिव, तीर्थान्कर महावीर यूनिवर्सिटी	ग्राम बागड़पुर के गाटा सं0-311 व 312 एवं पाकबड़ा तह0 व जिला मुरादाबाद के गाटा सं0-1197, 1198 व 1199 के निकट तीर्थान्कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल संचालित है, जिसमें 14000 से अधिक विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा एवं अन्य पाठयक्रमों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स आदि के कारण अस्पताल के सामने वाहनों द्वारा जाम लगने की समस्या बढ़ जायेगी, जिससे अति गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुँचने में काफी अधिक समय लगेगा, जिसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं, इससे मरीजों की जान जा सकती है। तथा ओपी0डी0 में आने वाले 1600 से अधिक मरीजों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उक्त के दृष्टिगत संदर्भित गाटा संख्याओं का भू-उपयोग महायोजना-2021 के अनुरूप संस्थागत में रखे जाने का अनुरोध किया गया।
298	298 / 17.10.2022	03.11.2022	मौ0 असद पुत्र मौ0 अहमद निवासी- लाईफ लाईन हॉस्पिटल, गलशहीद, मुरादाबाद। मौ0नं0-9927169786	ग्राम हटहट के गोटा सं0-235 की भूमि में नईमा फिलिंग स्टेशन स्थित है, जो वर्ष 2015 से संचालित है। त्रुटिवश महायोजना-2031 में पम्प नहीं दर्शाया गया है। अतः प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग व्यवसायिक में किये जाने का अनुरोध किया गया।
299	299 / 17.10.2022	03.11.2022	श्री उमंग वैश्य पुत्र श्री प्रमोद कुमार निवासी-लक्ष्मी निवास सिविल लाईन्स, जिला मुरादाबाद। मौ0नं0-9927039397	ग्राम-मनोहरपुर अण्डर बार्डपास से 300-400 मीटर दूर सीधे हाथ की भूमि महायोजना-2031 में कार्यालय दर्शाया गया है, जबकि लगभग 02 किलो मीटर की त्रिज्या में भी कोई सरकारी या प्राईवेट कार्यालय नहीं है और न ही भविष्य में कोई कार्यालय बनने की आवश्यकता है। आस-पास सभी आवासीय/इन्ड्रस्टीयल भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है, जो सर्वथा उचित है। इसी के अनुसार ग्राम मनोहरपुर में अण्डरपास से निकलकर सीधे हाथ वाली भूमि जहाँ पर आस-पास फैंक्ट्री बन रही है का भू-उपयोग भी प्रस्तावित महायोजना में इन्ड्रस्टीयल/आवासीय किये जाने का अनुरोध किया गया।
300	300 / 17.10.2022	03.11.2022	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बजराज सिंह नि0-ग्राम गोहरपुर सुल्तानपुर काफियाबाद मुरादाबाद।	ग्राम-गोहरपुर सुल्तानपुर मुरादाबाद के गाटा सं0-673 रकबई 4.033 है0 का भू-उपयोग महायोजना-2031 में कृषि दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग आवासीय में दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया।
301	301 / 17.10.2022	04.11.2022	श्री रामपाल सिंह पुत्र श्री हरकेश नि0-ग्राम गोहरपुर सुल्तानपुर काफियाबाद मुरादाबाद।	ग्राम-गोहरपुर सुल्तानपुर मुरादाबाद के गाटा सं0-671 रकबई 1.560 है0 का भू-उपयोग महायोजना-2031 में कृषि दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग आवासीय में दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया।
302	302 / 17.10.2022	04.11.2022	नवतप बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सन्जू सिंह मुरादाबाद। नि0-गोविन्द नगर बृजधाम कॉलोनी मुरादाबाद।	ग्राम-गोहरपुर सुल्तानपुर मुरादाबाद के गाटा सं0-660 रकबई 0.167 है0 का भू-उपयोग महायोजना-2031 में कृषि दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग आवासीय में दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया।
303	303 / 17.10.2022	04.11.2022	नवतप बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सन्जू सिंह मुरादाबाद। नि0-गोविन्द नगर बृजधाम कॉलोनी मुरादाबाद।	ग्राम-गोहरपुर सुल्तानपुर मुरादाबाद के गाटा सं0-669 रकबई 0.1090 है0 का भू-उपयोग महायोजना-2031 में कृषि दर्शाया गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग आवासीय में दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया।
304	304 / 17.10.2022	04.11.2022	इस्तिजाज हुसैन एड0 ग्राम मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर देहात, तहसील व जिला मुरादाबाद। मौ0नं0-7060060085	आवेदक द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर शिकायत की गयी है तथा वृहद रूप में सुझाव प्रस्तुत करते हुए महायोजना-2031 प्राकृप मानचित्र पर सजरा सुपरइम्पोज कराये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक के समस्त आपत्ति/सुझाव के संदर्भ हेतु आवेदक की मूल आपत्ति का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।
305	305 / 17.10.2022	04.11.2022	1-श्री शाह फेसल पुत्र इब्ने अली निवासी-गलशहीद पुराना बर्फखाना मुरादाबाद। मौ0नं0-9897039746 2-मुशाहिद अली पुत्र मोहम्मद युसूफ 3-श्रीमती महरूल निशा पत्नी मुशाहिद अली, निवासीगण-एकता विहार उत्तरी, रामपुर रोड, मुरादाबाद। 4-श्रीमती सोनीला मल्होत्रा पत्नी आशीष मल्होत्रा नि0-मकान नं0-बी-624, लाजपत नगर, शहर मुरादाबाद।	ग्राम-वीजना तह0 व जिला मुरादाबाद के गाटा सं0-613 रकबा 1.2910 है0 का भू-उपयोग कृषि दर्शाया गया है, जबकि प्रार्थी की भूमि के अधिकांश भाग में आबादी बनी हुई है। उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग कृषि की जगह व्यवसायिक में किये जाने का अनुरोध किया गया।

306	306 / 17.10.2022	04.11.2022	श्री अनंत कुमार जैन पुत्र स्व० हंस कुमार जैन निवासी-एन-11 लाजपत नगर मुरादाबाद मो०नं०-9837037543	कास रोड, माल से लेकर पी०एम०एस० स्कूल से होते हुए साईं रेजीडेन्सी तक अधिकांश क्षेत्र व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं। अतः महायोजना-2031 (प्रारूप) में इतना बड़ा व्यवसायिक क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। जिससे एम०डी०ए० को कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र को व्यवसायिक घोषित करना न्यायहित होगा तथा प्राधिकरण की आय का स्रोत बनेगा व व्यवसायिक गतिविधियों को एक नई पहचान मिलेगी। उक्त क्षेत्र का भू-उपयोग व्यवसायिक में घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया।
307	307 / 17.10.2022	04.11.2022	श्री नमन जैन पुत्र श्री अभिनन्दन कुमार जैन निवासी-एन-11 लाजपत नगर मुरादाबाद मो०नं०-9456032582	ग्राम-बागडपुर में दिल्ली से मुरादाबाद आते हुये बांये ओर की भूमि व्यवसायिक होनी चाहिए। यह भी 24 मीटर की सड़क पर है, जहां सभी प्रकार के व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं। इसी जगह के सामने की ओर की समस्त भूमि को व्यवसायिक दर्शाया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं होगा। विकास की दृष्टि से ग्राम बागडपुर के दोनों तरफ का उपयोग व्यवसायिक होना चाहिए, जिससे वहां का विकास पूर्ण रूप से हो सके और वहां के निवासियों को समान अवसर प्राप्त हो सके। अतः बागडपुर स्थित हाईवे के दोनों तरफ के क्षेत्र को व्यवसायिक क्षेत्र घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया।
308	308 / 18.10.2022	04.11.2022	हिमांशू अग्रवाल पुत्र श्री वलदेव कुमार अग्रवाल नि०-कांठ रोड हरथला मुरादाबाद।	ग्राम-मुगलपुरा अगवानपुर मुस्तहकम का गाटा सं०-2355 व 2359 की भूमि मुख्य मार्ग कांठ रोड पर स्थित है, जिसके नजदीक प्रस्तावित एन०एच०आई० का रिंग रोड निकला है, जिसका भू-उपयोग ग्रीन बैल्ट रखा गया है। मैं इस भूमि पर जल्द ही अपना होटल बनाने का प्रस्ताव देना चाहता हूँ, जो ग्रीन बैल्ट होने के कारण उपयोगी नहीं है। उक्त भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक में किये जाने का अनुरोध किया गया।
309	309 / 18.10.2022	04.11.2022	श्रीमती किरन धमीजा पत्नी श्री ब्रजभूषण धमीजा व नीरज देवी पुत्री श्री ओमपाल सिंह निवासीगण-दीनदयालनगर मुरादाबाद।	ग्राम-छावनी सिविल लाइन पुलिस स्टेशन से चक्कर बिजनौर मार्ग से पी०ए०सी० चौराहा रोड पर गाटा सं०-328 व 329 स्थित है। उक्त सम्पत्ति के सामने रोड की चौड़ाई अत्यधिक चौड़ी है। जो मार्ग के मध्य से 21.70 वर्ग मीटर की दूरी पर है। जिसके आस-पास के प्लाट परिसर/शोरूम आदि में व्यवसायिक गतिविधियां होती हैं। इसलिए उक्त भूमि का एरिया व्यवसायिक घोषित होना अति आवश्यक है। अतः गाटा नम्बरों का भू-उपयोग व्यवसायिक में किये जाने का अनुरोध किया गया।
310	310 / 18.10.2022	04.11.2022	अरोरा ऐरोमेटिक्स प्रा०लि० डायरेक्टर श्रीमती साधना नि०-ईस्ट कोटा सम्भल। मो०नं०-7017058350	ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर के गाटा सं०-1179मि०, 1180मि०, 1181 व 1182/2 प्रश्नगत भूमि के आस-पास कॉमर्शियल/कॉम्प्लेक्स शोरूम आदि संचालित है। गाटाओं का कॉमर्शियल भू-उपयोग होने से नियोजन विकास होगा। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग बाजार स्ट्रीट/कॉमर्शियल में किये जाने का अनुरोध किया गया।
311	311 / 18.10.2022	04.11.2022	वूड वर्क बिल्डकॉन प्रा०लि० नि०-आरोही प्लाजो सी०पी०-1 पत्रकार प्रेस क्रॉसिंग, गोमती नगर लखनऊ, 226010	ग्राम-मैनाटेर व चक फैजुल्लापुर में निर्मित गौशाला रोड को दर्शा दिया जाए एवं रोड से जुड़ी हुई सभी चक रोड को भी दर्शा दिया जाए ताकि भविष्य में रोड का विक्रय एवं विलय न हो जो कि भविष्य में औद्योगिक क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
312	312 / 18.10.2022	04.11.2022	मौ० जकी, आवास बन्धु।	लाकड़ी फाजलपुर मिनी बाईपास पर ग्राम-मैनाटेर के अन्तर्गत रोड के उत्तर में इन्डस्ट्रीयल एरिया मार्क किया गया है। इस क्षेत्र में इन्डस्ट्रीयल इकाइयां विद्यमान हैं। अतः रोड के उत्तर में 150.0 मीटर गहराई तक विनस इन्डस्ट्री से बस चार्जिंग स्टेशन तक महायोजना-2031 में इन्डस्ट्रीयल एरिया घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके।
313	313 / 19.10.2022	04.11.2022	श्री कैलाश कोल नि०-कैलाशी पेपर मील अगवानपुर, मुरादाबाद। मो०नं०-9412245317	ग्राम-मुगलपुरा अगवानपुर मुस्तहकम का गाटा सं०-2355.23 की भूमि मुख्य मार्ग कांठ रोड पर स्थित है, जिसके नजदीक प्रस्तावित एन०एच०आई० का रिंग रोड निकला है, प्रस्तावित महायोजना-2031 में मेरी भूमि का भू-उपयोग ग्रीन बैल्ट रखा गया है। मैं इस भूमि पर जल्द ही अपना होटल बनाने का प्रस्ताव देना चाहता हूँ, जो ग्रीन बैल्ट होने के कारण संभव नहीं है। उक्त भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक में किये जाने का अनुरोध किया गया।
314	314 / 19.10.2022	04.11.2022	श्रीमती विमला अग्रवाल नि०-मण्डी चोक, मुरादाबाद। मो०नं०-9837755590	मेरा भूखण्ड कांठ रोड पर गांधी आश्रम से पहले पेट्रोल पम्प के समीप स्थित है। पेट्रोल पम्प के समीप व मुख्य मार्ग पर होने के कारण मुझे अपने भूखण्ड को व्यवसायिक भूमि/बाजार स्ट्रीट पर बनाना अति आवश्यक है। उक्त भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट में किये जाने का अनुरोध किया गया।
315	315 / 19.10.2022	04.11.2022	श्री कुनाल मागो पता-बानो बाग, सिविल अस्पताल के पास सिविल लाइन्स, मुरादाबाद-244001 मो०नं०-9837053896	ग्राम उमरी परगना/जिला मुरादाबाद के गाटा सं०-391 रकबा 0.5470 हे०, 392 रकबा 0.0730 हे०, 393 रकबा 0.0850 हे० व 532 रकबा 0.6480 हे० के समीपवर्ती मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों द्वारा अनुमत्य किया गया है। अतः उपरोक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग व्यवसायिक में किये जाने का अनुरोध किया गया।

316	316 / 19.10.2022	04.11.2022	1-अरुण कुमार यादव पता-विला नं०-26 एलेविन आर्चिड सर्किट हाऊस के पास, मुरादाबाद। मो०नं०-9412390600 2-श्रीमति राजवाला पत्नी श्री विजयपाल सिंह पता-ग्राम रफातपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।	ग्राम मुस्तफाबाद एह० तह० व जिला मुरादाबाद के अन्तर्गत प्रार्थी की आराजी काश्त भूमिधरी बकदर 3/10 भाग मिनजुमला खसरा नं०-196/2 रकबई 0.211 हे० खसरा नं०-197 मि० रकबई 0.032 हे० के अन्तर्गत कुल आराजी 0.0729 हे० (अर्थात् 729 वर्ग मीटर) है। उक्त आराजी पर प्रार्थी अरुण कुमार यादव पुत्र श्री जगदीश सरन यादव व श्रीमति राजवाला पत्नी श्री विजयपाल सिंह मलिक व काबिज है। प्रार्थी की आराजी के चारो दिशाओं की स्थिति के निर्माण निम्नवत् है- पूर्व में वर्षा पुराना पक्का लेन्टर सहित निजी रास्ता, जिस पर लगभग 01 लाख ईटें लगी है। पश्चिम में प्लाट जिस पर वर्षा पुरानी नीचे दीवारें निर्मित है। उत्तर में लगभग 40 साल पुराना पक्का लेन्टर निर्माण है, जिस पर शैम्पू फेक्ट्री संचालित है। दक्षिण में मुरादाबाद-रामपुर डावर मार्ग है। प्रार्थी की आराजी प्लाट क्षेत्रफल 729 वर्गमीटर के चारो दिशाओं की स्थिति व निर्माण को देखते हुए ग्रीनबैल्ट दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त के दृष्टिगत प्रार्थी की भूमि को ग्रीन बैल्ट से मुक्त करते हुए आवासीय/कॉमर्शियल में किये जाने का अनुरोध किया गया।
317	317 / 19.10.2022	04.11.2022	श्री अजय कुमार नारंग, पता-सिविल लाइन मुरादाबाद। मो०नं०-9837055404	ग्राम-हरथला एहतमाली जिला मुरादाबाद के गाटा सं०-309, 280, 307, 308, 315 का भू-उपयोग महायोजना-2021-31 में आवासीय दर्शाया गया है, जबकि उक्त गाटा संख्याओं के आस-पास कॉमर्शियल भवन व दूकाने व शोरूम आदि संचालित है। उक्त के दृष्टिगत उक्त गाटा नम्बरो का भू-उपयोग बाजार-स्ट्रीट/कॉमर्शियल में किये जाने का अनुरोध किया गया।
318	318 / 19.10.2022	04.11.2022	श्री अक्षय सिंघल पुत्र श्री अशोक कुमार सिंघल नि०-सिविल लाइन्स मुरादाबाद। मो०नं०-8755033333	पीली कोठी, कांट रोड मुरादाबाद के गाटा सं०-431 के समीप सभी कॉमर्शियल भवन बने है, जिसको देखते हुए इस भूखण्ड पर हम एक बहुत अच्छा कॉमर्शियल आर्केटिक बनाना चाहते है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग कॉमर्शियल में किये जाने का अनुरोध किया गया।
319	319 / 19.10.2022	04.11.2022	श्रीमति अर्चना सक्सेना पत्नी श्री पीयूषकान्त सक्सेना नि०-कांट रोड सिविल लाइन्स मुरादाबाद। मो०नं०-9412245317	गाटा सं०-431, पीली कोठी, ग्राम छावनी, कांट रोड, मुरादाबाद पर स्थित है, जिसका रेजिडेन्शियल उपयोग किया जाना सम्भव नहीं है। महायोजना-2031 में अगर उपरोक्त गाटा मुख्य रोड पर होने के कारण यह एक कॉमर्शियल भूखण्ड का सब डिवाइजन करवाकर कॉमर्शियल बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो भविष्य में नियोजन विकास में लाभकारी सिद्ध होगा। उक्त के दृष्टिगत उपरोक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग कॉमर्शियल में किये जाने का अनुरोध किया गया।
320	320 / 19.10.2022	04.11.2022	मुरादाबाद इण्डस्ट्रीयल फेक्ट्रीज एसोशियेशन मुरादाबाद द्वारा अध्यक्ष किशन लाल कत्याल पुत्र श्री स्व० चन्द्रभाल कत्याल निवासी-सिविल लाइन्स मुरादाबाद। मो०नं०-9837691444	ग्राम-मुकरबपुर मुस्तहकम वार्ड नं०-24 थाना सिविल लाइन तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा सं०-18/2 जो कांट रोड पर स्थित है। उक्त सम्पत्ति का बाजार स्ट्रीट/व्यवसायिक भू-उपयोग होना अति आवश्यक है। क्योंकि इसके आस-पास कॉपलेक्स बने है, जो मुख्य कांट रोड पर स्थित है। जिस पर अत्यधिक शोरगुल, ध्वनि प्रदूषण आदि के कारण आवास बनाकर रहना सम्भव नहीं है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग महायोजना में बाजार स्ट्रीट/व्यवसायिक में दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया।
321	321 / 19.10.2022	04.11.2022	श्री परमजीत सिंह पुत्र स्व० श्री केशव सिंह नि०-बृजधाम कालोनी, मुरादाबाद। मो०नं०-9837083500	दिल्ली रोड व मझोली चौराहा से मण्डी समिति रोड के बायां क्षेत्र व्यवसायिक दर्शाया गया है, जबकि मौके पर घनी आबादी 8 से 10 फिट चौड़े रास्तो पर विकसित है, जबकि दिल्ली मेन रोड पर आवासीय दर्शाया गया है। उक्त के दृष्टिगत लोको पुल से मझोली चौराहे तक दिल्ली रोड के दोनों ओर व्यवसायिक दर्शाने का अनुरोध किया गया।
322	322 / 19.10.2022	04.11.2022	श्री वीरेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, राजेश कुमार, रामफूल सिंह, होराम सिंह, नि०गण -मोरा मुस्तहकम परगना व तह० व जिला मुरादाबाद। मो०नं०-8077810477	ग्राम-मोरा मुस्तहकम परगना मुरादाबाद फसली वर्ष 1427-1432 खाता संख्या 00250 खसरा गाटा सं०-465 क्षेत्रफल 0.0970 भूमि है। महायोजना-2031 में बन्हा रोड में प्रस्तावित है। हम सभी गरीब परिवार से है। हमारे पास रहने की जमीन बहुत कम है। हमारे बच्चे उक्त जमीन में घर बनाकर रहेगे। आस-पास भी मकान बनने लगे है। अतः उक्त खाता व गाटा संख्या को बन्हा रोड से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।
323	323 / 19.10.2022	04.11.2022	श्री वीरपाल सिंह पुत्र स्व० श्री मुन्शीलाल निकट-पुतलीघर गेट लाईनपार मुरादाबाद। मो०नं०-9837068795	हम लोग लाईनपार में रामलीला ग्राउण्ड के पास लगभग बीसो साल से रह रहे है जब मास्टर प्लान भी लागू नहीं हुआ था, जब से हम लोग रहते है तथा उसके चारो तरफ आवासीय पुरानी आवादी है तथा महायोजना-2031 में हमारे बीच में औद्योगिक इकाई (इन्डस्ट्रियल ऐरिया) का प्रस्ताव कर दिया है। जबकि महायोजना-2031 में शहर के आऊट साईट में औद्योगिक एरिया लगाया गया है, जो औद्योगिक एरिया महायोजना-2031 में लाईनपार लगाया है। उसके उत्तर में रास्ता दक्षिण में एकता कालौनी पूर्व में श्रीनगर कालौनी आवासीय एवं पश्चिम में सरकारी गोदाम है। उक्त के दृष्टिगत लाईनपार रामलीला ग्राउण्ड के पास औद्योगिक भू-उपयोग हटा कर, आवासीय भू-उपयोग किये जाने का अनुरोध किया गया। ताकि हम लोग प्रदूषण आदि से बच सके।
324	324 / 19.10.2022	04.11.2022	श्री सलिल अग्रवाल पुत्र एस०एस० अग्रवाल नि०-1/12 गांधीनगर, मुरादाबाद।	आवेदक द्वारा ग्राम जयन्तीपुर के अन्तर्गत व्यवसायिक उपनगर केन्द्र जो कि सामुदायिक सुविधा के साथ भूमि थी, उक्त भूमि को आवासीय में दर्शाया गया है, जिससे मेरी भूमि की किमत कम हो गयी है तथा व्यवसायिक निर्माण की योजना भी समाप्त हो गयी है, जिसका असर मेरे परीवार पर पड़ेगा, जिसे ठीक करते हुए महायोजना पूर्व की भांति महायोजना-2031 में भू-उपयोग यथावत रखा जाये।

325	325 / 19.10.2022	04.11.2022	श्री अजयपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी-लाईनपार, निकट के0जी0के0 कालेज, मुरादाबाद।	महायोजना प्रारूप 2031 तैयार किया गया है, उसमें प्राधिकरण की काशीराम नगर योजना से शाहपुर तिगरी को निर्माणाधीन बाईपास 24.00मी0 के साथ आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक छोटा सा प्लाट दर्शाया गया है। जिसमें व्यवसायिक गतिविधियाँ विकसित होने के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र में व्यवसायिक अवैध निर्माण के सम्भावना होगी, महायोजना को देखने से यह प्रतीत होता है कि मुख्यतः किसी व्यक्ति को लाभ देने के उद्देश्य से व्यवसायिक किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः व्यवसायिक समाप्त करते हुए शेष क्षेत्र के अनुसार आवासीय प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।
326	326 / 19.10.2022	04.11.2022	श्री अब्दुल सत्तार बलदियत इब्ने हसन नि0-पीर का बाजार, जयन्तीपुर, मुरादाबाद।	मुरादाबाद शहर हेतु बनाये जा रहे महायोजना 2031 मानचित्र में ग्राम गिन्नोर देह माफी एवं मनोहरपुर बाईपास की दांयी तरफ के भूमि उपयोग को बदलते हुए औद्योगिक एवं सामुदायिक किया गया है, जो इस क्षेत्र के विकास में बाधक होगा तथा इस क्षेत्र का विकास पूर्णतया जो होना चाहिए वह नहीं हो पायेगा। जिससे इस क्षेत्र के लोगों काफ़ी हानि होगी तथा वह विकास से बाधित होंगे। उपरोक्त क्षेत्र को पूर्ववत् यथावत् रखा जाये, ताकि भू-स्वामी अपनी भूमि का सही ढंग से उपयोग कर सके।
327	327 / 19.10.2022	04.11.2022	श्री विनय कुमार सिंह पुत्र श्री रवि कुमार सिंह निवासी-ए-36 रामगंगा विहार, मुरादाबाद।	हरथला एहतमाली बेब मॉल के पीछे व रामगंगा के मध्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में महायोजना प्रारूप 2031 के प्रारूप में एक पट्टीनुमा कॉमर्शियल लैंड्यूज को चिन्हित किया गया है, जो एकसाथ इतने बड़े व्यवसायिक क्षेत्र में तथा लो-लैण्ड में होना का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तथा पूर्व से अंकि कॉमर्शियल उपयोग विकसित नहीं हो पाया है तथा उसी स्थान कॉमर्शियल किया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अतः कॉमर्शियल उपयोग को अलग-अलग लोकेशन में रखा जाना जनसामान्य व उस क्षेत्र के लिए उचित होगा।
328	328 / 19.10.2022	04.11.2022	श्री वसीर अहमद पुत्र श्री रूस्तम खान, पक्का बाग, गली नं0-3 करुला, मुरादाबाद।	रेलवे लाईन से लेकर दस सराय की आबादी से लेकर करुला नाते पतली झील को समाप्त कर दिया गया है, जबकि इस क्षेत्र के घरों का एवं बरसाती पानी इसी झीलनुमा भूमि में इकट्ठा होता है और इस झील में सिंघाड़ा पैदा किया जाता है, जिसे समाप्त कर दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या हो सकेगी, जिससे वहां निवास कर रहे व्यक्तियों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। यह इस क्षेत्र की समस्त जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र हेतु झील को यथावत् महायोजना 2031 में किया जाये।
329	329 / 20.10.2022	04.11.2022	डा0 सुषमा राठी पत्नी डा0 मंजेश राठी नि0-म0सं0-डी-470 डी0एम0आर0 हॉस्टिल सिविल लाईन्स, मुरादाबाद। मो0नं0-9760533243	ग्राम-छावनी सिविल लाइन मुरादाबाद के गाटा सं0-470 में प्रार्थी की एक आवासीय सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति के आस-पास व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन काफी समय से किया जा रहा है, जिसमें एक स्कूल (पी0एम0एस0) भी है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में किये जाने का अनुरोध किया गया, जिससे रोजगार का सृजन करने में सहायता प्राप्त हो सके।
330	330 / 20.10.2022	04.11.2022	डा0 मन्जेश राठी पुत्र श्री दिलाबाग सिंह राठी नि0-म0नं0-470 डी0एम0आर0 सिविल लाईन्स, मुरादाबाद। मो0नं0-9760534534	ग्राम-छावनी अलमारुफ निकट सिविल लाईन्स, मुरादाबाद के गाटा सं0-470 रकबई 1256 वर्ग मी0 निकट पी0एम0एस0 स्कूल से रलवे कालोनी रोड पर स्थित है, जहां पर इसके सामने एक बैंकट हॉल एक एस0बी0आई0 की ब्रांच आदि व्यवसायिक/अस्पताल/सामुदायिक केन्द्र प्रयोजन के लिये सम्मिलित किया जाना अति आवश्यक है। अतः महायोजना 2031 के प्रारूप में प्रार्थी की आराजी को व्यवसायिक/अस्पताल/सामुदायिक केन्द्र आदि क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाये, जिससे प्रार्थी अपनी सम्पत्ति का सही प्रयोग कर सके।
331	331 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री सिदार्थ मेहता पुत्र नरेश मेहता नि0- गाटा सं0-470 सिविल लाईन्स, मुरादाबाद। मो0नं0-9837160664	छावनी सिविल लाइन मुरादाबाद के गाटा सं0-470 का क्षेत्र एक व्यवसायिक क्षेत्र बन गया है। यह क्षेत्र शकर के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों के निकट है और इस क्षेत्र को व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु इस भू-उपयोग को व्यवसायिक में करना शहर की आवश्यकता बन गया है। अतः उक्त गाटा संख्या का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में करने का अनुरोध किया गया।
332	332 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री दिलबाग सिंह पुत्र श्री उजाला सिंह डायरेक्ट डी0एम0आर0 हेल्थ साईंसेंज प्रा0लि0 मुरादाबाद। नि0-आर0जेड0-एफ0 -222/57 गली नं0-31 साध नगर 2 पालम कालोनी, दिल्ली-110045. मो0नं0-9411071597	छावनी सिविल लाइन मुरादाबाद के गाटा सं0-470 का क्षेत्र शहर के बीचो-बीच में आता है व इस क्षेत्र में बैंकट हॉल, कोचिंग संस्थान एवं कुछ स्कूल भी हैं। यह क्षेत्र व्यवसायिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त है, इस क्षेत्र के मकानों को व्यवसायिक उपयोग की अनुमति दिया जाना न्यायपूर्ण होगा। अतः प्रार्थी के भूखण्डों का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में करने की कृपा करें।
333	333 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री नरेश मेहता नि0-गाटा नं0-470 छावनी सिविल लाइन, मुरादाबाद। 244501. मो0नं0-9359702473	ग्राम छावनी के गाटा सं0-470 के अन्तर्गत की भूमि को जो शहर के मध्य स्थित है तथा उक्त क्षेत्र व्यवसायिक परिवर्तित हो चुका है। अतः व्यवसायिक गतिविधियां यथा बैंक इंस्टीट्यूट आदि संचालित है। उक्त भूमि को आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।
334	334 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री अमित चौधरी पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह नि0-वी-558 लाजपत नगर शहर व जिला मुरादाबाद। मो0नं0-9412243888	1-ग्राम उमरी तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा सं0-179, 187, 177, 178, 180 का संक्रमणीय भूमिघर है प्रार्थी ने उक्त भूमि अपनी अन्य कारोवारी भूमि विक्रय करके कारोबार करने हेतु क्रय कि थी, जिसको मु0वि0प्रा0 ने प्रस्तावित महायोजना-2031 में भू-उपयोग आवासीय घोषित कर दिया। 2-उक्त ग्राम के उल्लिखित गाटा संख्या को आवासीय से निकालकर औद्योगिक भूमि घोषित करने की कृपा करें। 3-उक्त गाटा संख्याओं को प्रस्तावित महायोजना-2031 में आवासीय से निकालकर औद्योगिक भूमि घोषित करने की कृपा करें

335	335/20.10.2022	04.11.2022	भूरा रसूलपुर नंगला खैम, मौ0 जमा मस्जिद पोस्ट खास थाना मुगलपुरा मुरादाबाद। मौ0नं0-7037037002	ग्राम रसूलपुर नंगला खैम व ताजपुर माफी के गाटा संख्या 33/2 व 33/1 यह क्षेत्र काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, रोड से सटे काफी मकान व अस्पताल व काफी दुकाने है, जिन लोगो की है अथवा वहां रहते है उनके नाम में नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि काफी लम्बे समय से अपना जीवन यापन कर रहे है। अतः निवेदन है कि इस क्षेत्र में जो आबादी है उसको ध्यान में रखते हुए एक सर्वे कराकर आवासयी क्षेत्र घोषित करने की कृपा करें।
336	336/20.10.2022	04.11.2022	कलुआ रसूलपुर नंगला खैम, मौ0 जमा मस्जिद पोस्ट खास थाना मुगलपुरा मुरादाबाद। मौ0नं0-9997733872	ग्राम रसूलपुर नंगला खैम व ताजपुर माफी के गाटा संख्या 33/2 व 33/1 यह क्षेत्र काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, रोड से सटे काफी मकान व अस्पताल व काफी दुकाने है, जिन लोगो की है अथवा वहां रहते है उनके नाम में नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि काफी लम्बे समय से अपना जीवन यापन कर रहे है। अतः निवेदन है कि इस क्षेत्र में जो आबादी है उसको ध्यान में रखते हुए एक सर्वे कराकर आवासयी क्षेत्र घोषित करने की कृपा करें।
337	337/20.10.2022	04.11.2022	मशकूरुद्दीन रसूलपुर नंगला खैम, मौ0 जमा मस्जिद पोस्ट खास थाना मुगलपुरा मुरादाबाद। मौ0नं0-8077903727	ग्राम रसूलपुर नंगला खैम व ताजपुर माफी के गाटा संख्या 33/2 व 33/1 यह क्षेत्र काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, रोड से सटे काफी मकान व अस्पताल व काफी दुकाने है, जिन लोगो की है अथवा वहां रहते है उनके नाम में नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि काफी लम्बे समय से अपना जीवन यापन कर रहे है। अतः निवेदन है कि इस क्षेत्र में जो आबादी है उसको ध्यान में रखते हुए एक सर्वे कराकर आवासयी क्षेत्र घोषित करने की कृपा करें।
338	338/20.10.2022	04.11.2022	उबैद उल्ला, रसूलपुर नंगला खैम, मौ0 जमा मस्जिद पोस्ट खास थाना मुगलपुरा मुरादाबाद। मौ0नं0-8445762077	ग्राम रसूलपुर नंगला खैम व ताजपुर माफी के गाटा संख्या 33/2 व 33/1 यह क्षेत्र काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, रोड से सटे काफी मकान व अस्पताल व काफी दुकाने है, जिन लोगो की है अथवा वहां रहते है उनके नाम में नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि काफी लम्बे समय से अपना जीवन यापन कर रहे है। अतः निवेदन है कि इस क्षेत्र में जो आबादी है उसको ध्यान में रखते हुए एक सर्वे कराकर आवासयी क्षेत्र घोषित करने की कृपा करें।
339	339/20.10.2022	04.11.2022	मौ0 अनीस रसूलपुर नंगला खैम, मौ0 जमा मस्जिद पोस्ट खास थाना मुगलपुरा मुरादाबाद। मौ0नं0-9532475627	ग्राम रसूलपुर नंगला खैम व ताजपुर माफी के गाटा संख्या 33/2 व 33/1 यह क्षेत्र काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, रोड से सटे काफी मकान व अस्पताल व काफी दुकाने है, जिन लोगो की है अथवा वहां रहते है उनके नाम में नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि काफी लम्बे समय से अपना जीवन यापन कर रहे है। अतः निवेदन है कि इस क्षेत्र में जो आबादी है उसको ध्यान में रखते हुए एक सर्वे कराकर आवासयी क्षेत्र घोषित करने की कृपा करें।
340	340/20.10.2022	04.11.2022	सलमान हैदर, रसूलपुर नंगला खैम, मौ0 जमा मस्जिद पोस्ट खास थाना मुगलपुरा मुरादाबाद। मौ0नं0-9368835340	ग्राम रसूलपुर नंगला खैम व ताजपुर माफी के गाटा संख्या 33/2 यह क्षेत्र काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, रोड से सटे काफी मकान व अस्पताल व काफी दुकाने है, जिन लोगो की है अथवा वहां रहते है उनके नाम में नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि काफी लम्बे समय से अपना जीवन यापन कर रहे है। अतः निवेदन है कि इस क्षेत्र में जो आबादी है उसको ध्यान में रखते हुए एक सर्वे कराकर आवासयी क्षेत्र घोषित करने की कृपा करें।
341	341/20.10.2022	04.11.2022	बाजिद हुसैन, रसूलपुर नंगला खैम, मौ0 जमा मस्जिद पोस्ट खास थाना मुगलपुरा मुरादाबाद। मौ0नं0-9368062474	ग्राम रसूलपुर नंगला खैम व ताजपुर माफी के गाटा संख्या 33/2 व 33/1 यह क्षेत्र काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, रोड से सटे काफी मकान व अस्पताल व काफी दुकाने है, जिन लोगो की है अथवा वहां रहते है उनके नाम में नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि काफी लम्बे समय से अपना जीवन यापन कर रहे है। अतः निवेदन है कि इस क्षेत्र में जो आबादी है उसको ध्यान में रखते हुए एक सर्वे कराकर आवासयी क्षेत्र घोषित करने की कृपा करें।
342	342/20.10.2022	04.11.2022	1-सोमनाथ पोपली पुत्र स्व0 श्री नरायण दास पोपली। 2-डॉ0 अजय पोपली। 3-मनीष पोपली, निवासीगण 12, नीलकण्ठ कालौनी, सिविल लाईंस, मुरादाबाद। मौ0नं0-9837000117	ग्राम मुगलपुरा उर्फ अगवानपुर मुस्तहकत एवं ग्राम काजीपुरा के गाटा संख्या-2354 रकबई 0.9830 हे0 व 2358 रकबई 0.5670 कुल 1.550 हे0 व गाटा सं0-541 रकबई 1.1610 हे0 के अंश भाग को मुख्य नगर नियोजक, मु0वि0प्रा0 द्वारा भू-उपयोग पी-3 पार्क, खुले क्षेत्र व क्रीड़ा स्थल हेतु घोषित किया गया। उक्त भूमि के समीप कॉसमास हॉस्पिटल, क्रस्ट हॉस्पिटल द्वारा इन्डस्ट्रीज, रनवीर फिलिंग स्टेशन, एपेक्स स्कूल, आइशर ट्रेक्टर का शोरूम आदि व अन्य व्यवसायिक संस्थान कार्यरत है। प्रार्थी उक्त भूमि पर अस्पताल बनाना चाहता है। यह तब सम्भव है, जब भूमि को पी-3 से मुक्त करते हुए सामान्य श्रेणी में कर दिया जाये। अतः उक्त गाटा संख्याओं का भू-उपयोग पी-3 से मुक्त करते हुए सामान्य श्रेणी में किये जाने का अनुरोध किया गया।
343	343/20.10.2022	04.11.2022	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामदीन शर्मा नि0-16/17, बट्टी स्ट्रीट, सम्मली गेट हाथी खाना, मुरादाबाद। मौ0नं0- 9837076458, 8630802512	महायोजना मार्गों को सामान्यता प्राईवेट भूमि पर अंकित कर दिया जाता है, जबकि यह चकरोडों की भूमि पर मार्ग किया जाना उचित होगा, जिससे सड़कें विकसित की जा सकेंगी। अतः मेरा सुझाव है स्थल पर उपलब्ध सड़कों को चौड़ा करत हुए महायोजना मार्ग विकसित किये जाये।
344	344/20.10.2022	04.11.2022	श्री ऐजाज नवी पुत्र श्री फैज नवी निवासी-मुफ्ती टोला, मुरादाबाद। मौ0नं0-9897049015	ग्राम-भैसिया के रकबे में खसरा नं0-733 है, जिसके बारे में मुझे पता चला कि मेरी जमीन को 2031 के नक्शे में ग्रीन बेल्ट घोषित करने की तैयारी है, जबकि मेरी जमीन खेती में दर्ज है। मेरा प्रस्ताव है कि रामपुर रोड स्थित गांव भैसिया रकबे को मिनी इण्डस्ट्रीज एरिया घोषित किया जाये क्योंकि वर्तमान में वहां पर काफी सारी फैक्ट्रीयां निर्यात फर्म चल रही है, रामपुर रोड पर हवाई अड्डा ब न बनकर तैयार है और भैसिया की सड़क सम्पर्क भी काफी अच्छा है अगर भैसिया को इण्डस्ट्रीज एरिया घोषित होता है तो विदेशी वायर को भी शहर के भीड़ वाले इलाके से मुक्ति मिलेगी। अतः उक्त खसरा नं0-733 के साथ-साथ मेरे प्रस्ताव पर भी संज्ञान ले अन्यथा प्रार्थी मजबूर होकर मा0 न्यायालय की शरण में जाकर इस नक्शे के खिलाफ कार्यवाही के लिए बाध्य होगा।

345	345 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी-कुमार कुंज निकट गुलजारी मल की धर्मशाला, मुरादाबाद। मो0नं0-9837024019	ग्राम-भैसिया के रकबे में खसरा नं0-733 है, जिसके बारे में मुझे पता चला कि मेरी जमीन को 2031 के नक्शे में ग्रीन बैल्ट घोषित करने की तैयारी है, जबकि मेरी जमीन खेती में दर्ज है। मेरा प्रस्ताव है कि रामपुर रोड स्थित गांव भैसिया रकबे को मिनी इण्डस्ट्रीज एरिया घोषित किया जाये क्योंकि वर्तमान में वहां पर काफी सारी फैक्ट्रीयां निर्यात फर्म चल रही है, रामपुर रोड पर हवाई अड्डा भ बनकर तैयार है और भैसिया की सड़क सम्यक भी काफकी अच्छा है अगर भैसिया को इण्डस्ट्रीज एरिया घोषित होता है तो विदेशी वायर को भी शहर के भीड़ वाले इलाके से मुक्ति मिलेगी। अतः उक्त खसरा नं0-733 के साथ-साथ मेरे प्रस्ताव पर भी संज्ञान ले अन्यथा प्रार्थी मजबूर होकर मा0 न्यायालय की शरण में जाकर इस नक्शे के खिलाफ कार्यवाही के लिए बाध्य होगा।
346	346 / 20.10.2022	04.11.2022	मोहम्मद नोमान मंसूरी, हैण्डीक्राफ्ट डेवलपमेन्ट सोसाइटी नि0-एफ-16 / 176, ऑप अंसार इण्टर कॉलेज, प्रिन्स रोड, मुरादाबाद। मो0नं0-9219596989	महायोजना 2031 के सम्बन्ध में जामा मस्जिद राम गंगा ब्रिज से लेकर काशीपुर तिराहेक तक ताजपुर माफी रसूलपुर नगली आदि कई गांव है, जिसके अंदर आबादी हो रही है इसमें आर्टिजंस ने छोटे-छोटे प्लाट लेकर अपनी कार्यशाला एवं घर बना रहे है। यहां सरकारी रोड है। मुरादाबाद में लगभग 1500 निर्यातक है उसी के साथ लाखों कारीगर आर्टिजंस इस कार्य में जुटे हुए है। मुरादाबाद में तकरीबन 8000 करोड़ रूपए का प्रतिवर्ष टर्नओवर है मगर इस शहर की बदनसीबी है, अभी तक कोई आर्टिजंस के लिए कोई एरिया आईडेंटिफाई नहीं किया गया है। कहां पर वह अपना कार्यशाला लगाएँ जहां उन्हें एक ही जगह रहते हुए प्रदूषण विभाग फायर डिपार्टमेंट अन्य विभागों की एनओसी प्राप्त हो सके पूर्व में नगर निगम द्वारा 500 बीगा। जमीन आर्टिजंस पार्क के लिए दी थी। आज की स्थिति में जब कोई विदेशी ग्राहक हमारे उत्पाद बनते हुए देखना चाहता है तो वहीं सक्रिय गलियों में आकर उनकी स्थिति की वजह से बायर यहां काम करने का तैयार नहीं होते है। ऐसी स्थिति में वह आर्डर दूसरी कंट्रीयों को दे दिये जाते है। कई वर्षों से देखने में यह आ रहा है मुरादाबाद केवल कांठ रोड और दिल्ली रोड की ओर विकसित हो रहा है, जबकि हमारे पास बहुत बड़ा लैण्ड बैंक रामपुर रोड काशीपुर रोड पर मौजूद है इस तरफ कुछ योजनाएं लानी चाहिए जिससे कि शहर का विकास चौतरफा हो सके।
347	347 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री अमर सिंह वर्मा, एडवोकेट आदि समस्त अधिवक्तागण जनपद मुरादाबाद।	1-दिल्ली रोड मुरादाबाद ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर पर एक तरफ व्यवसायिक शोरूम लाईन से बने हुए है, जिन्हे महायोजना-2031 में औद्योगिक लैंडयूज में दिखाया है, जबकि महायोजना-2031 के प्लान में दर्शाए गये मानचित्र में वर्तमान लैंड यूज की ग्राम लाकड़ी फाजलपुर दिल्ली रोड मुरादाबाद के इस हिस्से को कॉमर्शियल यूज दर्शाया है, जो कि स्पष्ट नहीं है। 2-सिटी में औद्योगिक एरिया नहीं होता है, सिटी के बाहर पांच बीघा या इससे अधिक लैण्ड होने पर ही इंडस्ट्री लगती है, लेकिन यहां पर लैण्ड कास्ट अधिक होने की वजस से इण्डस्ट्री नहीं बन सकती। 3-जब यह 2001 में सिटी का पार्ट नहीं था तब यह इण्डस्ट्री घोषित की थी यह तभी से चला आ रहा है। दिल्ली रोड पर व्यवसायिक गतिविधि के लिए कौन सी जगह श्रीमान जी द्वारा चिन्हित की गई है या नहीं। 4-वर्ष 2011 से 2021 तक कौन से नक्शे पास किए है या नहीं किए है यदि नहीं किए है तो इसका मतलब आप जानबूझकर व्यवसायियों को प्रताड़ित करने की वजह से आपने इण्डस्ट्रीयल एरिया कर रखा है, जबकि व्यवसायिक एरिया होना चाहिए। 5-सिटी को स्मार्ट बनाने की ओर अग्रसर है लेकिन सिटी को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ व्यवसाय का ध्यान भी रखा जाना चाहिए ताकि व्यवसायियों को कोई परेशानी न हो। अतः अनुरोध है कि दिल्ली रोड मुरादाबाद पर स्थित व्यवसायिक गतिविधियां होने की पूर्ण सम्भावना है को कॉमर्शियल लैण्ड यूज जनहित में घोषित की जावे जिससे जनहित को भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
348	348 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री रोहित अरोड़ा नि0-कांठ रोड, प्रेम नगर तह0 व जिला मुरादाबाद। मो0नं0-8630195058	महायोजना-2031 के प्रारूप में नदी के पार के एरिये का कोई भू-उपयोग नहीं दिखाया गया है नदी पार स्थित मोरा एहतमाली में नदी पार स्थित सर्विस इंडस्ट्रीयल एफ-3 भू-उपयोग में दर्शित किया गया है। जो भू-उपयोग मुकर्रवपुर त्रिलोकपुर एरिये का होना आवश्यक है अन्यथा इसका भी भू-उपयोग कृषि दिखाया जाये यह ही नियोजन में विकास कारी होगा।
349	349 / 20.10.2022	04.11.2022	मौ0 इरफान नि0-पंडित नंगला तह0 व जिला मुरादाबाद। मो0नं0-8630195058	प्रस्तावित, भाविक महायोजना-2021-2031 में ग्राम पंडित नंगला गांगन फलाई ओवर के पास किया गया ग्रीन बैल्ट को इंडस्ट्रीयल भू-उपयोग के, जो लगी हुई इंडस्ट्रियल जो पूर्व के मास्टर प्लान में ग्रीन बैल्ट में बनी थी, वर्तमान मास्टर प्लान में इसका भू-उपयोग औद्योगिक किया गया है, जो जनहित में सही नहीं है क्योंकि वहां पर वर्तमान समय में इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जिससे अवैध बिल्डिंग या इन भू-उपयोग मे बढ़ावा मिलेगा। उक्त वर्णित ग्रीन बैल्ट की भूमि पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर उक्त भूमि को ग्रीन बैल्ट भू-उपयोग करना उचित होगा।
350	350 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री अजीत चौहान ग्राम- मगलपुर तह0 व जिला मुरादाबाद। मो0नं0-8630195058	प्रस्तावित, भाविक महायोजना-2021-2031 में ग्राम पंडित नंगला गांगन फलाई ओवर के पास किया गया ग्रीन बैल्ट को खत्म किया गया है वहां वातावरण खेती की दृष्टि से सही नहीं है। जहां पर हम लोगो द्वारा खेती, कृषि की जाती है गांगन नदी से लगे एरियें को ग्रीन बैल्ट में रहना सही है। उक्त वर्णित ग्रीन बैल्ट की भूमि पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर उक्त भूमि को ग्रीन बैल्ट भू-उपयोग करना उचित होगा।

351	351 / 20.10.2022	04.11.2022	डा0 अनुराग मेहरोत्रा। मौ0नं0-9412235166	1-ग्राम-शाहपुर तिगरी का खसरा संख्या-369/3 अ.व तथा 369/1 अ.व है तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के 120 फिट चौड़ा महायोजना मार्ग पर स्थित है। यह काशीराम नगर योजना में स्थित व्यवसायिक भूखण्डों के सामने है। 2-पूर्व में उक्त भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक करने की प्रार्थना की गई थी तथा विचार उपरान्त इस पर सहमति भी बन गई थी। आपसे पुनः प्रार्थना है कि उक्त भूमि का उपयोग प्रस्तावित महानगर योजना 2031 व्यवसायिक श्रेणी में ही रखा जाये। 3-आपकी साकारात्मक कार्यवाही की सादर प्रार्थना है।
352	352 / 20.10.2022	04.11.2022	मौ0 अब्दुल्लाह पुत्र मौ0 शाहिद, ग्राम पण्डित नंगला, मुरादाबाद। मौ0नं0-9837076458	1-ग्राम पंडित नंगला, मुरादाबाद सम्मल रोड परगना व जिला मुरादाबाद के खासरा नं0-236/1 मि0 रकबा 1509.61 वर्ग मी0 के हम भू-स्वामी है। 2-प्रश्नगत भूमि मुख्य मुरादाबाद सम्मल मार्ग से कुछ हटकर पुरानी सम्मल रोड पर स्थित है जो कि मु0वि0प्रा0 की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के सामने की ओर है। 3-उपरोक्त भूमि का भू-उपयोग महायोजना-2031 के प्रारूप में हरित पट्टी दर्शाया गया है।
353	353 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री अजय कुमार अग्रवाल, शैलेन्द्र अग्रवाल, संजय अग्रवाल पता-सिविल लाइन्स मुरादाबाद। मौ0नं0-9837046955	ग्राम-मुगलपुर उर्फ अगवानपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद की भूमि को मास्टर प्लान 2031 प्रारूप में इण्डस्ट्रीयल भू-उपयोग प्रदर्शित किया गया है, जिसमें सम्बन्धित रोड को मास्टर प्लान में दर्शाना अति आवश्यक है। मास्टर प्लान में रोड के लिए जो भी भूमि का अधिग्रहण होगा वह मेरे द्वारा किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त किए बिना छोड़ दी जाएगी। उपरोक्त को देखते हुए गम्भीरता से विचार करें और मास्टर प्लान में रोड दर्शाने का कष्ट करें।
354	354 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री विनोद चौधरी नि0-मुगलपुर उर्फ अगवानपुर मुरादाबाद। मौ0नं0-9837561298	ग्राम-मुगलपुर उर्फ अगवानपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद की भूमि को मास्टर प्लान 2031 प्रारूप में काबड़ पथ के समीप भूमि को व्यवसायिक भू-उपयोग में दर्शित किया गया है, जिसको निजी लाभ लेने के कारण वहां पर व्यवसायिक भूमि पर बने भवन को अवैध निर्माण के सम्बन्ध में सील किया हुआ है, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। अतः काबड़ पथ के समीप भूमि पर गम्भीरता से विचार कर मास्टर प्लान में व्यवसायिक भूमि को उचित स्थान पर दर्ज करने की कृपा करें।
355	355 / 20.10.2022	04.11.2022	अदनान अकबर कयूम बहैसियत पार्टनर अकबर ब्रास प्रोडक्ट।	आवेदनकर्ता ग्राम बागड़पुर के गाटा सं0-312, 319 व 321 तथा ग्राम समाथल के गाटा सं0-51, 52, 53, 59, 61, 65 व 68 का भूमिधर है, जो 30 वर्षों से अपनी भूमि पर काबिज है। महायोजना-2021 में प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग गलत तरीके से दर्शाया गया था, महायोजना-2031 प्रारूप में जो भू-उपयोग दर्शाया है। प्रार्थी उसी के अनुरूप विकास कार्य करना चाहता है कुछ भू-माफिया षडयंत्र के तहत हमारी स्वामित्व की भूमि पर आपत्तियां प्रस्तुत की गयी है। कुछ आसमाजिक तत्व जिनका कोई हित प्रश्नगत भूमि में नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि में सहखातेदार भी नहीं है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि हमारी जमीन पर बिना स्वामित्व के एवं षडयंत्र के तहत हमें परेशान करने एवं नगर के विकास में बाधा डालने की कुमंशा से लगायी गयी आपत्तियों पर विचार न किया जाये एवं प्रार्थी द्वारा दी गई उक्त आपत्ति को ध्यानपूर्वक सुना जावे एवं उक्त भूमि का भू-उपयोग महायोजना-2031 प्रारूप में जैसा है वैसा ही रखा जाए, ताकि हमारे द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर नियमानुसार एम0डी0ए0 से नक्शा पास कराकर नियोजित रूप से व्यवसायिक एवं आवासीय विकास कार्य कराया जा सके।
356	356 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री पराग अग्रवाल।	ग्राम-मोरा मुस्तकम के अन्तर्गत निम्न सुझाव है:- 1-प्रस्तावित बांध नदी के किनारे होना चाहिए न कि मौजूदा पी0डब्लूडी0 सड़क के किनारे क्योंकि नदी और बांध के बीच ग्रीन भूमि छोड़ी जाती है तो बहुत सारे अवैध स्लम विकास सामने आएंगे, जैसा कि हमने अतीत में पुराने शहर नदी के किनारे देखा है। 2-इस भूमि के भू-उपयोग को आवासीय बनाने के लिए, जिम कॉर्बेट के अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल और उत्तराखंड (नैनीताल/हल्द्वानी) आदि के अन्य हिल स्टेशनों के प्रवेश मार्ग के साथ झुग्गी विकास से बचने के लिए। 3-भूमि उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करके हम न केवल नदी के किनारे नियोजित आवासीय नदी दृश्य विकास को बढ़ावा देते हैं, बल्कि उत्तराखंड से मुरादाबाद एल0आई0पी0 में प्रवेश करने वाली सड़क के साथ एक सुंदर फ्रंटेंज भी पेश करते हैं। 4-भूमि शहर के नजदीक है, इसलिए बाजार का दबाव इन जमीनों को झुग्गी-झोपड़ी के विकास में डाल देता है, अगर इसे एमडीए के माध्यम से ठीक से डिजाइन और अनुमोदित नहीं किया जाता है, और यह केवल तभी किया जा सकता है जब भूमि उपयोग आवासीय या वाणिज्यिक हो। 5-सिंचाई और बाढ़ खंड के अनुसार बांध का संरक्षण केवल उस पुल तक है, जिसके आगे बांध को नदी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। 6-शहरी भूमि उपयोग नदी के किनारे नदी केंद्रित विकास के लिए यूपी सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बांध के तुरंत बाद रखा जाना चाहिए।

357	357 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री पराग अग्रवाल।	महायोजना-2031 में ग्राम बागड़पुर दिल्ली राजमार्ग की भूमि निम्नलिखित कारणों से औद्योगिक होनी चाहिए- 1-प्राधिकरण सीमा के तहत अंतिम गांव है, अधिकांश कारखाने लोधीपुर के निकटवर्ती गांव में इसलिए आए हैं क्योंकि यह शहर के सबसे नजदीक प्राधिकरण सीमा से बाहर का पहला गांव है। 2-यह न केवल विकास और बाजार के दबाव को नियंत्रित करेगा बल्कि विकास शुल्क के माध्यम से सरकार के लिए राजस्व भी उत्पन्न करेगा। 3-उक्त औद्योगिक भू-उपयोग को समर्थन देने के लिए 24 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान सड़क का प्रस्ताव किया गया है। 4-शहर के दिल्ली जाने के लिए प्रमुख उद्योग राजमार्ग के बाईं ओर आ रहे हैं, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया बाईं ओर औद्योगिक भूमि उपयोग और राजमार्ग के दांयी ओर प्रस्तावित वाणिज्यिक घोषित करें। इससे औद्योगिक विकास के प्रवाह में वृद्धि होगी।
358	358 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री निखिल रस्तोगी, टी0डी0 आई सिटी, रामगंगा विहार मुरादाबाद। मो0नं0-999773999	महायोजना-2031 प्रारूप में जैसा की रामपुर रोड से काशीपुर रोड सेतु तक तटबन्ध दिखाया गया है, उसी के अनुरूप इससे आगे भी इसे नदी के बहाव के साथ ग्राम मोरा में भी नदी के साथ ही रखना उचित होगा। इससे एक तरफ तो यहां पर अवैध कब्जों से छुटकारा मिलेगा वहीं दूसरी तरफ सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा और विकास प्राधिकरण को राजस्व की प्राप्ति होगी।
359	359 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री फेसल अब्बास नि0-177 / 3, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद। मो0नं0-9528030567	ग्राम-मोरा मुस्तहम में नदी के बराबर ग्रीन बैल्ट को हटाकर किसी अन्य भू-उपयोग में कर दिया जाए। क्योंकि इससे सिर्फ शहर में अवैध कब्जों को वृद्धि मिलती है जैसा की पुराने शहर (जामा मस्जिद से राम गंगा विहार तक) में देखा जा चुका है। इससे एक तरफ तो यहां पर अवैध कब्जों से छुटकारा मिलेगा वहीं दूसरी तरफ सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा और विकास प्राधिकरण को विकास शुल्क के रूप में राजस्व की भी प्राप्ति होगी।
360	360 / 20.10.2022	04.11.2022	श्री मनोज कुमार गुप्ता, नि0-गोविन्द नगर, मुरादाबाद। मो0नं0-9654959521	मास्टर प्लान 2031 ड्राफ्ट में ग्राम रफतपुर एवं कल्यानपुर एतमाली के कई हिस्सों में तालाब एवं बाग दर्शाया गया है। हालांकि राजस्व विभाग के अभिलेखों में इसका कोई जिक्र नहीं आता और ऐसे में जहां कि मुरादाबाद शहर में सभी निर्यातक एवं उद्योगों को शहर से बाहर निकल मानक के अनुरूप फैंक्ट्री बनाने हेतु जमीनों की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि बाईं पास पर दिल्ली से रामपुर जाते समय राम गंगा नदी से लेकर रामपुर रोड तक ग्रीन बैल्ट हटाकर उपरोक्त भू-उपयोग को औद्योगिक करने की कृपा करें।
361	361 / 20.10.2022	05.11.2022	डिजाइन आरकेडस, नि0-हॉल नं0-6ए, फस्ट फ्लोर, एकता कॉम्प्लेक्स, कम्पनी बाग, सिविल लाइन्स मुरादाबाद। मो0नं0-9837066173	आवेदक द्वारा दिल्ली रोड पर चौ0 चरन सिंह चौक से लेकर गांगन नदी तक लाकड़ी फाजलपुर का भू-उपयोग औद्योगिक दर्शाया गया है, उसमें बहुत भाग विद्युत उपकेन्द्र भी दर्शाया गया है। उक्त रोड पुराने मास्टर प्लान के 150 फुट चौड़ी दर्शाया गयी है, औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि चल रही है। जैसे कुछ बाईंग ऐजेन्ट के आफिस कारों के शोरूम, कारों के आन्तरिक सज्जा व स्पेयर पार्ट्स के शोरूम व दुकाने पूर्व से निर्मित व संचालित है। आने वाले समय में भी व्यवसायिक गतिविधियां अपेक्षित है। अतः 100 मीटर गहराई तक व्यवसायिक भू-उपयोग किया जाये, जिससे औद्योगिक गतिविधियों से सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधि जैसे, बैंक, होटल, रेस्टोरेन्ट, पेट्रोल पम्प इत्यादि नियमित हो सके। शेष भू-उपयोग औद्योगिक रहने दिया जाये।
362	362 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री प्रमोद गुप्ता पुत्र श्री मंगलराम गुप्ता निवासी-चौमुख पुल कालेज, मुरादाबाद।	आवेदक द्वारा ग्राम पंडित नंगला के रकबे में साहिबाबाद जाकारिया औद्योगिक फर्म अवैध रूप से ग्रीन बैल्ट में निर्मित है। फर्म गांगन नदी के बिल्कुल समीप है। इस फर्म पर प्राधिकरण द्वारा कई बार कार्यवाही की गई है फिर भी मिली भगत से चालू हो जाती है। फर्म से इस क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों पर बुरा असर पड़ता है, पर्यावरण प्रभावित होता है। इसलिए महायोजना प्रारूप में इसे गलत तरीके से औद्योगिक दिखाया गया है, इसे ग्रीन ही रखा जाए।
363	363 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री सुन्दर लाल धमीजा पुत्र श्री गुलशन धमीजा निवासी-ग्राम भदौरा, मुरादाबाद।	महायोजना-2021 में जो सामुदायिक सुविधा क्षेत्र रखा गया था, उसे बदल दिया गया, यह घोर अनिमितता है, इससे इस क्षेत्र के निवासियों को सामुदायिक सुविधाओं हेतु कोई क्षेत्र नहीं मिल पायेगा। क्षेत्र के निवासियों को काफी कठिनायी का सामना करना पड़ेगा लोको को शादी व्याह हेतु काफी दूर जाना पड़ेगा। अतः उक्त भूमि का भू-उपयोग पूर्व की भांति रहने दिया जाए।
364	364 / 20.10.2022	05.11.2022	मेस0 होराईजन कंसट्रक्शंस, बालाजी बिल्डर्स सिविल लाईन्स मुरादाबाद।	पीली कोठी स्थित भूखंड जहां से प्रारम्भ होता है, उसके दोनों तरफ व्यवसायिक शोरूम खुल रहे हैं उपरोक्त स्थल जो पूर्णतः व्यवसायिक है पर स्ट्रीट बाजार प्रस्तावित किया जा रहा है, जो अवैध निर्माण को प्रोत्साहित करेगा जबकि व्यवसायिक घोषित होने पर प्राधिकरण को अधिक राजस्व प्राप्त होगा, तथा सुनियोजित विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। विचार हेतु अनुरोध किया गया है।
365	365 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री अजय अग्रवाल, नि0-आवास विकास, सिविल लाइन्स मुरादाबाद। मो0नं0-9412240093	पूर्व महायोजना में यह क्षेत्र बाहर मानते हुए औद्योगिक भू-उपयोग दर्शाया गया था किन्तु वर्तमान में यह क्षेत्र मुरादाबाद नगर व नया मुरादाबाद के प्रवेश करते ही मध्य आता है इस भूमि का भू-उपयोग भू-धारको के हित को दृष्टिगत रखते हुए व्यवसायिक में किया जाना चाहिए। जिससे क्षेत्र विकसित हो और शहर का व्यवसायिक सून्दर केन्द्र बन सके।
366	366 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री सुनील कुमार अग्रवाल निवासी-जवाहर बाग, मुरादाबाद। मो0नं0-9837288506	उमरी तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा सं0-318, 319 का रकबा 0.8000 हे0 महायोजना-2031 में आवासीय प्रयोजन के लिए सम्मिलित किया गया है, जबकि उसके सामने तथा बराबर में औद्योगिक प्रयोजन के लिए घोषित किया गया है और औद्योगिक गतिविधियां संचालित है। अतः उक्त गाटा नम्बरो का भू-उपयोग औद्योगिक में किये जाने का अनुरोध किया गया।
367	367 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री जिले सिंह, ग्राम लाकड़ी फाजलपुर, तह0 व जिला मुरादाबाद। मो0नं0-9412134568	ग्राम फाजलपुर में अधिकांश भाग का भू-उपयोग औद्योगिक है जो कि पिछले तीनों मास्टर प्लान में जस का तस है। ग्राम में स्थित ग्रामीण आबादी क्षेत्र भी पिछले प्लानों की तरह वैसा ही दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक स्थिति काफी भिन्न है। कृपया सेटलाईट अवेसिंग द्वारा प्रदर्शित आबादी को भौतिक स्थिति मास्टर प्लान में स्पष्ट हो सके और ग्रामीणों द्वारा भी नक्शा पास कराया जा सके।

368	368 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री आश मौहम्मद एडवोकेट, चौ0नं0 30 नियर बार एसोसियेशन एण्ड लाइब्रेरी, मुरादाबाद। मो0नं0-9837682126	जीरो प्वाइन्ट होली है रेजेन्सी से रामपुर की तरफ वाईपास पर दो पेट्रोल पम्प बने हुये है जो कि मास्टर प्लान 2031 में कहीं पर भी नहीं दर्शाया गया है तथा पेट्रोल पम्प के सामने एक गुरुद्वारा बना हुआ है। उससे भी मास्टर प्लान 2031 में ग्रीनबैल्ट में दर्शाया गया है तथा गुरुद्वारे के पास को हाईवे से सटी भूमि को ग्रीनबैल्ट में करा दिया गया है। जो कि गलत है, जिससे वहां पर अनोथराइज निर्माण की सम्भावना है कम से कम हाईवे से लगी 50 मीटर अन्दर की भूमि कॉमर्शियल दिखलायी जानी चाहिए।
369	369 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री संजीव गुप्ता, गौरव गुप्ता, पुत्रगण स्व0 जगदीश सरन गुप्ता निवासी-अगवानपुर मुरादाबाद एवं क्षेत्रवासी। मो0नं0-9412247364	कांठ रोड अगवानपुर स्थित ओवरब्रिज से लेकर शेरुआ चोराहे तक की भूमि को 2021 के मास्टर प्लान में वृहतउद्योग के लिए आरक्षित कर दी गयी थी, जबकि उक्त क्षेत्र में काफी आवादी पहले ही हो चुकी थी। जो बढ़कर काफी अधिक आबादी हो गयी है। उक्त क्षेत्र मुरादाबाद के प्रवेश में हैं जो स्वागत द्वार के रूप में विकसित हो सकता है, क्षेत्र में पीछे की तरफ कांवर पथ पर आवासीय कालोनिया विकसित हो गई है, जबकि क्षेत्र में कांठ रोड पर स्थित है। इस कारण उक्त भूमि का भू-उपयोग आवासीय किया जाना अति आवश्यक है। जिससे क्षेत्र का तीव्र गति से सुनियोजि विकास हो सकेगा। अतः कांठ रोड अगवानपुर की भूमि को वृहतउद्योग से हटाकर आवासीय करने की कृपा करें।
370	370 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री राजीव कुमार गुप्ता (पूर्व प्रधान पति) चौधरी वीरेन्द्र सिंह, निवासी अगवानपुर मुरादाबाद एवं क्षेत्रवासी। मो0नं0-9997725608	कांठ रोड अगवानपुर स्थित ओवरब्रिज से लेकर शेरुआ चोराहे तक की भूमि को 2021 के मास्टर प्लान में वृहतउद्योग के लिए आरक्षित कर दी गयी थी, जबकि उक्त क्षेत्र में काफी आवादी पहले ही हो चुकी थी। जो बढ़कर काफी अधिक आबादी हो गयी है। उक्त क्षेत्र मुरादाबाद के प्रवेश में हैं जो स्वागत द्वार के रूप में विकसित हो सकता है, क्षेत्र में पीछे की तरफ कांवर पथ पर आवासीय कालोनिया विकसित हो गई है, जबकि क्षेत्र में कांठ रोड पर स्थित है। इस कारण उक्त भूमि का भू-उपयोग आवासीय किया जाना अति आवश्यक है। जिससे क्षेत्र का तीव्र गति से सुनियोजि विकास हो सकेगा। अतः कांठ रोड अगवानपुर की भूमि को वृहतउद्योग से हटाकर आवासीय करने की कृपा करें।
371	371 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री संजीव गुप्ता, गौरव गुप्ता, पुत्रगण स्व0 जगदीश सरन गुप्ता निवासी-अगवानपुर मुरादाबाद एवं क्षेत्रवासी। मो0नं0-9412247364	कांठ रोड अगवानपुर स्थित ओवरब्रिज से लेकर शेरुआ चोराहे तक की भूमि को 2021 के मास्टर प्लान में वृहतउद्योग के लिए आरक्षित कर दी गयी थी, जबकि उक्त क्षेत्र में काफी आवादी पहले ही हो चुकी थी। जो बढ़कर काफी अधिक आबादी हो गयी है। उक्त क्षेत्र मुरादाबाद के प्रवेश में हैं जो स्वागत द्वार के रूप में विकसित हो सकता है, क्षेत्र में पीछे की तरफ कांवर पथ पर आवासीय कालोनिया विकसित हो गई है, जबकि क्षेत्र में कांठ रोड पर स्थित है। इस कारण उक्त भूमि का भू-उपयोग आवासीय किया जाना अति आवश्यक है। जिससे क्षेत्र का तीव्र गति से सुनियोजि विकास हो सकेगा। अतः कांठ रोड अगवानपुर की भूमि को वृहतउद्योग से हटाकर आवासीय करने की कृपा करें।
372	372 / 20.10.2022	05.11.2022	मौहम्मद शुऐब पुत्र हाजी इन्तजार हुसैन निवासी बी-59 जिगर कालौनी मुरादाबाद। मो0नं0-9897030848	ग्राम मऊ तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-459 के आस-पास जो एक विकसित बना हुआ है यह मास्टर प्लान में कुछ ऐरिया औद्योगिक भी घोषित किया जा चुका है लेकिन जो ऐरिया औद्योगिक किया गया है उससे अधिक फेक्ट्रीयां इस क्षेत्र में लगी हुई हैं। मास्टर प्लान में अगर औद्योगिक का क्षेत्र डबक कर दिया जाये तो वहां पर ओर भी औद्योगिक इकाई विकसित हो सकेगी तथा जो इकाई आवासीय या अन्य लैण्डयुज पर बनी हुई वो भी अपना नक्शा औद्योगिक क्षेत्र पास करा लेगी और जिससे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को भी काफी आय प्राप्त होगी। अतः उक्त क्षेत्र का सर्वे कराकर जिस क्षेत्र में व्यवसायिक व औद्योगिक गतिविधियां हो रही है उन्होने उनके लैण्डयुज के अनुसार मास्टर प्लान 2031 में दर्शाये जाने की कृपा करें।
373	373 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री सिराज अहमद, एडवोकेट, चौ0नं0- जिला जज कोर्ट के सामने, मुरादाबाद। मो0नं0-9634254567	एम0आई0टी इन्स्टीट्यूट के पास जो कॉमर्शियल लैण्डयूज दर्शाये उसका वहां पर कोई औचित्य नहीं है वहां पर पहले आवास बने हुये थे इसलिये वहां पर कॉमर्शियल एकटीविटी होना सम्भव नहीं है इसलिये वहां के लैण्ड को गोल्ड जिम के सामने में शिफ्ट करने से ज्यादा अच्छा रहेगा और एक व्यवस्थित बाजार स्थापित हो सकेगा तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अधिक राजस्व प्राप्त तथा मुरादाबाद स्मार्ट की खूबसुरती में चार चांद लगेगें।
374	374 / 20.10.2022	05.11.2022	अध्यक्ष अशोक सिंह, मुरादाबाद आर्टिजेन्स, एसोसिएशन।	1-ग्राम मैनाठेर में लाकड़ी बाईपास के बाई तरफ काफी औद्योगिक इकाईयां लगभग 15 से 20 वर्षों से चल रहीं है जबकि मास्टर प्लान 2031 प्रारूप में यहां पर आवासीय लैण्डयूज दिया गया है जिसे संशोधित कर औद्योगिक किया जाना अतिआवश्यक है। 2-ग्राम भैंसिया में मैन रामपुर रोड से सटती हुई काफी औद्योगिक इकाईयां लगभग 15 से 20 वर्षों से चल रहीं है जबकि मास्टर प्लान 2031 प्रारूप में यहां पर आवासीय लैण्डयूज दिया गया है जिसे संशोधित कर औद्योगिक किया जाना अतिआवश्यक है। 3-दिल्ली-लखनऊ बाईपास पर ग्राम उमरी व कल्याणपुर एहतमाली गांवों में कई निर्यातकों ने शोरूम बनाने के लिए लैण्ड ली हुई है व और लैण्ड लेना चाहते हैं परन्तु इन ग्रामों में मास्टर प्लान में मैन बाईपास रोड पर क्रमशः आवासीय एवं कन्प्यूनिटी फॅसिलिटीज लैण्डयूज दिया हुआ है, जिसे परिवर्तित कर औद्योगिक/कॉमर्शियल किया जाना अतिआवश्यक है। 4-गांगन नदी के दोनों तरफ बन्धा मार्ग दर्शाया जाये व उसके बाद आवश्यक लैण्डयूज लगाए जाये गांगन नदी के दोनों तरफ बन्धा मार्ग बनने से यातायात में सुगमता पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त रहेगा व शेष बची भूमि का लैण्डयूज होने से विकास सम्भव हो सकेगा। 5-मुरादाबाद शहर का एस0ई0जेड0 से रोड के माध्यम से जोड़ते हुए औद्योगिक लैण्डयूज को एस0ई0जेड0 तक प्रस्तावित किया जाये ताकि शहर के निर्यातक एवं आर्टिजेन्स वहां सुनियोजित तरीके से नक्शे पास कराकर अपनी औद्योगिक इकाईयों को सफलता पूर्वक स्थापित कर सके। 6-प्रस्तावित किये गये लैण्डयूजों में चक्रमार्गों को मास्टर प्लान रोड बनाया जाये। 7-कुछ लोग ड्राप्ट के लैण्ड यूज को बदलवाने में लगे हुए हैं परन्तु बिना प्रदर्शनी लगाए ड्राप्ट में लैण्ड यूज ना बदले जाएं।

375	375 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री राजीव गुप्ता, सिविल लाइन, मुरादाबाद।	ग्राम चक फैजुल्लापुर में सहारा की आवासीय भूमि जो खाली पड़ी है को इंडस्ट्रियल कर दिया गया है, जबकि यहां पर लोगो ने आवासीय प्लॉट ले रखे है ऐसे में उनके द्वारा लिए गये आवासीय प्लॉट बेकार हो जाएंगे इसलिए कृपया कर चक फैजुल्लापुर में गौशाला के आसपास की भूमि को पूर्व की भांति आवासीय में करने का कष्ट करें।
376	376 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री दीनानाथ खन्ना पुत्र स्वर्गीय दाउदयाल खन्ना, निवासी- देव विहार सिविल लाइन, मुरादाबाद।	गाटा सं0-348 के अन्तर्गत 1947 से 90 वर्ष की लीज पर भूमि प्राप्त है, जिसका पट्टा 1989 को अंतिम 30 वर्ष हेतु निस्तारित हुआ तथा 4917 वर्ग मीटर भूमि प्रार्थी के पक्ष में 2017 फ्रीहोल्ड किये गये प्रार्थी द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया भू-उपयोग न होने के कारण पूर्व में की गयी आपत्ति की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के टाउन प्लानर इस नजूल भूमि को सरकारी भूमि बताने पर आमादा थे, जबकि हमारे द्वारा आपत्ति सुनवाई प्रक्रिया में फ्रीहोल्ड डीड दिखाई गई थी। सम्पूर्ण जानकारी के बावजूद सरकारी भूमि दिखाई जा रही है। प्रार्थी के अहित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है समझ से परे है। भूमि पीटीसी, पुलिस हॉस्पिटल, सरकारी निवास, न्यायिक अधिकारी, कॉलोनी व आवासीय कॉलोनी आदि में स्थित है कोई व्यवसायिक स्थल/कॉम्प्लैक्स नहीं है। उक्त भू-खण्ड के तीन ओर सड़क है, जिस पर व्यवसायिक केन्द्र बनने से आस-पास रहने वाले प्रशिक्षुओं, अधिकारीगण व आम जनता हेतु उपयुक्त होगा। उक्त स्थल को व्यवसायिक केन्द्र में प्रस्तावित करने का अनुरोध किया गया।
377	377 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री चिन्मय अग्रवाल, एडवोकेट, नि0- आवास विकास 93 सिविल लाइन, मुरादाबाद। मो0नं0-9871822524	ग्राम हथला ऐतमाली में गोल्ड जिम आदि व्यवसायिक प्रतिष्ठान दाहिने हाथ पर स्थित है उसके सामने की पट्टी को आवासीय दर्शाया गया है जोकि गलत है वहां पर भी व्यवसायिक लैण्ड यूज होना चाहिए क्योंकि वहां पर 24 मीटर की रोड दर्शायी गयी है तथा जिससे अनाधिकृत गतिविधियां व्यवसायिक संचालित ना हो सके और मास्टर प्लान में समरूपता दिखाई दे तथा मुरादाबाद को भी अधिक आय प्राप्त हो सके तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को अच्छी तरह विकसित कराने में मदद मिले।
378	378 / 20.10.2022	05.11.2022	मेस0 जोवीस इंफ्राटेक, ए0के0 बिल्डर्ज, नि0-36 सिविल लाइन मुरादाबाद। द्वारा दीपक बजाज, एडवोकेट, कचहरी कम्पाउण्ड चेम्बर नं0-182 मुरादाबाद। मो0नं0-9412247478	पीली कोठी के दोनो तरफ व्यवसायिक शोरूम खुल रहे हैं उपरोक्त स्थल जो पूर्णतः व्यवसायिक है पर बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किया जा रहा है, जो अवैध निर्माण को प्रोत्साहित करेगा, जबकि व्यवसायिक घोषित होने पर प्राधिकरण को अधिक राजस्व प्राप्त होगा तथा सुनियोजित विकास को प्रोत्साहन मिलेगा इसके अतिरिक्त कांट रोड पर दोनो तरफ व्यवसायिक शोरूम खुले हुए है जो हथला से भी आगे तक है तथा बीच में पांच पेट्रोल पम्प है। इस पूरी रोड पर व्यवसायिक गतिविधियों है, जबकि प्रस्तावित प्लान में बीच के कुछ क्षेत्र को आवासीय रखा गया है जो गलत है।
379	379 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री राजन वर्मा पुत्र राजेन्द्र वर्मा लाइनपार, विकास नगर मुरादाबाद। मो0नं0-9058562261	चंदौसी रोड पर ग्राम पर मोहम्मदपुर बस्तोर में खसरा संख्या-128 से 169 तक औद्योगिक लैण्ड यूज करने का कष्ट करें ताकि यहां पर फैक्ट्रीयों के नक्शे पास करा कर फैक्ट्रीयां लगाई जा सकें।
380	380 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री प्रतीक रस्तोगी, नि0 अवन्तिका साईं पब्लिक स्कूल, अवन्तिका कालौनी मुरादाबाद। मो0नं0-9045603060	चंदौसी रोड पर एन0एच0 बाईपास से पहले गांगन तिराहा से लिफ्ट साइड गांगन नदी पर करके काफी औद्योगिक निर्माण तेजी से हो रहा है परन्तु यहा औद्योगिक लैण्ड यूज नहीं है अगर इस जगह पर औद्योगिक लैण्ड यूज दे दिया जाये तो यहां औद्योगिक लैण्ड यूज तेजी से होगा। अतः गांगन नदी के बाद एन0एच0 बाईपास से पहले चंदौसी रोड पर इस जगह औद्योगिक लैण्ड यूज करने की कृपा करे।
381	381 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री प्रेमराज, एडवोकेट, चै0नं0-158 कचहरी परिसर, मुरादाबाद। मो0नं0-7906808066	चंदौसी रोड पर ग्राम पर मोहम्मदपुर बस्तोर में खसरा संख्या-128 से 169 तक औद्योगिक लैण्ड यूज करने का कष्ट करें ताकि यहां पर फैक्ट्रीयों के नक्शे पास करा कर फैक्ट्रीयां लगाई जा सकें।
382	382 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री इदरीश अंसरी, पता-मंगपुरा, मुरादाबाद। मो0नं0-9758677186	ग्राम कल्याणपुर एहतमाली में दिल्ली-बरेली एन0एच0 बाईपास के सीधी तरफ सामुदायिक सुविधाओं का लैण्ड यूज प्रदान किया गया है, जबकि एन0एच0 बाईपास के दोनो तरफ के हिस्से पर फैक्ट्रीयों के बनने का चलन है व शहर के कई निर्यातको ने एन0एच0 बाईपास के दोनो तरफ फैक्ट्री व शोरूम बनाने के लिए लैण्ड खरीदना चाहते हैं। परन्तु ग्राम कल्याणपुर एहतमाली एन0एच0 बाईपास पर सीधी तरफ सामुदायिक सुविधाओं के लैण्ड यूज देने से वहां पर किसी भी प्रकार का विकास नहीं होगा। अतः कल्याणपुर एहतमाली में सामुदायिक सुविधाओं की जगह औद्योगिक लैण्ड यूज दिये जाने का अनुरोध किया गया।
383	383 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री शरमेन्द्र सिंह, निवासी-कल्याणपुर एहत माली, मुरादाबाद। मो0नं0-7060149081	ग्राम कल्याणपुर एहतमाली में दिल्ली-बरेली एन0एच0 बाईपास के सीधी तरफ सामुदायिक सुविधाओं का लैण्ड यूज प्रदान किया गया है, जबकि एन0एच0 बाईपास के दोनो तरफ के हिस्से पर फैक्ट्रीयों के बनने का चलन है व शहर के कई निर्यातको ने एन0एच0 बाईपास के दोनो तरफ फैक्ट्री व शोरूम बनाने के लिए लैण्ड खरीदना चाहते हैं। परन्तु ग्राम कल्याणपुर एहतमाली एन0एच0 बाईपास पर सीधी तरफ सामुदायिक सुविधाओं के लैण्ड यूज देने से वहां पर किसी भी प्रकार का विकास नहीं होगा। अतः कल्याणपुर एहतमाली में सामुदायिक सुविधाओं की जगह औद्योगिक लैण्ड यूज दिये जाने का अनुरोध किया गया।
384	384 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री प्रमोद कुमार सक्सेना नि0-रामगंगा विहार मुरादाबाद। मो0नं0-9690482782	ग्राम कल्याणपुर एहतमाली में दिल्ली-बरेली एन0एच0 बाईपास के सीधी तरफ सामुदायिक सुविधाओं का लैण्ड यूज प्रदान किया गया है, जबकि एन0एच0 बाईपास के दोनो तरफ के हिस्से पर फैक्ट्रीयों के बनने का चलन है व शहर के कई निर्यातको ने एन0एच0 बाईपास के दोनो तरफ फैक्ट्री व शोरूम बनाने के लिए लैण्ड खरीदना चाहते हैं। परन्तु ग्राम कल्याणपुर एहतमाली एन0एच0 बाईपास पर सीधी तरफ सामुदायिक सुविधाओं के लैण्ड यूज देने से वहां पर किसी भी प्रकार का विकास नहीं होगा। अतः कल्याणपुर एहतमाली में सामुदायिक सुविधाओं की जगह औद्योगिक लैण्ड यूज दिये जाने का अनुरोध किया गया।

385	385 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री वीलाल अहमद पुत्र इस्तयाक अहमद, सराय, शेख, महजुलाल, मस्जिद रोड, मुरादाबाद। मो0नं0-8630732486	रामपुर रोड लेफ्ट पर आर-1 का आर-1 में है व ग्राम मुस्तफाबाद की गाटा सं0-195, 206, 182, 141, 112, 88 में जो ग्रीन है ग्रीन को हटाकर आर-1 किया जाये ताकि नक्शा पास करा के मकान बनाये जाये ताकि क्षेत्र का विकास हो सके।
386	386 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री अर्पित मिश्रा पुत्र श्री गोपाल मिश्रा, नि0-कटघर गाड़ी खाना, मुरादाबाद। मो0नं0-9634237478	सम्भल रोड पर ग्राम लालपुर हमीर जहां पर 2031 में लैण्ड लघु उद्योग के लिए किया गया है। अतः ग्राम लालपुर हमीर में हाइवे फेसिलिटी को हटाकर लैण्ड यूज को लघु उद्योग किया जाये।
387	387 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री शमसुरहमान पुत्र जमीलउर्रहमान, जिगर कम्पाउण्ड, पंडित नंगला, मुरादाबाद। मो0नं0-8445554056	महायोजना-2031 के प्रारूप में ग्राम राम नगर मंझारा रामपुर रोड पर राइट में ग्रीन वर्जन लगाया जा रहा है, जिसके पास फैंक्ट्रियों का चलन मौके पर है। अतः ग्रीन लैण्ड यूज को हटाकर फैंक्ट्रियों के लिए लैण्ड यूज लगाने की कृपा करे।
388	388 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री सलमान मलिक, एडवोकेट, चै0नं0-233ए, मुरादाबाद व अमन सिंह राजपुत, एडवोकेट, चै0नं0-92, कोर्ट कैम्पस मुरादाबाद। मो0नं0-9837265363	1-दिल्ली रोड मुरादाबाद ग्राम-लाकड़ी फाजलपुर पर एक तरफ व्यवसायिक शोरूम लाईन से बने हुए है, जिन्हे महायोजना-2031 में औद्योगिक लैंडयूज में दिखाया है, जबकि महायोजना-2031 के प्लान में दर्शाए गये मानचित्र में वर्तमान लैंड यूज की ग्राम लाकड़ी फाजलपुर दिल्ली रोड मुरादाबाद के इस हिस्से को कॉमर्शियल यूज दर्शाया है, जो कि स्पष्ट नहीं है। 2-सिटी में औद्योगिक एरिया नहीं होता है, सिटी के बाहर पांच बीघा या इससे अधिक लैण्ड होने पर ही इंडस्ट्री लगती है, लेकिन यहां पर लैण्ड कास्ट अधिक होने की वजस से इण्डस्ट्री नहीं बन सकती। 3-जब यह 2001 में सिटी का पार्ट नहीं था तब यह इण्डस्ट्री घोषित की थी यह तभी से चला आ रहा है। दिल्ली रोड पर व्यवसायिक गतिविधि के लिए कौन सी जगह श्रीमान जी द्वारा चिन्हित की गई है या नहीं। 4-वर्ष 2011 से 2021 तक कौन से नक्शे पास किए है या नहीं किए है यदि नहीं किए है तो इसका मतलब आप जानबूझकर व्यवसायियों को प्रताड़ित करने की वजह से आपने इण्डस्ट्रीयल एरिया कर रखा है, जबकि व्यवसायिक एरिया होना चाहिए। 5-सिटी को स्मार्ट बनाने की ओर अग्रसर है लेकिन सिटी को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ व्यवसाय का ध्यान भी रखा जाना चाहिए ताकि व्यवसायियों को कोई परेशानी न हो। अतः अनुरोध है कि दिल्ली रोड मुरादाबाद पर स्थित व्यवसायिक गतिविधियां होने की पूर्ण सम्भावना है को कॉमर्शियल लैण्ड यूज जनहित में घोषित की जावे जिससे जनहित को भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
389	389 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री विकास जैन, सदस्य, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, निवास-श्री राम विहार कालौनी, कचहरी प्रांगण, मुरादाबाद।	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 110 वीं बोर्ड बैठक में रामगंगा नदी तट को सागरमती रिवरफ्रंट विकसित करने का प्रस्तावत पारित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी महायोजना'2031 की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मुरादाबाद नगर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों की सुन्दरता बढ़ाने के लिए महायोजना-2031 में रामगंगा नदी के किनारे भूमि का आवासीय/व्यवसायिक एवं मनोरंजन पार्क के लिए चिन्हित कर रिजर्व किया जाना परम आवश्यक है तथा रिवरफ्रंट के किनारे बड़े-2 मॉल कॉपलैक्स व पार्क आदि बनाये जाने से रोजगार के अनेक साधन उत्पन्न होंगे। अतः रामगंगा नदी के किनारे प्रस्तावित 12 किमी क्षेत्र को सावरवती रिवरफ्रंट के तट पर विकसित करने हेतु रामगंगा नदी तट क्षेत्र को आवासीय /व्यवसायिक एवं मनोरंजन पार्क के लिए चिन्हित कर रिजर्व करने का अनुरोध किया गया।
390	390 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री राजू कालरा, सदस्य, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, निवास-एल0आई0 जी0,-बी-125 रामगंगा विहार-2, मुरादाबाद।	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 110 वीं बोर्ड बैठक में रामगंगा नदी तट को सागरमती रिवरफ्रंट विकसित करने का प्रस्तावत पारित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी महायोजना'2031 की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मुरादाबाद नगर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों की सुन्दरता बढ़ाने के लिए महायोजना-2031 में रामगंगा नदी के किनारे भूमि का आवासीय/व्यवसायिक एवं मनोरंजन पार्क के लिए चिन्हित कर रिजर्व किया जाना परम आवश्यक है तथा रिवरफ्रंट के किनारे बड़े-2 मॉल कॉपलैक्स व पार्क आदि बनाये जाने से रोजगार के अनेक साधन उत्पन्न होंगे। अतः रामगंगा नदी के किनारे प्रस्तावित 12 किमी क्षेत्र को सावरवती रिवरफ्रंट के तट पर विकसित करने हेतु रामगंगा नदी तट क्षेत्र को आवासीय /व्यवसायिक एवं मनोरंजन पार्क के लिए चिन्हित कर रिजर्व करने का अनुरोध किया गया।
391	391 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री हाजी मौ0 आलम अंसारी पुत्र श्री दुल्हा मियां, नियर हमसफर हॉल, जामा मस्जिद, मुरादाबाद। मो0नं0-9897035299	ग्राम रसूलपुर नंगला खेम तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा सं0-30 व 31 का आधा भाग सी-2 व आधा भाग पी-2 दर्शाया गया है। गाटे में पहले स मकान बने है। अतः इन गाटो को पूरा सी-2 में कर देने पर नक्शे पास होंगे, जिससे प्राधिकरण को राजस्व मिलेगा तथा यहां पर रहने वाले लोगों को फायदा होगा। अतः गाटा सं0-30 व 31 के पूरे भाग को सी-2 करने का अनुरोध किया गया।
392	392 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री गुलजार अहमद पुत्र अब्दुल मजीद, नि0-मकबरा रोड मुरादाबाद। मो0नं0-9219159155	ग्राम रसूलपुर नंगला खेम तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा सं0-30 व 31 का आधा भाग सी-2 व आधा भाग पी-2 दर्शाया गया है। गाटे में पहले स मकान बने है। अतः इन गाटो को पूरा सी-2 में कर देने पर नक्शे पास होंगे, जिससे प्राधिकरण को राजस्व मिलेगा तथा यहां पर रहने वाले लोगों को फायदा होगा। अतः गाटा सं0-30 व 31 के पूरे भाग को सी-2 करने का अनुरोध किया गया।
393	393 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री अनिस अहमद, दौलत बाजार, मुरादाबाद। मो0नं0-9837744055	ग्राम रसूलपुर नंगला खेम तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा सं0-30 व 31 का आधा भाग सी-2 व आधा भाग पी-2 दर्शाया गया है। गाटे में पहले स मकान बने है। अतः इन गाटो को पूरा सी-2 में कर देने पर नक्शे पास होंगे, जिससे प्राधिकरण को राजस्व मिलेगा तथा यहां पर रहने वाले लोगों को फायदा होगा। अतः गाटा सं0-30 व 31 के पूरे भाग को सी-2 करने का अनुरोध किया गया।

394	394 / 20.10.2022	05.11.2022	मौ0 अजमद पुत्र हाजी मौ0 आलम अंसारी, नियर हमसफर शादी हॉल, जामा मस्जिद, मुरादाबाद। मौ0नं0-8791744628	ग्राम रसूलपुर नंगला खेम तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा सं0-30 व 31 का आधा भाग सी-2 व आधा भाग पी-2 दर्शाया गया है। गाटे में पहले स मकान बने है। अतः इन गाटो को पूरा सी-2 में कर देने पर नक्शे पास होंगे, जिससे प्राधिकरण को राजस्व मिलेगा तथा यहां पर रहने वाले लोगो को फायदा होगा। अतः गाटा सं0-30 व 31 के पूरे भाग को सी-2 करने का अनुरोध किया गया।
395	395 / 20.10.2022	05.11.2022	मौ0 आजम अंसारी पुत्र हाजी मौ0 आलम अंसारी, नियर हमसफर शादी हॉल, जामा मस्जिद, मुरादाबाद। मौ0नं0-9997147600	ग्राम रसूलपुर नंगला खेम तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा सं0-30 व 31 का आधा भाग सी-2 व आधा भाग पी-2 दर्शाया गया है। गाटे में पहले स मकान बने है। अतः इन गाटो को पूरा सी-2 में कर देने पर नक्शे पास होंगे, जिससे प्राधिकरण को राजस्व मिलेगा तथा यहां पर रहने वाले लोगो को फायदा होगा। अतः गाटा सं0-30 व 31 के पूरे भाग को सी-2 करने का अनुरोध किया गया।
396	396 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री संजीव रस्तोगी, अध्यक्ष आर्किटेक्ट एसोसिएशन, मुरादाबाद। मौ0नं0-8630643985	1-शहर के मध्य 18 एकड़ जमीन को बाहर स्थापित करते हुए पार्किंग व अन्य सुझाव विकसित करने का सुझाव दिया गया। 2-कांट रोड पर पिली कोठी चौराहे से कॉसमास हास्पिटल तक दोनो ओर लगभग कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित है व भविष्य में भी कॉमर्शियल गतिविधियां ही संचालित होगी। भूमि के सर्किल रेट एवं गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक द्वारा बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग प्रदान करने हेतु सुझाव दिया गया है। 3-दिल्ली रोड पर मंझोला पुल से चौधरी चरण सिंह तक दोनो ओर कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित हो रही है इस कारण बाजार स्ट्रीट का प्राविधान किया जाने का सुझाव दिया गया। 4-चौधरी चरण सिंह चौक से गांगन नदी तक रोड के बायी ओर इंडस्ट्रीयल लैण्डयूज दिया गया है, जबकि मौके पर केवल 1-2 इंडस्ट्रीयल इकाई जो लगभग 20 वर्ष से स्थापित है को छोड़कर कोई इंडस्ट्री नहीं लगी पूरे हिस्से पर कुछ कारो के शोरूम संचालित है। कॉमर्शियल भू-उपयोग न होने के कारण स्थल का विकास नहीं हो पा रहा है अतः रोड के इस 02 किमी हिस्से को कॉमर्शियल प्रस्तावित करने का सुझाव दिया गया। 5-गांगन नदी से एमडीए ऑफिस तक रोड के दोनो ओर आवीसय लैण्डयूज में कुछ स्थानो पर बाजार स्ट्रीट का प्राविधान किया गया है। मास्टर प्लान 2031 लागू होने के उपरान्त विकास पूर्ण होने की सम्भावना है रोड के दाहिने हिस्से में कुछ हिस्सा बाजार स्ट्रीट से वंचित रखा गया है इसे बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। 6-आवेदक द्वारा दिल्ली बरेली बाईपास पर औद्योगिक लैण्डयूज प्रस्तावित किया गया है, कुछ ओर स्थानो पर यथा ग्राम उमरी सब्जीपुर व कल्याणपुर एहतमाली में बड़े बाईपास पर छोटे बड़े निर्यातक इंडस्ट्री व शोरूम बना सके इस हेतु आर-2 अथवा कॉमर्शियल लैण्डयूज देने का सुझाव दिया गया है।
397	397 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री जितेन्द्र सिंह, शाहपुर तिगरी (सानकपुर योजना के निकट) तहसील व जिला मुरादाबाद।	ग्राम शाहपुर तिगरी तह0 व जिला मुरादाबाद का भू-उपयोग आवासीय दर्शित किया गया है, जिसके समीप व्यवसायिक सेन्टर बनाया गया है, जो कॉमर्शियल (कॉमप्लेक्स) है उक्त के समीप रोडो पर ट्रैफिक आने जाने में समस्या उत्पन्न करता है जो आबादी के लिए जनहित में नहीं है। अतः गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए आवासीय भू-उपयोग किये जाने का अनुरोध किया गया।
398	398 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री अजीत ठाकुर, नि0-ग्राम-वसन्तपुर रामसराय तहसील व जिला मुरादाबाद। मौ0नं0-9359710023	ग्राम बसंतपुर तह0 व जिला मुरादाबाद में डियर पार्क के समीप औद्योगिक एम-1 भू-उपयोग दर्शित है जो घनी आबादी एवं आवासीय भवन के कारण उचित नहीं है आबादी का बड़ा भाग कृषि करता है, उक्त भूमि का भू-उपयोग कृषि किये जाने का अनुरोध किया गया।
399	399 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री अंकित, ग्राम पंडित नंगला (साहिबाबाद) ट्रान्सपोर्ट नगर के सामने, सम्मल रोड, तहसील व जिला मुरादाबाद। मौ0नं0-9837112856	ग्राम पंडित नंगला साहिबाबाद ट्रान्पोर्ट नगर के सामने सम्मल रोड तह0 व जिला मुरादाबाद का भू-उपयोग पी-3 में दर्शित किया जाये जो कि यहां की घनी आबादी एवं आवासीय भवन के कारण उचित है, जिसका भू-उपयोग पी-3 पार्क-खुला क्षेत्र एवं क्रीडा स्थल अति आवश्यक है। बड़ी आबादी रहने के कारण औद्योगिक नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त भूमि पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए पी-3 यथास्थिति किये जाने का अनुरोध किया गया।
400	400 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री सतेन्द्र चौहान नि0-ग्राम-बरवारा मंझरा तहसील व जिला मुरादाबाद। मौ0नं0-9536331819	मास्टर प्लान 2031 ड्रापट में ग्राम बरवारा मंझरा तह0 व जिला मुरादाबाद का भू-उपयोग औद्योगिक एम-1 दर्शित है जोकि यहां की घनी आबादी एवं आवासीय भवन के कारण उचित नहीं है। जिसका भू-उपयोग आवासीय किया जाना अति आवश्यक है। बड़ी आबादी रहने के कारण वातारण प्रदूषित नहीं किया जा सकता है। अतः गम्भीरता पूर्वक विचार कर उक्त भूमि को आवासीय भू-उपयोग किये जाने का अनुरोध किया गया।
401	401 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री अमितचन्द, निवासी-दीनदयाल नगर तहसील व जिला मुरादाबाद। मौ0नं0-9354394300	ग्राम-हरथला एहतमाली एम0आई0आई0 के सामने वेव मॉल के पास तह0 व जिला मुरादाबाद का भू-उपयोग आवासीय में दर्शित किया जाये। यहां की आबादी एवं आवासीय भवन, बंगले होने के कारण उचित है, जिसका भू-उपयोग कॉमर्शियल नहीं किया जा सकता। अतः गम्भीरता पूर्वक विचार कर उक्त भूमि को आवासीय भू-उपयोग किये जाने का अनुरोध किया गया।
402	402 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री पंडित मुरारी पुत्र श्री हरप्रसाद नि0- ग्राम पड़ियो की मिलक, मुरादाबाद।	ग्राम मोहम्मदपुर बस्तौर मेन रोड पर लगभग 30 बीघा भूमि पर घना आम का बाग है, जिसे औद्योगिक दर्शाया गया है। इस विक्रती को दूर करते हुए पेड़ो को संरक्षित किया जाये अन्यथा पेड़ो का काटते हुए यहां पर भू-माफियाओं द्वारा प्लॉटिंग अथवा फैंक्ट्री स्थापित कर दी जायेगी पेड़ मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है इसे बचाने का प्रयास किया जाये। इस हेतु महायोजना प्रारूप में बाग को यथावत स्थापित किया जाये।
403	403 / 20.10.2022	05.11.2022	श्री रोहित जैन पुत्र श्री कमल कुमार जैन, ग्राम-रतनपुर कलां, मुरादाबाद।	ग्राम लाकड़ी फाजलपुर, व गांगन नदी के मध्य नियोजित पार्क खुला क्षेत्र व क्रीडा स्थल की भूमि को समाप्त करते हुए औद्योगिक भूमि के रूप में अंकित किया गया है। इस प्रकार अगर पार्क खुला क्षेत्र व क्रीडा स्थल को समाप्त कर औद्योगिक भूमि घोषित की जायेगी तो आने वाले समय में जनता के लिए घूमने व बच्चो के खेलने का कोई मैदान उपलब्ध नहीं हो सकेगा। इसे बनाये रखना बहुत ही आवश्यक है। अतः इसे औद्योगिक न करते हुए पार्क खुला क्षेत्र व क्रीडा स्थल के रूप में ही विकसित किया जाये।

404	404/20.10.2022	05.11.2022	श्री कपिल कुमार पुत्र श्री रामपाल सिंह ग्राम भैंसिया तह0 व जिला मुरादाबाद।	ग्राम बसंतपुर रामराय में अवैध फ़ैक्ट्रीयों को महायोजना में बैंगनी रंग से दर्शाते हुए औद्योगिक भूमि की जा रही है। मेरी आपत्ति है कि भूमि डियर पार्क से कुछ ही दूरी पर स्थित है तथा रामगंगा नदी के निकटतम है। इन फ़ैक्ट्रीयों का जहरीला पानी नदी में डालकर आम जनजीवन को प्रभावित करेगा। मेरा सुझाव है कि इंडस्ट्रीयल ऐरिया मोहम्मदपुर बस्तोर व लाकड़ी फाजलपुर तथा भैंसिया में स्थित है। अतः अनुरोध है कि दर्शित फ़ैक्ट्री ऐरिया को यहां से समाप्त कराते हुए अन्य जगह स्थापित कर दिया जाये।
405	405/20.10.2022	05.11.2022	श्री महेश सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद सिंह निवासी-बरवारा मंझरा मुरादाबाद।	ग्राम बरवारा मंझरा के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से बनायी गयी फ़ैक्ट्री को बैंगनी रंग से प्रदर्शित किया गया है, जो गलत है। अतः इस अवैध फ़ैक्ट्री को यहां से अन्यत्र शिफ्ट किया जाना जनहित में आवश्यक है।
406	406/20.10.2022	05.11.2022	मौ0 इमरान सैफी पुत्र अब्दुल सैफी निवासी-ग्राम पंडित नंगला तहसील व जिला मुरादाबाद।	महायोजना-2031 में बाईपास से लेकर गांगन नदी तक चंदौसी रोड के बांयी ओर का भाग औद्योगिक कर दिया गया है, जबकि यह क्षेत्र रोड से काफी नीचा है तथा नदी व काफी उंचे बने मध्य का भाग है। जिसमें बरसात के दिनों में काफी अधिक बारिश का पानी एकत्र होता है क्षेत्र किसी भी दशा में औद्योगिक किये जाने के योग्य नहीं यहा 1-2 की फ़ैक्ट्रीयां स्थापित शेष क्षेत्र आवासीय विकसित हो रहा है। अतः इसे औद्योगिक घोषित न किया जाये।
407	407/20.10.2022	05.11.2022	श्री शम्भू सरन पुत्र श्री विष्णु सरन, गुलाबबाड़ी निकट हनुमान मूर्ति मुरादाबाद।	रामपुर रोड के बांयी तरफ रामगंगा नदी एवं हनुमान मूर्ति के निकट एस0टी0पी0 नगर निगम भूमि निर्मित क्षेत्र दर्शाया गया है जोकि घोर आपत्तिजनक है व नियम विरुद्ध दर्शाया गया है। यदि उक्त सीन का भू-उपयोग परिवर्तित होता है तो इसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रवासियों सीनियर सिटीजन व्यक्तियों को टहलने, घूमने एवं बच्चों आदि को खलने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पायेगा।
408	408/20.10.2022	05.11.2022	श्री कमरुल हसन पुत्र श्री रहीमउददीन, निवासी-निकट बिन्धू वाली मस्जिद मुरादाबाद।	ग्राम मुस्तफाबाद एह0 के अन्तर्गत रोड के किनारे प्रदर्शित ग्रीन क्षेत्र में प्रारूप महायोजना-2031 में लाल रंग से कुछ भूमि प्रदर्शित की गयी है तथा पूरे ग्रीन क्षेत्र में मात्र कुछ मामूली अंश की भूमि को लाल रंग से कामर्शियल किया गया है। शेष भूमि का पार्क के रूप में छोड़ दिया गया है, इससे यह समझ आता है कि केवल व्यक्ति विशेष का ही लाभ पहुँचाना है। शेष आमजन समाज को आर्थिक हानि पहुँचाना है इस सभी क्षेत्र को कॉमर्शियल किया जाये अथवा सभी को पार्क में रखा जाये।
409	409/20.10.2022	05.11.2022	श्री विजयवीर चौहान पुत्र श्री रणवीर सिंह चौहान निवासी-ग्राम-चौहानो की मिलक, मिनी बाईपास, मुरादाबाद।	ग्राम चक फ़ैजुल्लुपर के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाईपास व गांगन नदी के मध्य महायोजना-2021 के ग्रीन भूमि को औद्योगिक में परिवर्तित किया गया है, जो गलत है। इस भूमि को महायोजना-2031 में उसी रूप में प्रदर्शित किया जाये।
410	410/17.10.2022	05.11.2022	श्री तेज प्रताप सिंह एवं समस्त ग्रामवासी, निवासी ग्राम बागड़पुर, तहसील व जिला मुरादाबाद। मो0नं0-7456099364	ग्राम-बागड़पुर के गाटा सं0-311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 व 338 का भू-उपयोग महायोजना-2021 में टीटी/बीटी निर्धारित किया गया था, जिसे परिवर्तित कर महायोजना-2031 में आवासीय में दर्शित किया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। अतः उक्त स्थल को महायोजना-2031 में यथावत टीटी/बीटी रखे जाने का अनुरोध किया गया है।